



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 10—मार्च 16, 2012 (फाल्गुन 20, 1933)
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 10—MARCH 16, 2012 (PHALGUNA 20, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई, दिनांक 24 जनवरी 2012

बैंपवि. सं. आरईटी बीसी. 73/12.01.001/2011-2012--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व में जारी 20 अप्रैल 2010 की अधिसूचना बैंपवि.सं.आरईटी बीसी. 89/12.01.001/2009-2010 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा अधिसूचित करता है कि प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा रखा जाने वाला औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 28 जनवरी 2012 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 5.50 प्रतिशत होगा।

बी. महापात्र

कार्यपालक निदेशक

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2012

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 1-सी.ए.(7)/143/2012--चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया की परिषद्, दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की दिनांक 9 नवम्बर, 2011 से जिला विरुद्धनगर, तमिलनाडु के शिवकाशी नगर में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् की शिवकाशी शाखा के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शिवकाशी के साथ-साथ जिला विरुद्धनगर की सीमा के भीतर आने वाले निम्नलिखित तालुका आयेंगे :--

1. राजपलायम
2. विरुद्धनगर
3. श्री विल्लीपुथुर
4. सत्तूर
5. अरुप्पूकोत्तई

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद् के नियंत्रण पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किये जाएंगे।

टी. कार्तिकेयन
सचिव

सं. 1-सी.ए.(7)/144/2012--चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया की परिषद्, दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 से जिला कन्नूर, केरल के कन्नूर नगर में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् की कन्नूर शाखा के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कन्नूर के साथ-साथ जिला कन्नूर की सीमा के भीतर आने वाले निम्नलिखित शहर/नगर आयेंगे :--

1. चम्पेरी
2. चेंदयाद प. ओ.
3. एदावारम्बा प. ओ.
4. इरिटी
5. कुदचिरा
6. कादिरूर
7. मत्तानुर
8. मोराज्हा प.ओ.
9. पलावायल
10. पय्यानुर
11. पेरिन्नाथुर
12. तालीपरम्बा
13. तेलीचेरी
14. उदयगिरी

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद् के नियंत्रण पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किये जायेंगे।

टी. कार्तिकेयन
सचिव

11 NOV 2011

3एनसीए(5)/1/2010-11 : संस्थान की अधिसूचना सं. 3एनसीए(4)/1/2010-2011 तारीख 5 सितंबर, 2011 के प्रतिनिर्देश से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् ने निम्नलिखित सदस्यों के नामों को भूतलक्षी प्रभाव से तारीख 1.10.2010 से सदस्यों के रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट कर दिया है :-

क्रम सं.	सदस्यता संख्यांक	सदस्य का नाम
1.	004823	सीए. कपूर केवल कृष्ण
2.	005121	सीए. बक्शी प्रेम नाथ
3.	007935	सीए. सेठ इंद्रजीत
4.	008224	सीए. जीतेन्द्र नाथ
5.	009152	सीए. ग्रोवर प्रमोद
6.	009549	सीए. कपूर रमेश चन्दर
7.	010474	सीए. सुरेखा धनश्याम प्रसाद
8.	011742	सीए. सरदाना धर्मवीर
9.	013067	सीए. कैलाशम वाई
10.	013118	सीए. जैन श्री चंद
11.	016485	सीए. नारंग जरनैल सिंह
12.	016543	सीए. तखतनी लछमण दास
13.	016914	सीए. कोच्चर दीपक
14.	017554	सीए. संतोष कुमार वैद
15.	017563	सीए. गुलाटी राजेन्द्र कुमार
16.	018907	सीए. विजया कुमार एस
17.	028106	सीए. सुजाता आर
18.	039219	सीए. अग्रवाल अशोक कुमार
19.	041580	सीए. अयालुर सुब्रमणियन नारायण
20.	049080	सीए. चोरावाला दक्षा चन्द्रकांत
21.	051616	सीए. साहा जगदीश प्रसाद
22.	052650	सीए. बरूआ सुरिन्दर कुमार
23.	054008	सीए. टेकरीवाल आशिष कुमार
24.	054214	सीए. अदिती डे
25.	054289	सीए. आबिद हुसैन
26.	056035	सीए. जैन ध्रुव

क्रम सं.	सदस्यता संख्यांक	सदस्य का नाम
27.	056148	सीए. डालमिया राजेश कुमार
28.	056363	सीए. सरकार संघामित्रा
29.	056659	सीए. टी आर सुरेश
30.	059784	सीए. बगरिया राहुल
31.	060137	सीए. जोशी सरिता
32.	060448	सीए. व्यास संत कुमार
33.	060603	सीए. रे सौरव
34.	061164	सीए. लोढा नारायण
35.	061341	सीए. पिलानीवाला मीनू कुमार
36.	061669	सीए. अग्रवाल वीरेन्द्र
37.	062909	सीए. झा विजया नंद
38.	064394	सीए. रापती बासु
39.	066269	सीए. आशुतोष मिश्रा
40.	066892	सीए. रक्षित कपूर
41.	070923	सीए. अग्रवाल दिनेश
42.	071486	सीए. अश्वनी कुमार
43.	071737	सीए. चौरदिया अशोक कुमार
44.	072872	सीए. अग्रवाल आलोक कुमार
45.	072917	सीए. अनिल कुमार
46.	073234	सीए. पदमनाभन आर
47.	074973	सीए. गुप्ता अनूप कुमार
48.	075076	सीए. गुप्ता संदीप कुमार
49.	076188	सीए. मित्तल नीतू
50.	076667	सीए. वर्मा संजय
51.	077423	सीए. जैन राकेश कुमार
52.	077796	सीए. अग्रवाल अनुराग

53.	077804	सीए. कौल रमेश
54.	077916	सीए. सेठी विनय
55.	078067	सीए. सिंघल रोहित
56.	078075	सीए. सिंघवी महावीर
57.	079140	सीए. प्रवीन वर्मा
58.	079162	सीए. सेठ संजय
59.	079428	सीए. गर्ग विशाल
60.	079801	सीए. नागर पूजा
61.	079832	सीए. पोतदार अनुराग
62.	080062	सीए. पसरीजा मुल्क राज
63.	080161	सीए. मेहरा अशोक कुमार
64.	080179	सीए. सुमत प्रकाश
65.	080296	सीए. धींगरा कृष्ण कुमार
66.	080768	सीए. आहुजा अरुण कुमार
67.	080892	सीए. पीर रोशन लाल
68.	081129	सीए. गुप्ता वीर चंद
69.	081253	सीए. राम गोपाल
70.	081581	सीए. मल्होत्रा मन मोहन
71.	081738	सीए. गर्ग राम बिलास
72.	081834	सीए. शर्मा सिद्धांता
73.	081850	सीए. चुघ अनिल कुमार
74.	081855	सीए. जैन रमेश चंद
75.	082010	सीए. धुपर सुनील
76.	082046	सीए. मुनीश कुमार
77.	082071	सीए. लक्ष्मी नारायण
78.	082155	सीए. नारायण प्रेम
79.	082169	सीए. कृष्ण कुमार गर्ग
80.	082320	सीए. गुप्ता अनिल कुमार
81.	082331	सीए. जैन अनिल कुमार
82.	082564	सीए. गुप्ता राजीव
83.	082903	सीए. अग्रवाल बृजेश कुमार
84.	082915	सीए. सुनील कुमार
85.	082944	सीए. साहनी अश्वनी कुमार
86.	083037	सीए. नरेन्द्र कुमार
87.	083334	सीए. कपूर अरुण कुमार
88.	083377	सीए. सेङ्डी संजीव
89.	083635	सीए. तिबरेवाला प्रमोद कुमार
90.	083716	सीए. गुप्ता कृष्ण कुमार
91.	083768	सीए. रोहताश कुमार
92.	084027	सीए. कश्यप विनोद
93.	084118	सीए. गुप्ता संजीव
94.	084218	सीए. जोशी रविन्द्र कुमार
95.	084224	सीए. गुप्ता राजीव कुमार

96.	084246	सीए. बंसल शिव राज
97.	084275	सीए. रमेश चंद
98.	084277	सीए. आनंद अजय कुमार
99.	084342	सीए. खोसला गगन
100.	084352	सीए. सचदेवा मन मोहन
101.	084375	सीए. कालरा प्रहलाद नारायण
102.	084425	सीए. वढेरा सुरेश मोहन
103.	084460	सीए. वरमानी दिनेश
104.	084545	सीए. लेख राज
105.	084579	सीए. नारंग विनोद
106.	084668	सीए. उज्जल दीदार सिंह
107.	084680	सीए. शर्मा आनंद प्रकाश
108.	084758	सीए. रवि कुमार वी
109.	084811	सीए. मेहता संजय
110.	084998	सीए. राहेजा आनंद
111.	085303	सीए. गुप्ता जय प्रकाश
112.	085428	सीए. दुआ विजय कुमार
113.	085476	सीए. बोरकर चन्द्रशेखर भास्कर
114.	085483	सीए. मेहरोत्रा सुशील कुमार
115.	085533	सीए. गुप्ता रतनेश कुमार
116.	085585	सीए. खोसला अरुण कुमार
117.	085605	सीए. सुशील कुमार
118.	085643	सीए. गुप्ता राजीव
119.	085652	सीए. सुनील कुमार
120.	085984	सीए. सूद राजीव
121.	086057	सीए. लूना उमेश कुमार
122.	086217	सीए. जयसिंह मुकेश कुमार
123.	086247	सीए. मारवाह रमन
124.	086283	सीए. चढ्ढा अरुण
125.	086295	सीए. सुरेश कुमार
126.	086350	सीए. अग्रवाल पीयूष कुमार
127.	086391	सीए. साहनी अजय
128.	086436	सीए. सैनी गंगा धर
129.	086458	सीए. अजय रेलन
130.	086629	सीए. शर्मा नरेश
131.	086748	सीए. शेखर बाबू
132.	086843	सीए. चोपड़ा सुनील
133.	086863	सीए. दुधा शिवन कृष्ण
134.	086871	सीए. पलाहा राजीव
135.	086902	सीए. माथुर दिलीप नाथ
136.	086944	सीए. मिगलानी चन्दर कांत
137.	086947	सीए. नंदा मनोज कुमार
138.	086979	सीए. सेठ संदीप

139.	087104	सीए. अग्रवाल जीतेन्द्र
140.	087266	सीए. जैन पंकज
141.	087315	सीए. अग्रवाल सुनील कुमार
142.	087399	सीए. जैन संजय
143.	087619	सीए. जौहरी राम मोहन
144.	087676	सीए. गुप्ता विजय कुमार
145.	087757	सीए. कपूर राजीव
146.	087771	सीए. सर्वदमन
147.	087826	सीए. सच्चर पंकज
148.	087845	सीए. सुनील कुमार
149.	087907	सीए. शर्मा धीरेन्द्र
150.	087994	सीए. गुप्ता विनोद कुमार
151.	088030	सीए. अनेजा हरविन्दर सिंह
152.	088050	सीए. मगन योगेश कुमार
153.	088188	सीए. सेठी अनिल
154.	088207	सीए. हसीजा संजय
155.	088290	सीए. श्याम सुन्दर
156.	088295	सीए. रामा आर
157.	088459	सीए. भंडारी नीरज
158.	088521	सीए. आहुजा अजय
159.	088801	सीए. गुप्ता मधुसूदन
160.	088807	सीए. गुप्ता हिमांशु
161.	089023	सीए. जैन परवीन कुमार
162.	089025	सीए. मल्होत्रा संजीव
163.	089026	सीए. अग्रवाल अनिल कुमार
164.	089099	सीए. विर्क प्रभजीत सिंह
165.	089153	सीए. जैन राकेश कुमार
166.	089186	सीए. घाटोह इंद्रजीत सिंह
167.	089286	सीए. भट्ट अजय कुमार
168.	089584	सीए. अग्रवाल राजीव
169.	089704	सीए. हरिहरन वी एस
170.	089887	सीए. गोयल नितिन के
171.	089904	सीए. शर्मा सुरेश
172.	089946	सीए. गुप्ता दीपक
173.	089990	सीए. अग्रवाल रोहिणी
174.	090026	सीए. मित्तल राकेश कुमार
175.	090243	सीए. सूद राजीव
176.	090395	सीए. शर्मा अजय
177.	090450	सीए. गोयल अजय
178.	090512	सीए. जैन पंकज
179.	090513	सीए. गुप्ता अविनाश
180.	090587	सीए. राजीव कुमार
181.	090590	सीए. चुघ आलोक

182.	090618	सीए. मनीष चन्द्र
183.	090685	सीए. मल्होत्रा संजय
184.	090694	सीए. रेखी सुनील
185.	090843	सीए. श्याम लाल
186.	090965	सीए. दुआ गुलशन
187.	091048	सीए. गुप्ता विवेक
188.	091087	सीए. भल्ला मनीष
189.	091187	सीए. अग्रवाल ललित कुमार
190.	091290	सीए. पांडेय धनश्याम
191.	091345	सीए. खन्ना दीपक
192.	091363	सीए. बहल संजय
193.	091366	सीए. सलिल कुमार
194.	091500	सीए. बहल आदेश चन्द्र
195.	091502	सीए. अशोक कुमार
196.	091530	सीए. दीपक कुमार महाजन
197.	091562	सीए. मित्तल अजय कुमार
198.	091593	सीए. अनिल कुमार
199.	091679	सीए. राजेश कुमार गुप्ता
200.	091764	सीए. सुनील कुमार
201.	091838	सीए. सचदेवा भूपेश चन्द्र
202.	091848	सीए. गुप्ता मनीष
203.	091895	सीए. सेठ जगमोहन सिंह
204.	092049	सीए. कपूर राजेश
205.	092150	सीए. गुप्ता ऋषि प्रकाश
206.	092158	सीए. बंसल गोविन्द
207.	092223	सीए. शर्मा अनूप
208.	092265	सीए. सिंह धर्मवीर बृजनंदन
209.	092392	सीए. समीर सिंह
210.	092506	सीए. मित्तल सुशील कुमार
211.	092562	सीए. गुप्ता अश्वनी
212.	092594	सीए. गौड अबनीश बाबू
213.	092675	सीए. जैन पूर्णिमा
214.	092741	सीए. मलिक संजय
215.	092742	सीए. भाटिया राजीव
216.	092802	सीए. सिन्हा रचना
217.	092828	सीए. ओबराय जगदीप सिंह
218.	092855	सीए. जैन सोमेश कुमार
219.	092866	सीए. बाहरी समीर
220.	092944	सीए. यादव राजेश
221.	092953	सीए. सांघी रुचि
222.	093038	सीए. अश्वनी कुमार
223.	093099	सीए. भाटिया रमेश
224.	093121	सीए. जैन राजीव

225.	093135	सीए. गुलाटी पवन
226.	093208	सीए. खेतान दिनेश
227.	093267	सीए. नय्यर ऋषि
228.	093342	सीए. रस्तोगी रितु
229.	093379	सीए. सुभाष चन्द्र
230.	093386	सीए. राकेश कुमार
231.	093398	सीए. शर्मा नीरज
232.	093523	सीए. जे आनंद
233.	093540	सीए. तिवारी आशुतोष
234.	093861	सीए. सुधीर कुमार
235.	093916	सीए. अग्रवाल अखिलेश
236.	093924	सीए. इंदू बाला
237.	094019	सीए. जोगिन्दर सिंह
238.	094067	सीए. चौधरी संदीप
239.	094183	सीए. संदीप कुमार
240.	094276	सीए. राजा इचपलानी
241.	094360	सीए. गुप्ता अरुण
242.	094427	सीए. संदीप कुमार
243.	094485	सीए. बतरा सुनील
244.	094488	सीए. गुप्ता पवन
245.	094575	सीए. चौधरी राकेश कुमार
246.	094623	सीए. अग्रवाल महेन्द्र कुमार
247.	094861	सीए. गुप्ता समीर
248.	094897	सीए. नरेश कुमार
249.	095010	सीए. सुशील कुमार
250.	095059	सीए. सिंह गुरविन्दर
251.	095068	सीए. महाजन रेणु
252.	095095	सीए. मोहन अमित
253.	095204	सीए. पाहवा पुनीत
254.	095219	सीए. बतरा नीरज
255.	095319	सीए. तरुण कुमार
256.	095475	सीए. जैन नवीन कुमार
257.	095489	सीए. मगनदीप
258.	095491	सीए. विजय कुमार
259.	095506	सीए. गुप्ता संजय
260.	095529	सीए. गुलाटी अमन
261.	095535	सीए. कपूर नितिन
262.	095562	सीए. मनीष कुमार
263.	095565	सीए. सुनील कुमार
264.	095578	सीए. भट्ट सुनील कुमार
265.	095612	सीए. भल्ला अमित
266.	095633	सीए. कश्मीर सिंह सोखल
267.	095655	सीए. कोहली गगन

268.	095679	सीए. गौरव कुमार
269.	095761	सीए. गर्ग प्रीति
270.	095810	सीए. कविता रानी
271.	095861	सीए. वर्मा संजय कुमार
272.	095895	सीए. इन्द्रदीप सिंह
273.	095898	सीए. कंसल दीपक
274.	095909	सीए. जैन अजय
275.	095946	सीए. खुराना राजेश कुमार
276.	096006	सीए. गगन कुमार
277.	096011	सीए. सुशील कुमार
278.	096028	सीए. चढ़ा रोहित
279.	096048	सीए. बंसल भावना
280.	096056	सीए. जीतेन्द्र कुमार
281.	096089	सीए. गर्ग जय प्रकाश
282.	096213	सीए. गुप्ता निधि
283.	096299	सीए. वर्मा विकास
284.	096314	सीए. पॉल सुजय
285.	096383	सीए. महाजन विपिन
286.	096424	सीए. अग्रवाल राकेश
287.	096517	सीए. बतरा योगेश कुमार
288.	096563	सीए. धवन दीपक
289.	096651	सीए. गुप्ता अरुण कुमार
290.	096813	सीए. सेतिया अनिल कुमार
291.	096815	सीए. कक्कड राजीव
292.	096902	सीए. राजीव कुमार
293.	097007	सीए. सिंघल रुचिका
294.	097099	सीए. गुप्ता पूजा
295.	097207	सीए. वर्मा दिनेश
296.	097281	सीए. सिंह इन्द्रजीत
297.	097301	सीए. राजीव कुमार
298.	097378	सीए. भोमिया वीना
299.	097425	सीए. अग्रवाल ललित
300.	097463	सीए. कपूर मनप्रीत सिंह
301.	097484	सीए. सिंह हरजिन्दर
302.	097499	सीए. नंदा मनिन्दर जीत सिंह
303.	097605	सीए. सुनील कुमार
304.	097640	सीए. कौर गगनदीप
305.	097644	सीए. बंसल हरि कृष्ण
306.	097686	सीए. सिंह योगेन्द्र
307.	097740	सीए. खोसला शिवनल्ली
308.	097747	सीए. गुलाटी सिम्पल
309.	097759	सीए. अग्रवाल आशिष
310.	097822	सीए. कोठारी विकास कुमार

311.	097874	सीए. गुप्ता पुनीत
312.	097896	सीए. अरोड़ा अमित
313.	097899	सीए. सेन भीम
314.	097918	सीए. राजपाल अजय
315.	097951	सीए. अग्रवाल ज्योति
316.	098111	सीए. सिंह गगनदीप
317.	098184	सीए. गर्ग विशाल
318.	098215	सीए. गुप्ता नितिन
319.	098223	सीए. आशिष कुमार
320.	098379	सीए. झावर अचिन
321.	098500	सीए. छिल्लर कुलदीप
322.	098525	सीए. दीपक खुल्लर
323.	098541	सीए. कलानी गौतम
324.	098547	सीए. नरेश कुमार
325.	098667	सीए. सिंगल सुमन
326.	098688	सीए. विश्वकर्मा अजय कुमार
327.	098692	सीए. गर्ग अमित
328.	098751	सीए. अरोड़ा मोनिका
329.	098831	सीए. जैन सिद्धार्थ
330.	098931	सीए. घीरिया प्रवीन कुमार
331.	098991	सीए. शर्मा अखिल कुमार
332.	099004	सीए. गुप्ता मधुर
333.	099048	सीए. माथुर सुमित
334.	099052	सीए. गोयल अमित
335.	099169	सीए. अग्रवाल नारायण कुमार
336.	099206	सीए. जैन राजीव
337.	099286	सीए. खंडेलवाल नितिन कुमार
338.	099369	सीए. गुप्ता संदीप
339.	099391	सीए. जैन प्रदीप
340.	099464	सीए. विशाल
341.	099521	सीए. लोहिया पवन
342.	099596	सीए. गोयल गीतिका
343.	099751	सीए. सिंह ज्ञान शंकर प्रसाद
344.	099779	सीए. गर्ग शोभित
345.	099807	सीए. बाघला पुनीत कुमार
346.	099829	सीए. मीनाक्षी
347.	099885	सीए. समयाल विकास
348.	099886	सीए. गुगनानी श्वेता मोहन
349.	099972	सीए. वर्मा नम्रता
350.	099978	सीए. शर्मा सचिन
351.	108857	सीए. शर्मा अर्चना परशराम
352.	109767	सीए. विजय बक्शीराम पालीवाल
353.	111605	सीए. पालीवाल शशांक शिव दत्त

354.	113096	सीए. यादवेन्द्र सिंह
355.	121069	सीए. राजीव बंसल
356.	123424	सीए. दीपक कुमार धनश्यामदास अरोड़ा
357.	123733	सीए. मनजीत सोमनाथ प्रकाश चौधरी
358.	124358	सीए. महक जैन
359.	125336	सीए. विवेक शर्मा
360.	204896	सीए. आदित्यन आर
361.	210520	सीए. कृष्णन टी आर
362.	213528	सीए. किरन कुमार टी
363.	214760	सीए. गोपाल कुमार अग्रवाल
364.	218754	सीए. सुधांशु सेतिया
365.	218793	सीए. नीतेश चौधरी
366.	220324	सीए. अजय डालमिया
367.	221605	सीए. तुनुगुन्टला जगदीश
368.	400592	सीए. शर्मा प्रशांत
369.	401030	सीए. गुप्ता दिनेश कुमार
370.	401394	सीए. भार्गव अभिषेक
371.	401618	सीए. रंगटा जया
372.	401657	सीए. अग्रवाल सुफल
373.	402482	सीए. अग्रवाल रजत
374.	402947	सीए. आहुजा उषा
375.	403141	सीए. गोयल मुकुल
376.	403340	सीए. पुनिया विनोद
377.	403647	सीए. जैन शिल्पी
378.	404229	सीए. शालिनी सुल्तानिया
379.	404241	सीए. गढवाल रवि
380.	404255	सीए. गुरशरण कौर
381.	404623	सीए. भट्टर शिल्पा
382.	404954	सीए. परीक अमित
383.	405018	सीए. गोयल मनीष कुमार
384.	405735	सीए. रश्मि भाटिया
385.	406850	सीए. नीतेश जैन
386.	407029	सीए. जीतेन्द्र कुमार मिश्रा
387.	407165	सीए. हेमंत अरोड़ा
388.	407467	सीए. हिमांशु श्रीवास्तव
389.	407794	सीए. अभिषेक सक्सेना
390.	407844	सीए. अभिनव गर्ग
391.	407871	सीए. रोहिणी गुप्ता
392.	409482	सीए. नितिन शर्मा
393.	409892	सीए. पंकज कुमार
394.	411422	सीए. अभिषेक थावरिया
395.	500014	सीए. जैन मीनू

396.	500020	सीए. गुप्ता मनोज
397.	500035	सीए. चावला अनिल
398.	500055	सीए. सिंघल अनिरुद्ध
399.	500115	सीए. कपूर सुमित
400.	500116	सीए. खन्ना सचिन
401.	500173	सीए. जलान अमित
402.	500269	सीए. कृष्ण कुमार
403.	500336	सीए. अग्रवाल प्रमोद कुमार
404.	500341	सीए. बंसल राजेश कुमार
405.	500416	सीए. बिन्दल संजय कुमार
406.	500524	सीए. जैन विनीत
407.	500527	सीए. सिंघल सुशील कुमार
408.	500565	सीए. सुमन
409.	500577	सीए. कपूर हर्ष
410.	500605	सीए. नवराज सिंह
411.	500622	सीए. सेनगुप्ता राजर्षि
412.	500637	सीए. चावला सुरेन्द्र
413.	500876	सीए. महाजन अमित
414.	500916	सीए. मेहरा ललित
415.	500989	सीए. सेठी राजीव
416.	500999	सीए. सबरवाल विनीत
417.	501012	सीए. गुप्ता विकास
418.	501049	सीए. गुप्ता मीनाक्षी
419.	501051	सीए. सिंघल हीना
420.	501054	सीए. साकेत कुमार
421.	501109	सीए. अरोड़ा अन्शुल
422.	501173	सीए. गीता गुप्ता
423.	501203	सीए. बतरा पवन कुमार
424.	501209	सीए. सक्सेना अमित
425.	501229	सीए. चन्दर शेखर
426.	501263	सीए. प्रशांत कुमार
427.	501366	सीए. बंसल मनोज कुमार
428.	501402	सीए. गर्ग विकास
429.	501524	सीए. तकिरार अमित
430.	501530	सीए. गर्ग संदीप
431.	501563	सीए. खुराना सुनील
432.	501584	सीए. सत्यपति रुपेश कुमार
433.	501627	सीए. नहाटा दिव्या
434.	501628	सीए. नहाटा दीप्ति
435.	501630	सीए. शर्मा संजू
436.	501668	सीए. गंभीर राज कुमार
437.	501690	सीए. जैन आलोक
438.	501715	सीए. पंवार संजीव

439.	501768	सीए. गक्खड विकास
440.	501796	सीए. गुप्ता अभिषेक
441.	501895	सीए. बागला विकास
442.	501931	सीए. मीनोचा पंकज कुमार
443.	502057	सीए. तुली करण
444.	502105	सीए. अरोड़ा नरेश
445.	502142	सीए. डालमिया विनय कुमार
446.	502153	सीए. मित्तल कपिल
447.	502154	सीए. के लक्ष्मी
448.	502160	सीए. जैन गौरव
449.	502187	सीए. जैन रति
450.	502217	सीए. जैन कीर्ति
451.	502229	सीए. खन्ना सुवीर
452.	502233	सीए. गुप्ता संजय कुमार
453.	502314	सीए. चाने गुरभीत सिंह
454.	502344	सीए. यादव अपराजिता
455.	502608	सीए. कंचन सौरभ
456.	502616	सीए. खामेश कुमार
457.	502653	सीए. सचदेव अमित
458.	502706	सीए. गुरनानी गिरीश
459.	502712	सीए. राणा अमित
460.	502727	सीए. वरिन्दर सिंह
461.	502736	सीए. करवाल दीपक
462.	502771	सीए. सुस्थि कुमार
463.	502772	सीए. गिल्होत्रा अमित
464.	502805	सीए. मनोज कुमार
465.	502872	सीए. देवा नंद
466.	502873	सीए. अग्रवाल विनय
467.	502888	सीए. भाटिया गैरी
468.	503084	सीए. अमित कुमार
469.	503085	सीए. जैन संजीव
470.	503181	सीए. असवाल अनुराग सिंह
471.	503182	सीए. सरीन गौरव
472.	503200	सीए. अमृता कौर
473.	503378	सीए. मित्तल कपिल
474.	503399	सीए. गौरव कुमार
475.	503405	सीए. पलांहा विक्रम
476.	503406	सीए. शर्मा प्रदीप
477.	503423	सीए. सिंह अतुल कुमार
478.	503587	सीए. अरनिश कुमार
479.	503590	सीए. गौड़ राजेश
480.	503606	सीए. श्रीवास्तव सीमा
481.	503625	सीए. अरोड़ा आकाश

482.	503661	सीए. बेम्बी राकेश
483.	503697	सीए. गुप्ता परेश
484.	503717	सीए. खान फरमान अहमद
485.	503941	सीए. भान समीर
486.	503945	सीए. राज कुमार आर्य
487.	503952	सीए. चौधरी अशोक कुमार
488.	504044	सीए. ग्रोवर मनीष
489.	504114	सीए. तिलरेवाल रंजीत कुमार
490.	504213	सीए. शाह सुनील कुमार
491.	504240	सीए. अरुण कुमार
492.	504272	सीए. मित्तल पुनेश
493.	504449	सीए. नौटियाल जगदम्बा
494.	504484	सीए. जसवानी राजेश कुमार
495.	504547	सीए. शर्मा राहुल
496.	504586	सीए. दुआ कपिल
497.	504617	सीए. बंसल पंकज
498.	504627	सीए. शशांक निवास
499.	504648	सीए. बरनवाल रजनी
500.	504674	सीए. सिंगला गगन
501.	504691	सीए. वर्मा कमल
502.	504786	सीए. खंडेलवाल संतोष कुमार
503.	504916	सीए. टंगरी विशाल
504.	504923	सीए. लखवारा धीरज
505.	504928	सीए. पंकज कुमार
506.	504954	सीए. इंदुप्रीत सिंह
507.	505092	सीए. कालिया गगन
508.	505116	सीए. विश्वनाथन अरुण
509.	505136	सीए. कपूर चन्दन
510.	505159	सीए. कुमार रजत शैल
511.	505161	सीए. महेश्वरी विशाल
512.	505170	सीए. सिंगला शिवानी
513.	505178	सीए. गोयल अमित
514.	505186	सीए. वीरेन्द्र सिंह
515.	505193	सीए. सिक्का सिधी
516.	505351	सीए. रौटेला सुनील कुमार
517.	505389	सीए. अगरोयी विधि
518.	505457	सीए. अभिषेक कुमार
519.	505507	सीए. वशिष्ठा अखिलेश
520.	505549	सीए. मथुरिया विनोद कुमार
521.	505610	सीए. गुप्ता मनुज
522.	505644	सीए. रविन्द्र कुमार
523.	505666	सीए. गर्ग सौरभ
524.	505674	सीए. मेहरा कपिल

525.	505683	सीए. रामवीर
526.	505717	सीए. वर्मा अंजली
527.	505780	सीए. गुप्ता विवेक
528.	505803	सीए. पुनीता
529.	505832	सीए. इंदु नागर
530.	505836	सीए. इंदु
531.	505877	सीए. बारमीचा विकास
532.	505953	सीए. भाटिया अमित
533.	506086	सीए. हरीप्रीत धीमन
534.	506202	सीए. भगत सिंह सलूजा
535.	506205	सीए. अमरीश वाधवा
536.	506283	सीए. राधिका बागला
537.	506293	सीए. अशोक कुमार
538.	506344	सीए. प्रिया मल्होत्रा
539.	506387	सीए. अमन ऋषि
540.	506394	सीए. निर्मल चन्द्र साहू
541.	506430	सीए. दिलप्रीत कौर
542.	506447	सीए. शम्मी कुकरेजा
543.	506494	सीए. विनीत मित्तल
544.	506525	सीए. अमित अग्रवाल
545.	506535	सीए. अनिल कुमार
546.	506560	सीए. राजेश भगत
547.	506730	सीए. कृष्णा बधानी
548.	506766	सीए. विमल परुथी
549.	506783	सीए. संभव जैन
550.	506817	सीए. चेतन सैनी
551.	506818	सीए. आशिमा गुलाटी
552.	506820	सीए. सचिन जैन
553.	506953	सीए. चेतन आनंद भट्ट
554.	507033	सीए. अन्नु जैन
555.	507147	सीए. शिवम कुमार शिवेश
556.	507171	सीए. राघव अग्रवाल
557.	507209	सीए. बीराजन पंत
558.	507223	सीए. मनीष सचदेवा
559.	507278	सीए. नीति मनचंदा
560.	507288	सीए. विपुल जैन
561.	507305	सीए. सराफ अहमद
562.	507309	सीए. पारस पुरी
563.	507318	सीए. जीतेन्द्र नरुला
564.	507333	सीए. आशिष गुप्ता
565.	507360	सीए. सोनिया
566.	507388	सीए. सुरेन्द्र कुमार
567.	507434	सीए. दीपक गर्ग

568.	507470	सीए. गौरव कुमार जेटली
569.	507481	सीए. विनीता जैन
570.	507483	सीए. साधना नय्यर
571.	507517	सीए. श्रवण
572.	507555	सीए. सचिन चोपड़ा
573.	507586	सीए. अभिषेक सक्सेना
574.	507618	सीए. नवीन कुमार
575.	507658	सीए. प्रशांत कामरा
576.	507705	सीए. कीर्ति शांतिलाल गनात्रा
577.	507786	सीए. गायत्री सेठी
578.	507787	सीए. ममता सपरा
579.	507810	सीए. यशप्रीत सिंह
580.	507917	सीए. तरुण गुप्ता
581.	507923	सीए. नेहा गुप्ता
582.	508011	सीए. सिल्की खुराना
583.	508022	सीए. अनिरुद्ध गुप्ता
584.	508112	सीए. राजेश्वर प्रसाद
585.	508158	सीए. राकेश कुमार
586.	508181	सीए. रोहित मोहन
587.	508224	सीए. अमरप्रीत
588.	508235	सीए. सुभरा गामिनी
589.	508251	सीए. जतिन नागपाल
590.	508283	सीए. रचना अग्निहोत्री
591.	508288	सीए. खुर्शीद आलम
592.	508338	सीए. अनुरोध चन्द्र
593.	508341	सीए. कमलेन्दु शेखर
594.	508343	सीए. राशिद अली खान
595.	508390	सीए. विष्णु शंकर वार्ष्णेय
596.	508414	सीए. अरुण रतन
597.	508434	सीए. अमित सचदेवा
598.	508454	सीए. सुजीत कुमार
599.	508524	सीए. मनीष विज
600.	508526	सीए. रोहित मेहरोत्रा
601.	508574	सीए. कुलभूषण शर्मा
602.	508607	सीए. विकास बग्गा
603.	508628	सीए. विकास रस्तोगी
604.	508709	सीए. गौरव मोहन
605.	508714	सीए. दीप्ति गोयल
606.	508729	सीए. हंस राज टुटेजा
607.	508752	सीए. गोपाल दीक्षित
608.	508808	सीए. नितिन सिंघल
609.	508874	सीए. अनूप गुप्ता
610.	508889	सीए. नीरज भाटिया

611.	508892	सीए. अमित अरोड़ा
612.	508896	सीए. गौरव खन्ना
613.	508939	सीए. गगन सिदाना
614.	509058	सीए. शेखर ककड
615.	509098	सीए. मवीन कुमार जैन
616.	509133	सीए. विकास सेठी
617.	509143	सीए. दिव्या रुस्तगी
618.	509144	सीए. शिशीर चौधरी
619.	509233	सीए. मोहित जैन
620.	509269	सीए. चारस नाथ
621.	509353	सीए. जशोदा
622.	509387	सीए. तनु कासगर
623.	509429	सीए. संजीत अग्रवाल
624.	509511	सीए. अभिषेक त्यागी
625.	509523	सीए. बिपुल कुमार दीक्षित
626.	509537	सीए. सुनील कुमार सकराल
627.	509553	सीए. रेखा गेरा
628.	509559	सीए. शोभित महेस्वरी
629.	509617	सीए. आनंद कुमार
630.	509650	सीए. राकेश कुमार झा
631.	509686	सीए. राहुल दीप
632.	509705	सीए. संजय वर्मा
633.	509725	सीए. डॉली
634.	509779	सीए. दीपिका गुप्ता
635.	509808	सीए. सुमित बहल
636.	509835	सीए. विनोद कुमार पाल
637.	509847	सीए. हरवीन सिंह
638.	509850	सीए. भारमिंत गाबा
639.	509881	सीए. धेवेन्द्र कुमार गोयल
640.	509883	सीए. पंकज कुमार
641.	509894	सीए. राकेश कुमार
642.	509957	सीए. मनीष कुमार
643.	509969	सीए. नागेन्द्र गोयल
644.	509993	सीए. सचिन गुप्ता
645.	510003	सीए. दीप रुस्तगी
646.	510007	सीए. क्षितिज अरोड़ा
647.	510080	सीए. चेतना भाख्खाज
648.	510084	सीए. दीपेन शर्मा
649.	510102	सीए. अमित कुमार
650.	510123	सीए. अमित गुप्ता
651.	510186	सीए. नीतू बंसल
652.	510193	सीए. मुकुल वशिष्ठा
653.	510266	सीए. भाव्या वालिया

654.	510272	सीए. गौरव अरोड़ा
655.	510281	सीए. राहुल गोयल
656.	510282	सीए. राजन
657.	510308	सीए. मुकेश वर्मा
658.	510309	सीए. जतिका अरनेजा
659.	510312	सीए. अनुज गर्ग
660.	510354	सीए. माधवी भाटिया
661.	510431	सीए. जयंती पंडित
662.	510458	सीए. रोहित कपूर
663.	510472	सीए. राजेश कुमार भारद्वाज
664.	510478	सीए. विक्रान्त वर्मा
665.	510539	सीए. रविन्द्र कुमार
666.	510566	सीए. विभोर महेश्वरी
667.	510571	सीए. रजत छाबड़ा
668.	510579	सीए. दीपक भारद्वाज
669.	510584	सीए. मोहित गुप्ता
670.	510602	सीए. प्रकाश कुमार तिवारी
671.	510627	सीए. हंसराज सारस्वत
672.	510701	सीए. सरोज कुमार
673.	510747	सीए. रवि शंकर
674.	510794	सीए. दिनेश कुमार चाचन
675.	510808	सीए. शैली गुप्ता
676.	510909	सीए. शंभु कुमार महतो
677.	510967	सीए. वीरेन्द्र सिंह
678.	510983	सीए. शशि शर्मा
679.	511023	सीए. रोहित पुरी
680.	511027	सीए. रजत कुमार प्रसाद
681.	511051	सीए. राजेश छाबड़ा
682.	511102	सीए. आशिष भित्तल
683.	511125	सीए. इंद्र जीत अग्रवाल
684.	511195	सीए. विशाल भाटिया
685.	511202	सीए. पंकज कुमार
686.	511206	सीए. जय देव पंवार
687.	511217	सीए. विशाल भारती
688.	511242	सीए. पूजा शर्मा
689.	511267	सीए. अंजु सोमानी
690.	511269	सीए. नील बहादुर सरु मागर
691.	511284	सीए. अमित कुमार
692.	511290	सीए. अभिनय वर्मा
693.	511295	सीए. राजीव कुमार सिंह
694.	511334	सीए. कविता गोयल
695.	511432	सीए. सचिन गुप्ता
696.	511443	सीए. राजेश कुमार

697.	511447	सीए. करण मुदगिल
698.	511494	सीए. अंकित कपूर
699.	511501	सीए. आशिष कुमार
700.	511612	सीए. वैभव गोयल
701.	511703	सीए. अमनदीप सिंह मायाल
702.	511716	सीए. बिजय कुमार यादव
703.	511745	सीए. रौशन कुमार केजरीवाल
704.	511763	सीए. सौरभ कुमार अग्रवाल
705.	511908	सीए. गौरव गुप्ता
706.	511912	सीए. ऋषि कपूर
707.	511931	सीए. मनदीप सिंह
708.	511999	सीए. अरुण चौधरी
709.	512071	सीए. सुखविन्दर सिंह
710.	512156	सीए. दीपक सिंगला
711.	512195	सीए. जतिन जिन्दल
712.	512208	सीए. तृप्ति सिंघल
713.	512212	सीए. जसमीत कौर
714.	512219	सीए. रंजीत यादव
715.	512226	सीए. सुभाष कुमार
716.	512255	सीए. हिमांशु अरोड़ा
717.	512336	सीए. अनुज साहनी
718.	512402	सीए. करण बंसल
719.	512408	सीए. नवीन चन्देल
720.	512472	सीए. फयाज अहमद गनाई
721.	512486	सीए. अंकित डागा
722.	512487	सीए. सचिन गुप्ता
723.	512495	सीए. मयंक कुमार जैन
724.	512507	सीए. मानवी गिरधर
725.	512580	सीए. भानु प्रताप सिंह
726.	512596	सीए. अंकुर गर्ग
727.	512608	सीए. मोहित अग्रवाल
728.	512615	सीए. पुनीत भित्तल
729.	512660	सीए. अभिनव शर्मा
730.	512667	सीए. दीपक बंका
731.	512668	सीए. दिलीप कुमार
732.	512690	सीए. सुनील अरोड़ा
733.	512704	सीए. प्रीति सहगल
734.	512737	सीए. अंकित डावर
735.	512782	सीए. नारायण प्रसाद पौडेल
736.	512786	सीए. बिसवा विजय कुमार सिंह
737.	512861	सीए. मोहन चंद
738.	512865	सीए. अमर कुमार
739.	512915	सीए. मो. मंजर

740.	512918	सीए. नुपुर केडिया
741.	513028	सीए. नितिन महाजन
742.	513035	सीए. सुमित जैन
743.	513057	सीए. अलका कुमारी अग्रवाल
744.	513120	सीए. अजय कुमार
745.	513179	सीए. नीरज कुमार शर्मा
746.	513199	सीए. महिमा मंगला
747.	513246	सीए. बिनोद धुनगाना
748.	513263	सीए. शिल्पा गर्ग
749.	513264	सीए. सौरभ बियानी
750.	513287	सीए. तपन कुमार बिसवाल
751.	513356	सीए. राहुल शर्मा
752.	513479	सीए. भारत गुप्ता
753.	513512	सीए. अभय कुमार दीक्षित
754.	513522	सीए. प्रवीन मिगलानी
755.	513577	सीए. नेहा कुमारी
756.	513663	सीए. मनदीप सिंह
757.	513745	सीए. कार्तिक बिष्ट
758.	513765	सीए. अरविन्द राजन
759.	513849	सीए. रविन्द्र गुप्ता
760.	513852	सीए. कोमल गोयल
761.	513856	सीए. कुणाल धवन
762.	513865	सीए. रवि गुप्ता
763.	513868	सीए. तरुण कुमार गुप्ता
764.	513882	सीए. देवेन्द्र शंकर विश्णोई
765.	513904	सीए. अंकुर कुमार
766.	515923	सीए. नीतेश बसईवाला
767.	516028	सीए. महेन्द्र सिंह
768.	513933	सीए. अंकुर रस्तोगी
769.	513938	सीए. सन्नी शर्मा
770.	513947	सीए. सोनिया आहुजा
771.	513997	सीए. अभिषेक माथुर
772.	514153	सीए. शोभित मेहरा
773.	514176	सीए. सुमित चन्द्र अग्रवाल
774.	514371	सीए. साक्षी आहुजा
775.	514388	सीए. संभव मेहरोत्रा
776.	514396	सीए. मनीष अग्रवाल
777.	514421	सीए. नेहा भंडारी
778.	514517	सीए. पासंग दोरजी शेखा
779.	514543	सीए. चन्द्र मौली मिश्रा
780.	514562	सीए. कौशलेन्द्र कुमार झा

781.	514587	सीए. दीपक गुप्ता
782.	514659	सीए. मनीष भाटिया
783.	514707	सीए. हीतेन्द्र कुमार
784.	514721	सीए. मनीष शर्मा
785.	514759	सीए. यशपाल
786.	514764	सीए. ईशांत जुनेजा
787.	514814	सीए. आनंद भूषण
788.	514826	सीए. साहिल राजपूत
789.	514835	सीए. मोहित कुमार रस्तोगी
790.	514958	सीए. विक्रान्त कुमार
791.	514962	सीए. दीपक दहिया
792.	514965	सीए. धनंजय झा
793.	514986	सीए. मारुत नंदन
794.	514988	सीए. राजेन्द्र कुमार सिंह
795.	515000	सीए. आशिष शर्मा
796.	515072	सीए. कुसुम
797.	515113	सीए. राहुल कुमार अग्रवाल
798.	515159	सीए. तनु पाहुजा
799.	515165	सीए. सुजीत कुमार
800.	515202	सीए. सौरभ जैन
801.	515208	सीए. अपेक्षा चोपड़ा
802.	515223	सीए. गगनदीप सिंह
803.	515229	सीए. शिल्पी वर्मा
804.	515371	सीए. जसपाल कुमार पासी
805.	515372	सीए. निशंक त्यागी
806.	515378	सीए. दीप्ति अरोड़ा
807.	515422	सीए. दीपांकर सिंह
808.	515436	सीए. आदिश जैन
809.	515461	सीए. प्रियंका वर्मा
810.	515470	सीए. हरी लमसल
811.	515506	सीए. रिचा वाधवा
812.	515625	सीए. पुनीत गुप्ता
813.	515683	सीए. रश्मि मित्तल
814.	515740	सीए. सौरभ नागपाल
815.	515745	सीए. अभिषेक जैन
816.	515748	सीए. अर्पिता माथुर
817.	515776	सीए. योगेश गुप्ता
818.	515838	सीए. रुचिका गुप्ता
819.	515839	सीए. आशिष गर्ग
820.	516328	सीए. मोनिका बसाक
821.	516349	सीए. संदीप बंसल

टी. कार्तिकेयन
(सचिव)

कानपुर-208001, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

सं. 3 सी.सी.ए. (4)(1)/2010-2011--चार्टर्ड लेखाकार संस्थान विनियम सन् 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों द्वारा प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1(ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम निर्धारित शुल्क न जमा करने के कारण दिनांक 01.10.2010 से हटा दिया है :--

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
1	2567	मि. साह गोबिन्द प्रसाद	पटना	11	16752	मि. सनचेती जय प्रकाश	जोधपुर
2	3856	मि. रंजीत भाटिया	लखनऊ	12	16826	मि. खान मोहम्मद वाजिद	गाजियाबाद
3	10651	मि. जैन सत्येन्द्र कुमार	जबलपुर	13	30932	मि.काशी नाथ चतुर्वेदी	मथुरा
4	11980	मि. सोदानी मोहनलाल	इन्दौर	14	31819	मि. गोलचा कपूर चन्द चम्पालाल	जोधपुर
5	12101	मि. गुप्ता अमर नाथ	नोएडा	15	34607	मि. माथुर दीपक	नोएडा
6	14039	मि.वार्धेय जनार्दन प्रसाद	हरिद्वार	16	41836	मि. माइकल विनसेण्ट मसकररेन्स	अजमेर
7	14097	मि. मलहोत्रा राजेश कुमार	जगदीशपुर	17	43117	मि. सोमानी संजय कुमार	रामगढ़
8	15101	मि. गुप्ता सुरेन्द्र पाल	गाजियाबाद	18	43660	मि. मेहता राकेश	लखनऊ
9	15298	मि. गुप्ता सुदर्शन पाल	गाजियाबाद	19	44176	मि. तोशनीवाल जगदीश प्रसाद	ब्यावर
10	16572	मि. जगदीश मल लोधा	जोधपुर	20	44484	मि. जिन्दल राजेश कुमार	नोएडा

21	45078	मि. कोचर महेश चन्द	जोधपुर	37	057163	मि. कुमार घनश्याम	इन्दौर
22	45354	मि. सोनी आनन्द कुमार	जयपुर	38	057305	मि. पारिक नितिन	इन्दौर
23	50038	मि. जैन शालिन चन्द्र	लखनऊ	39	057409	मि. द्विवेदी राम किशोर	जमशेदपुर
24	50470	मि. कृष्णन कावासेरी वेंकटा सुबरामनी	सोनभद्र	40	057939	मि. बाल प्रदीप कुमार	जमशेदपुर
25	51375	मि. मिश्रा अशोक कुमार	बेंगलुरु	41	058022	मि. राकेश कुमार अग्रवाल	रायपुर
26	052846	मि. थिरानी जयन्त	भिण्ड	42	058062	मि. भागनिया प्रशान्त	झरिया
27	053300	मि. राय सोमेश	चयबासा	43	058308	मि. चक्रवर्ती रातुल	न्यू देहली
28	053487	मि. सक्सेना अशोक	देहरादून	44	058659	मिस लाहा घोष देबजनी	जमशेदपुर
29	053652	मि. जैन विवेक चन्द्रा	लखनऊ	45	059440	मि. सिंह दलजीत	कोरबा
30	054373	मि. सेन गुप्ता सैबाल	गाजियाबाद	46	059802	मि. चतुर्वेदी विवेक	लखनऊ
31	054481	मि. उमेश कुमार	कोलकाता	47	060001	मिस कौर हरपाल	नोएडा
32	054582	मि. श्याम सुन्दर गुप्ता	भोपाल	48	060167	मि. चितलंगिया सचिन	रांची
33	054681	मि. चक्रवर्ती सोमब्रत	गुलबर्गा	49	060626	मि. गोलछा मनीष कुमार	फोरबेसगंज
34	054890	मि. पति प्रमोद कुमार	रांची	50	060763	मि. नथानी विशाल	इन्दौर
35	056254	मि. कमलाकान्त नायक	गाजियाबाद	51	060771	मि. धूत निशान्त	जमशेदपुर
36	056460	मि. सिंधवी हेमन्त कुमार	रेनूकूट	52	061798	मि. केडिया आनन्द	मुम्बई
				53	061987	मिस दीप्ती मावान्डिया	पुने
				54	062626	मि. जम्बू अग्रवाल	रामगढ़

55	062803	मिस प्रवाल मनीषा	बरेली	72	070759	मि. गुप्ता नन्द किशोर	जयपुर
56	064173	मि. चौहान विजय कुमार	आजमगढ़	73	070866	मि. जेसवानी गुरुदेव सरन	ग्वालियर
57	064303	मि. राजीव कुमार	बाकारो स्टील सिटी	74	070953	मि. बक्शी रेनू	गाजियाबाद
58	064988	मि. पवन कुमार पेरीवाल	जमशेदपुर	75	071103	मि. सत्यवीर सिंह दागर	जयपुर
59	065252	मि. सत्य नारायण प्रसाद	मुम्बई	76	071113	मि. तलवार सुरेन्द्र कुमार	गाजियाबाद
60	065309	मि. राकेश कुमार अग्रवाल	बाकारो	77	071138	मि. ग्रोवर राकेश कुमार	इलाहाबाद
61	065771	मि. विश्वजीत कुमार	चन्दन नगर	78	071234	मि. शुक्ला अजय कुमार	कानपुर
62	065896	मि. आशीष अग्रवाल	गुडगाँव	79	071250	मि. सेठ संजय	कानपुर
63	066414	मि. निशान्त कुमार	हजीराबाग	80	071285	मि. नागदा मोहन लाल	उदयपुर
64	066432	मि. पंकज कुमार खेतान	देवघर	81	071312	मि. दत्ता गोपाल	जयपुर
65	066527	मि. शैलेश कुमार	मुजफ्फरपुर	82	071343	मि. गर्ग शैलेन्द्र नाथ	हापुड़
66	067495	मि. अलोक भगत	जबलपुर	83	071417	मि. ठाकुरिया दीपक	इन्दौर
67	070240	मि. बत्रा उमेश	कानपुर	84	071561	मि. पंकज कुमार	बरेली
68	070261	मि. ठक्कर रोहित कुमार टी	धनबाद	85	071651	मि. सचदेवा सुनील कुमार	ग्रेटर नोएडा
69	070320	मि. अग्रवाल महेश कुमार	इन्दौर	86	071802	मि. सक्सेना रवीन्द्र	कानपुर
70	070478	मि. सिंह अशोक कुमार	रांची	87	071895	मि. सक्सेना अनिल कुमार	कानपुर
71	070719	मि. बाल्दी राजा राम	उज्जैन				

88	071926	मि. शारदा दिनेश	जयपुर	103	073077	मि. भल्ला रोहित	लखनऊ
89	072025	मि. वर्मा दिनेश कुमार	अजमेर	104	073156	मि. पलरीवाला मुरारी	इन्दौर
90	072140	मि. प्रदीप कुमार	नोएडा	105	073241	मि. गोयल दिनेश	देहरादून
91	072179	मि. नागोरी विमल चन्द्र	उदयपुर	106	073446	मि. तिवारी बलराम	लखनऊ
92	072181	मि. सिन्हा वीरेन्द्र कुमार	पटना	107	073467	मि. विनय राज	मेरठ
93	072251	मि. भाटी अरविन्द कुमार	जोधपुर	108	073475	मि. गुप्ता अमित कुमार	ऋषिकेश
94	072281	मि. सिंघवी प्रकाश कुमार	जोधपुर	109	073676	मि. अग्रवाल संजीव कुमार	जयपुर
95	072385	मि. माहना संजीव	गुड़गाँव	110	073720	मि. जैन मनोज चन्द्र	लखनऊ
96	072471	मि. अग्रवाल अजय कुमार	रामपुर	111	073808	मि. इरशाद उल हक	मेरठ
97	072489	मि. ब्यास मदन गोपाल	जोधपुर	112	073873	मि. जैन सुरेश कुमार	टोंक
98	072763	मि. पोरवाल राम कुमार	गाजियाबाद	113	073901	मि. भन्दुला पंकज	भोपाल
99	072838	मि. सोमानी विजय कुमार	पाली मारवार	114	074078	मि. सक्सेना दीपेश	जयपुर
100	072909	मि. मंगल संजय	जयपुर	115	074143	मि. शत्रुघ्न राय	खरगोन
101	072991	मि. मनमोहन बंसल	जोधपुर	116	074228	मि. भण्डारी कृष्णा	जोधपुर
102	073015	मि. गर्ग शशी कुमार	इन्दौर	117	074243	मि. चौहान राजेन्द्र सिंह	उदयपुर
				118	074255	मि. गुप्ता तरुनेश कुमार	जयपुर

119	074348	मि. राकेश मोहन	लखनऊ	136	075316	मि. विनीत कुमार	रायपुर
120	074449	मि. प्रवीन कुमार सिंह	वाराणसी	137	075472	मि. रूपेन्द्र सिंह	कानपुर
121	074541	मि. राजवंशी पंकज	नोएडा	138	075567	मि. सिंघल मधु सूदन	सुमेरपुर
122	074577	मि. रमिन्दर पाल सिंह	कानपुर	139	075706	मि. जैन मुकेश कुमार	जयपुर
123	074595	मि. देवेन्द्र सिंह	साहिबाबाद	140	075725	मि. अजमेरा नवीन	भीलवाड़ा
124	074615	मि. कपूर मधु सूदन	नोएडा	141	075740	मि. तिवारी रामेश्वर नाथ	धनबाद
125	074732	मि. खान साकिब महमूद	आगरा	142	075758	मि. मित्तल राजेश	भिलाई
126	074768	मि. पाहाड़िया जितेन्द्र	इन्दौर	143	075762	मि. शर्मा अनिल कुमार	जयपुर
127	074801	मि. जैन स्वप्निल	मेरठ	144	075920	मिस पुनतेमबकर विनीता	इन्दौर
128	074815	मि. गोयल संजय कुमार	श्रीगंगा नगर	145	075964	मि. नन्दी गौतम	कोबरा
129	074865	मि. अग्रवाल विकास कुमार	सहारनपुर	146	076017	मि. अग्रवाल अनूप कुमार	आगरा
130	074876	मि. गुप्ता अनिल कुमार	जयपुर	147	076082	मि. भूतरा रमेश	जोधपुर
131	074878	मि. गुप्ता स्नेहान्शु	नोएडा	148	076127	मि. अग्रवाल आशीष	नोएडा
132	075056	मि. लुथरा संजीव	आगरा	149	076244	मि. अग्रवाल माधो प्रसाद	नागड़ा
133	075104	मि. जैन प्रमोद कुमार	ब्यावर	150	076266	मि. मित्तल मनीष	मेरठ
134	075130	मि. गोया आदित्य	बुलन्दशहर	151	076391	मि. छतवानी शैलेन्द्र	उदयपुर
135	075293	मि. शब्बीर हुसैन	भोपाल	152	076524	मिस मोदी मीनू	जयपुर
				153	076566	मि. भण्डारी दीपक	जोधपुर
				154	076575	मि. राजेश अरोड़ा	गाजियाबाद

155	076709	मिस सबरवाल ज्योति	बहराइच	173	077457	मि. अग्रवाल अनिल कुमार	लखनऊ
156	076835	मि. भातरा हेमन्त कुमार	जयपुर	174	077515	मि. खण्डेलवाल दिनेश	जयपुर
157	076872	मि. शर्मा संजीव	उदयपुर	175	077520	मिस जैन निवेदिता	ग्वालियर
158	076899	मि. चड्ढा नवीन	लखनऊ	176	077592	मि. पुरोहित सौरभ	इन्दौर
159	076901	मि. खण्डेलवाल अजय कुमार	भोपाल	177	077612	मि. जैन रवि कान्त	कोटा
160	076959	मि. जैन निरंजन	उदयपुर	178	077648	मि. अशीष पुन्धीर	जयपुर
161	077017	मि. ब्यास विवेक	जयपुर	179	077707	मि. बंसल दीपक कुमार	मुम्बई
162	077105	मि. गोस्वामी देवासीस	नोएडा	180	077751	मि. सारोहा तुशंकुर	ग्रेटर नोएडा
163	077136	मिस सिंधवी शुचि	जयपुर	181	077765	मि. भार्गव पीयूष	लखनऊ
164	077181	मि. वर्मा प्रेम नारायण	भोपाल	182	077767	मि. खिचा पुष्पेन्द्र	ब्यवार
165	077277	मि. गर्ग मुकेश कुमार	इन्दौर	183	077778	मि. जैन पंकज	उदयपुर
166	077287	मि. अग्रवाल विजय कुमार	जयपुर	184	077841	मि. मौर्या अजय कुमार	लखनऊ
167	077301	मि. बाजपेई प्रवीन	झुबुआ	185	077952	मि. अग्रवाल सचिन	मेरठ
168	077303	मि. सुराना राजेश	जोधपुर	186	078049	मि. अस्वा सुनील	भीलवाड़ा
169	077344	मि. मेहता रवि	जोधपुर	187	078070	मि. राम जी लाल	मैनपुरी
170	077345	मि. गंग सुनील कुमार	धार	188	078077	मि. जैन कमल कुमार	जयपुर
171	077410	मि. रवि शंकर शर्मा	धनबाद	189	078183	मि. मिश्रा ज्ञान चन्द्र	गाजियाबाद
172	077413	मि. अग्रवाल अनिल कुमार	जयपुर	190	078227	मि. श्रीवास्तव हरीश	लखनऊ
				191	078248	मि. कपूर आलोक	मेरठ

192	078275	मि. कुलवन्त सिंह	भोपाल	212	079510	मि. शर्मा राजेश्वर	रायपुर
193	078292	मि. गौरव एरेन	इन्दौर	213	079513	मि. मिश्रा शरद	उदयपुर
194	078338	मि. जोशी अनुराग	इन्दौर	214	079599	मि. खण्डेलवाल मुरारी लाल	खेरली
195	078386	मि. रवि अस्वा	इन्दौर	215	079680	मि. राहुल गुप्ता	जयपुर
196	078432	मि. मुनीष कुमार मित्तल	गाजियाबाद	216	079691	मि. राय सुकान्त	वाराणसी
197	078558	मि. विष्णु कुमार	ढोलपुर	217	079860	मि. सरीपल्ली उदय	भोपाल
198	078603	मि. अशोक कुमार गुप्ता	जयपुर	218	079892	मि. मश्तफा मेहरिम	इन्दौर
199	078706	मि. कासलीवाल ललित कुमार	चित्तौरगढ़	219	079986	मि. विवेक जैन	मुजफ्फरनगर
200	078731	मि. दीपांकर सेठ	रुरकी	220	080965	मि. गोयल राम कुमार	गाजियाबाद
201	078769	मि. बायस निश्चल सिंह	धामनोद	221	081399	मि. रौनियार जगदीश प्रसाद	मधुबनी
202	078802	मि. भरतिया धीरेन्द्र एफ	रतलाम	222	081663	मि. अभय कुमार भार्गव	कानपुर
203	078832	मि. मनोज दुबे	भोपाल	223	081721	मि. राकेश कुमार	नोएडा
204	078952	मि. जायसवाल मुकुल	वाराणसी	224	082275	मि. शर्मा विनोद कुमार	न्यू देहली
205	078974	मि. अहमद करीम	इलाहाबाद	225	082498	मि. अग्रवाल विपिन	न्यू देहली
206	079176	मिस अग्रवाल निशा	देहली	226	082649	मि. गुप्ता नरेश	अलीगढ़
207	079212	मि. भाटी सुनील कुमार	भोपाल	227	084337	मि. गोयल आनन्द मोहन	गाजियाबाद
208	079274	मि. गोयंका राहुल	मऊ	228	084378	मि. अतुल	नोएडा
209	079276	मि. अरुण खोदपिया	उदयपुर	229	084527	मि. अग्रवाल राजेश कुमार	जयपुर
210	079287	मि. ठाकुर विवेक	इन्दौर	230	085620	मि. कमल कुमार शर्मा	चुरु
211	079434	मिस गीतिका पसरिजा	रायपुर				

231	086724	मि. अशोक कुमार	न्यू देहली	249	092123	मि. माहारा हरेन्द्र सिंह	नोएडा
232	087259	मि. गुप्ता नीरज कुमार	इन्दौर	250	092222	मि. चुधे हरदीप सिंह	हरदोई
233	087508	मि. वार्धेय विवेक कुमार	नोएडा	251	092469	मि. राज प्रकाश खरे	गाजियाबाद
234	087973	मिस बहल अनुराधा	गाजियाबाद	252	093116	मि. मनीष गुप्ता	बरेली
235	088512	मि. सिन्हा संतोष कुमार	गया	253	093276	मि. संजीव कुमार झाँ	नोएडा
236	088575	मि. सिंह योगेन्द्र पाल	नोएडा	254	093587	मि. भारद्वाज आलोक	भोपाल
237	088714	मिस भंसाली निवेदिता	हरद्वार	255	093815	मि. गर्ग दिनेश कुमार	उधम सिंह नगर
238	088941	मिस काक अंजली	नोएडा	256	094095	मि. आलोक कुमार	पटना
239	089342	मि. मेहरा मिलन	देहरादून	257	094410	मि. आशुतोष गुप्ता	गाजियाबाद
240	089425	मि. सोमानी अनुज कुमार	गाजियाबाद	258	094417	मिस माहेश्वरी सुनीता	जयपुर
241	089698	मि. मोहम्मद नाजिम	खुरजा	259	094509	मिस बी. मृदुला वानी	गाजियाबाद
242	089830	मि. गुप्ता सतीश कुमार	बागपत	260	094732	मि. सरन अनिल	नोएडा
243	089836	मि. मनोज कुमार	हापुड़	261	094780	मि. बड़जाते निर्मल राजकुमार	नोएडा
244	089844	मि. अग्रवाल विवेक	गुड़गाँव	262	095716	मिस स्मिता वैश	लखनऊ
245	090480	मि. गुप्ता संजय कुमार	नोएडा	263	095757	मि. विश्वनाथन वी	गाजियाबाद
246	090722	मि. गुप्ता विनोद कुमार	देहली	264	096500	मि. गोयल गिरीश कुमार	नोएडा
247	090900	मि. गौतम राज कुमार	कानपुर	265	096538	मि. सिंह रजनीश कुमार	बेगुसराय
248	091996	मिस गर्ग शिप्रा	गाजियाबाद	266	096771	मिस रीतू दयाल	कौशाम्बी

267	096852	मि. धीमान राम कुमार	गाजियाबाद	285	106559	मि. सौरभ कुमार	सीतापुर
				286	108907	मि. पाटनी नितिन	जयपुर
268	097309	मि. कानोडिया भागवत सिंह	गुड़गाँव	287	109410	मि. अमित गुलेचा	जोधपुर
269	097730	मि. गुप्ता ओम प्रकाश	अलीगढ़	288	109790	मि. चन्द्र प्रकाश गुप्ता	मुम्बई
270	097756	मि. श्रीवास्तव गौरव	नोएडा	289	109869	मि. प्रभात मण्डवानी	इन्दौर
271	098144	मि. दुबे अमित कुमार	नोएडा	290	110994	मि. विजय माहेश्वरी	जोधपुर
272	098185	मि. गर्ग प्रदीप कुमार	खुरजा	291	111321	मि. जैन संजय कुमार	राजनन्द गाँव
273	098265	मि. मोहता राहुल	नोएडा	292	113493	मि. सेठी हर्ष	अजमेर
274	098313	मिस रचना	मथुरा	293	113703	मि. हिंजर अमित ललित	उदयपुर
275	098450	मि. प्रदीप बंसल	किशनगढ़	294	114091	मि. गोबिन्द अग्रवाल	अजमेर
276	098711	मि. सूद सुमित	नोएडा	295	117917	मि. संदीप श्यामसुन्दर मनडावेवाला	इन्दौर
277	098835	मि. जैन अजय कुमार	भोपाल	296	121640	मि. अनीष माहेश्वरी	बुँदी
278	098938	मि. अग्रवाल गौरव	नोएडा	297	123130	मि. सौरभ नागोरी	नीमबेहरा
279	099462	मि. राज कुमार	गोपालगंज	298	125431	मिस सुरभि कौरव	भोपाल
280	099472	मि. भनावत प्रशान्त	उदयपुर	299	125499	मि. राजन मुन्द्रा	भीलवाड़ा
281	099809	मि. भट्टाचार्या देबाती	नोएडा	300	127665	मिस रोमा बाजपेई	भोपाल
282	104002	मिस पेरीवाल सुनीता	जयपुर	301	129416	मि. शोभित अग्रवाल	गाजियाबाद
283	105266	मि. पिट्टी विनोद कुमार	जोधपुर	302	130689	मि. सतीश चन्द्र मालनी	सूरत
284	105361	मि. विनोद सामदानी	भीलवाड़ा	303	131527	मि. अमित हरीशंकर नागर	उज्जैन

				322	400362	मि. निखिल गुप्ता	जयपुर
304	133743	मि. प्रहलाद कुमार झाँ	पटना	323	400377	मि. अजमेरा धीरज	जयपुर
305	134213	मि. विशाल माहेश्वरी	कोटा	324	400456	मि. मिश्रा सुमन	कानपुर
306	201558	मि. कृष्णन एल	इन्दौर	325	400553	मि. सत्येन्द्र सिंह राजपूत	देवास
307	210159	मि. दीपक लड्डा	हैदराबाद	326	400576	मि. सुनील कुमार कंचल	जयपुर
308	211667	मिस मनीषा चौधरी	ब्यावर	327	400619	मिस बाजपेई प्रीति	बेंगलुरु
309	216027	मि. संजीव उपाध्याय	बेंगलुरु	328	400688	मि. सुराना प्रवीन कुमार	इन्दौर
310	219680	मि. साबू आनन्द आदित्य	नागड़ा	329	400713	मिस. मिश्रा सारिका	बेंगलुरु
311	223288	मि. अमरेन्द्र कुमार	रांची	330	400724	मि. एस. आर. कुमारन	लखनऊ
312	400006	मि. जेम्स जिम्मी पी	भिलाई	331	400729	मि. मुकेश सिंघवी	जोधपुर
313	400114	मि. कपिल जैन	इन्दौर	332	400772	मिस पदमावती स्वामी खनुजा	भोपाल
314	400115	मि. पानवार हंसराज	जोधपुर	333	400787	मि. गुरुदेव सिंह	बरेली
315	400126	मि. रीतेश राठी	न्यू देहली	334	400837	मि. ओझा सुनील कुमार	नोएडा
316	400142	मि. सुनील कुमार ईनानी	चित्तौरगढ़	335	400865	मि. अग्रवाल विकास	बीकानेर
317	400156	मि. गुप्ता दिव्येन्दु	आगरा	336	400994	मि. मुबीन खान	जबलपुर
318	400160	मि. रिषी करनावत	जयपुर	337	401017	मि. व्यास श्री कान्त	मुम्बई
319	400187	मि. स्वदेश मिश्रा	कानपुर	338	401041	मि. दिवाकर बंसल	श्रीगंगानगर
320	400209	मि. सचिन एच गुप्ता	इन्दौर	339	401055	मिस जायसवाल अनु	लखनऊ
321	400331	मि. ओझा आशीष	मुम्बई	340	401079	मि. गुप्ता अरविन्द	जोधपुर

341	401158	मि. योगेश कुमार पितालिया	जयपुर	361	401743	मि. कासलीवाल प्रशान्त	जयपुर
342	401160	मिस शर्मा अंकिता	जयपुर	362	401776	मि. किंगरानी नितिन	उदयपुर
343	401175	मि. तिवारी अभिषेक	जयपुर	363	401829	मिस मनचन्दा मानसी	आगरा
344	401190	मि. कमल कुमार बावडीवाला	इन्दौर	364	401864	मि. मोहम्मद फुर्कान वारसी	इलाहाबाद
345	401205	मिस वत्स दीप्ती	मुजफ्फरनगर	365	401910	मि. कामरा राजीव	उदयपुर
346	401217	मिस अग्रवाल दुर्गा	बीकानेर	366	401917	मि. जैन गौतम चन्द	निम्बहेरा
347	401238	मि. साह अनुराग	गाजियाबाद	367	401950	मि. गुप्ता मनीष	लखनऊ
348	401345	मि. आलोक कुमार सिंहल	गाजियाबाद	368	402011	मि. मुकेश कुमार चौधरी	अजमेर
349	401359	मि. सदपहाल दीपक कुमार	जबलपुर	369	402015	मिस मेघना जैन	अहमदाबाद
350	401378	मि. जैन विकास	जयपुर	370	402016	मि. माहेश्वरी बाल किशन	जयपुर
351	401387	मि. श्री हरी लाठ	जयपुर	371	402025	मि. सिंह अभिलाष	वाराणसी
352	401398	मि. अकदास हुसैन	उदयपुर	372	402100	मि. गुप्ता आशीष	जयपुर
353	401399	मि. खण्डेलवाल विशाल	जयपुर	373	402134	मि. जैन अनुराग	देहली
354	401493	मि. अग्रवाल उपेन्द्र कुमार	इलाहाबाद	374	402149	मिस ओसटवाल रेशमा	ब्यावर
355	401515	मि. नवीन कुमार जैन	गाजियाबाद	375	402169	मि. ललित माहेश्वरी	हैदराबाद
356	401517	मि. अग्रवाल प्रीतेश	इन्दौर	376	402187	मि. कामरा रवि	मेरठ
357	401518	मिस पिंकी दीवान	इन्दौर	377	402199	मि. मित्तल संदीप	श्रीगंगानगर
358	401541	मि. विनय कुमार शर्मा	रायपुर	378	402218	मिस मेहता सुरभि	जयपुर
359	401573	मिस गुप्ता स्वाती	बाँदा	379	402230	मि. सरीपल्ली अरुण	भोपाल
360	401603	मि. मिश्र विशाल	लखनऊ				

380	402247	मि. उधानी विजय	पुने	399	402727	मि. उपाध्याय सुदिप	वाराणसी
381	402251	मि. शर्मा सुनील कुमार	जबलपुर	400	402733	मि. बगपतिया ब्रिजेश	भरतपुर
382	402265	मि. अग्रवाल अम्बुज	वाराणसी	401	402734	मिस. भूतरा यशोदा	बलोतरा
383	402285	मिस अग्रवाल गुंजन	नवी मुम्बई	402	402785	मिस गुप्ता सिखा	इन्दौर
384	402318	मि. माहेश्वरी विकास कुमार	अजमेर	403	402800	मि. पंकज कुमार सेकसरिया	जयपुर
385	402324	मि. सिंहल सौरभ	ग्वालियर	404	402860	मि. जैन तोषी	इन्दौर
386	402337	मिस चटर्जी प्रार्थना	संची	405	402918	मि. गुप्ता सुनील	गुडगाँव
387	402366	मि. अट्टारी इम्तियाज अहमद	उदयपुर	406	402930	मि. अग्रवाल नमन	लखनऊ
388	402389	मि. स्वाधीन कुमार मिश्रा	लखनऊ	407	402956	मि. विजय मुकेश	जयपुर
389	402449	मि. पुनधिर अभिषेक सिंह	जयपुर	408	403031	मि. अग्रवाल ब्रिजेश	वृन्दावन
390	402506	मि. शर्मा राहुल	जयपुर	409	403083	मि. बड़जात्या सुरेन्द्र	इन्दौर
391	402565	मिस अनुप्रिया श्रीवास्तव	लखनऊ	410	403086	मि. मंगल ब्रिजेश चन्द्र	जयपुर
392	402570	मि. हिमांशु मित्तल	मेरठ	411	403182	मि. शाह मोसम	इन्दौर
393	402600	मि. पोरवाल विवेक	इन्दौर	412	403190	मि. हरलालका विकास कुमार	लदनून
394	402604	मि. भोई सुनील कुमार	रायपुर	413	403210	मि. बंसल राहुल	मथुरा
395	402605	मिस शर्मा शिप्रा	लखनऊ	414	403233	मि. कुशवाहा सुनील कुमार सिंह	इलाहाबाद
396	402610	मि. भागचन्दानी रवि	जोधपुर	415	403252	मि. खण्डेलवाल आशीष	जयपुर
397	402614	मि. अग्रवाल पंकज कुमार	फरीदाबाद	416	403272	मि. मोदानी नवीन	जयपुर
398	402687	मिस गोयल अंजली	भोपाल	417	403390	मिस अग्रवाल प्रियंका	गाजियाबाद
				418	403403	मिस शाह अंकिता	इन्दौर

419	403411	मिस दीप्ती भंडारी	देहली	437	403847	मि. खण्डेलवाल समीर	जयपुर
420	403497	मि. भण्डारी अनिल कुमार	भीलवाड़ा	438	403875	मि. खान नुरुल कमर	उज्जैन
421	403520	मि. अग्रवाल मनीष	जयपुर	439	403925	मि. खण्डेलवाल बालानुज	भिवाड़ी
422	403522	मि. सक्सेना मनोज कुमार	देहरादून	440	403935	मिस शर्मा श्रुति	जयपुर
423	403526	मि. सिंधी आशीष एस	उदयपुर	441	403966	मि. प्रियांशु जैन	गाजियाबाद
424	403535	मि. श्रीवास्तव रिषभ	इलाहाबाद	442	403988	मि. शारदा गौरव	कोटा
425	403546	मि. परवल राधा गोविन्द	जयपुर	443	404066	मि. भदौरिया संजय सिंह	भोपाल
426	403596	मिस चौधरी पायल	जमशेदपुर	444	404113	मि. श्रीवास्तव प्रमोद किशोर	इन्दौर
427	403608	मि. श्रीवास्तव दीपक	कानपुर	445	404128	मि. गुप्ता प्रफुल कुमार	रामगंज मण्डी
428	403623	मि. सिंहल रवि प्रकाश	जयपुर	446	404152	मिस जैन शिल्पा	राजनन्दगाँव
429	403626	मि. गुलाटी गौरव	आगरा	447	404156	मिस कुरावरवाला इनसिया	उदयपुर
430	403641	मि. यादव अतुल सिंह	कानपुर	448	404170	मि. छवछारिया आशीष	बाराबंकी
431	403671	मि. भण्डारी समकित	इन्दौर	449	404172	मि. अग्रवाल प्रशान्त	गाजियाबाद
432	403685	मि. भण्डारी रोहन राज	जोधपुर	450	404215	मि. विनायक रिषभ	इन्दौर
433	403793	मि. बिरला लक्ष्मी कान्त	फतेहपुर शेखवती	451	404238	मिस कुमार रोषी	लखनऊ
434	403794	मि. खण्डेल सुनील कुमार	जयपुर	452	404253	मि. माहेश्वरी सुरेन्द्र कुमार	सिरमौर
435	403821	मि. गुप्ता जय कुमार	अलवर	453	404277	मि. लालवानी वरुण	इन्दौर
436	403831	मि. जैन रीतेश	इन्दौर	454	404287	मि. पमनानी दिलीप कुमार	नोएडा
				455	404330	मि. डागा वैकट	जोधपुर

456	404342	मिस शर्मा अनीता	देहरादून				
457	404343	मि. खान मोहम्मद फावद	रीवा	476	404780	मिस विजय अंकिता	अजमेर
458	404417	मि. पारिख अंकित	उदयपुर	477	404823	मिस दशोत्तर सूर्या	इन्दौर
459	404420	मि. चौधरी राजीव कुमार	जमशेदपुर	478	404911	मि. वर्मा अमित कुमार	अजमेर
460	404449	मि. अग्रवाल विनोद वी	बालाघाट	479	404929	मि. सुदान जसविन्दर सिंह	देहरादून
461	404468	मि. महेश पुरोहित	धाने	480	404951	मि. अनिल रांका	जयपुर
462	404481	मि. नेवटिया यदु नंदन	कानपुर	481	404955	मि. मन्डोरा सुनील	उदयपुर
463	404503	मि. अंकुर बंसल	लखनऊ	482	404961	मि. बंसल विवेक	कोटा
464	404534	मिस साजिया	लखनऊ	483	404975	मिस नागपाल नीतू	गाजियाबाद
465	404540	मि. अहमेशम आलम	वाराणसी	484	404983	मि. पिटलिया विमल	उदयपुर
466	404551	मि. गुप्ता याशु	आगरा	485	405013	मि. जैन सौरभ	कोटा
467	404594	मि. रस्तोगी कुशाग्र	जयपुर	486	405024	मि. धवल कोठारी	उदयपुर
468	404609	मिस सोनाली तायल	न्यू देहली	487	405044	मि. सधनानी ओम प्रकाश	कैंकरोली
469	404611	मि. अर्जुन प्रसाद	नोएडा	488	405094	मि. माहना अमन	मुम्बई
470	404672	मि. गोयल संजय	डालमिया नगर	489	405122	मि. पोखरना दिलीप कुमार	नवी मुम्बई
471	404673	मिस गुप्ता पारुल	कानपुर	490	405128	मिस सुराना आरती	जयपुर
472	404702	मि. मित्तल लव	जयपुर	491	405131	मि. दीपक कचोलिया	जयपुर
473	404730	मि. खण्डेलवाल नितिन	अलवर	492	405143	मि. आलम जावेद	हजीराबाग
474	404737	मि. गुप्ता शोभित कुमार	गाजियाबाद	493	405149	मि. रस्तोगी विनय कुमार	लखनऊ
475	404751	मि. जैन पारस	ब्यावर	494	405169	मि. अग्रवाल आशीष	लखनऊ

495	405184	मिस कीर्ति वर्मा	उदयपुर	517	405793	मि. अमित कुमार गुप्ता	कानपुर
496	405203	मि. रस्तोगी सुनीत	लखनऊ	518	405799	मि. विपिन सिंहल	जयपुर
497	405339	मिस अर्चना मुन्द्रा	जोधपुर	519	405834	मि. गोबिन्द मोदानी	जयपुर
498	405343	मि. पुनीत अग्रवाल	न्यू देहली	520	405868	मि. अंकुश अग्रवाल	न्यू देहली
499	405353	मि. निशान्त चौधरी	भीलवाड़ा	521	405903	मि. आनन्द कुमार अग्रवाल	आगरा
500	405406	मि. पंकज खण्डेलवाल	इन्दौर	522	405921	मि. अतीन्द्र मिश्रा	कानपुर
501	405439	मि. उमाकान्त	श्रीगंगानगर	523	405933	मि. समीर अग्रवाल	कानपुर
502	405443	मि. ओम प्रकाश माटोलिया	थाने	524	405967	मि. पीयूष गुप्ता	भोपाल
503	405500	मि. अमित नूना	ललितपुर	525	405977	मि. रिषी बजाज	मुम्बई
504	405505	मि. सुधांशु गोयल	अजमेर	526	406022	मि. रीतेश अग्रवाल	जयपुर
505	405562	मि. सुभल गर्ग	इटावा	527	406224	मि. सागर निगम	लखनऊ
506	405581	मि. शैलेन्द्र सिन्हा	गाजियाबाद	528	406232	मि. सतीश अग्रवाल	जयपुर
507	405589	मि. अर्पित बोहरा	उदयपुर	529	406249	मि. योगेश कुमार	न्यू देहली
508	405628	मि. गौरव माहेश्वरी	अजमेर	530	406352	मिस श्वेता अग्रवाल	इन्दौर
509	405629	मि. गौरव कुमार श्रीवास्तव	नोएडा	531	406400	मि. रवि कारीवाल	गुडगाँव
510	405632	मिस भारती गोलानी	जयपुर	532	406457	मि. मनोज अग्रवाल	रांची
511	405656	मि. सत्पाल सिंह खनुजा	भोपाल	533	406488	मि. राजेन्द्र गुप्ता	जयपुर
512	405668	मिस माधुरी शारदा	इन्दौर	534	406500	मि. गिरीश शिवरामकृष्णन	जयपुर
513	405695	मिस दीप्ती जैन	इन्दौर	535	406503	मि. नवीन अग्रवाल	जयपुर
514	405709	मि. धनंजय मोहन	चास	536	406539	मि. विवेक बंसल	लखनऊ
515	405723	मि. पंकज तिवारी	भरतपुर	537	406578	मि. सचिन सहदेव	कानपुर
516	405737	मिस शिखा कपूर	कानपुर				

538	406597	मि. अनुभव शारदा	जयपुर	557	407093	मि. संदीप धवन	आगरा
539	406599	मि. दीपक दीक्षित	जयपुर	558	407135	मि. पंकज कुमार सिंह	पटना
540	406604	मि. कमल जैन	जयपुर	559	407162	मि. नीरज जैन	इन्दौर
541	406625	मि. विनय कुमार सेठ	कानपुर	560	407177	मिस दीपिका अरोड़ा	इन्दौर
542	406688	मि. रवि कुमार उधानी	पुने	561	407181	मिस सीमा भदौरिया	इन्दौर
543	406748	मि. संदीप कुमार	गाजियाबाद	562	407198	मि. हुजैफा अली रामपुरवाला	नीमुच
544	406749	मिस सीमा अग्रवाल	हावड़ा	563	407237	मि. सुयज्ञ रमेश सिंहल	अकलेश
545	406771	मिस स्मिता गुप्ता	इलाहाबाद	564	407288	मि. आलोक दधीच	जयपुर
546	406812	मि. गौरव पी. अग्रवाल	जोधपुर	565	407291	मि. वैभव बड़जतिया	इन्दौर
547	406873	मि. योगेश कुमार अवस्थी	लखनऊ	566	407300	मि. नरेश कुमार	न्यू देहली
548	406897	मि. रामजी ठाकुर	झांसी	567	407352	मि. हर्ष गोपाल माहेश्वरी	छिन्दवाड़ा
549	406987	मिस आकांक्षा अरोड़ा	आगरा	568	407355	मि. नितिन जालान	गोरखपुर
550	407010	मिस बाकुल गोयल	देहली	569	407360	मि. प्रदीप गौड़	जयपुर
551	407024	मिस सपना मेगवान्नी	इन्दौर	570	407405	मिस अर्चना सिंघवी	मुम्बई
552	407028	मि. दीप किशोर शर्मा	लखनऊ	571	407411	मि. अमित सोनी	इन्दौर
553	407052	मिस मयंका जायसवाल	लखनऊ	572	407423	मि. वरुण गुप्ता	कानपुर
554	407053	मि. सतीश कुमार चौबे	लखनऊ	573	407438	मि. नवीन सिंघवी	मेरटा सिटी
555	407055	मि. दीपक बिरला	इन्दौर	574	407455	मि. सुरेश मुरजानी	जोधपुर
556	407081	मि. अजय अग्रवाल	जयपुर	575	407520	मि. अनुज तलवार	झांसी
				576	407531	मि. रोहित शर्मा	देहली

577	407535	मि. सौरभ कुमार मजूमदार	वाराणसी	597	408085	मि. चन्द्र प्रकाश अरोड़ा	गुडगाँव
578	407576	मि. हर्ष अग्रवाल	भोपाल	598	408091	मि. मयंक मोहन सोमानी	भीलवाड़ा
579	407577	मिस छवि जैन	कानपुर	599	408141	मि. धीरज रनसरिया	झुनझुनू
580	407672	मि. राहुल पुर्सवानी	गुडगाँव	600	408142	मि. नितिन पारीक	जयपुर
581	407697	मिस सालनी तिवारी	कोटा	601	408183	मि. कर्मवीर सिंह कौरव	भोपाल
582	407733	मि. नितिन पटौदी	गुना	602	408216	मि. मनीष कुमार सारवत	मेरठ
583	407740	मि. मोहम्मद फैज	नोएडा	603	408221	मि. पुष्किन राजेन्द्र परवल	जयपुर
584	407767	मि. योगेश कुमार	भरतपुर	604	408260	मि. अनुराग सिंह	लखनऊ
585	407822	मिस मेघा चौधरी	रांची	605	408285	मि. कृष्ण कुमार	जयपुर
586	407823	मिस मृदुला बिहानी	रांची	606	408316	मि. संजीव अग्रवाल	न्यू देहली
587	407825	मि. मनीष कुमार	रांची	607	408331	मिस रेशु अग्रवाल	बरन
588	407899	मि. अंकुर अग्रवाल	देहरादून	608	408335	मि. पवन कुमार जैन	अजमेर
589	407901	मि. गौरव जोशी	लालसोट	609	408362	मि. सुयश कुमार	गया
590	407937	मि. संजय अग्रवाल	मथुरा	610	408369	मि. हरीश लोधा	जोधपुर
591	407951	मिस रेनू दुबे	इटारसी	611	408417	मि. ललित मेरटिया	मुम्बई
592	407960	मिस मीनाक्षी राठी	मुम्बई	612	408460	मि. राजकुमार पुर्सवानी	भोपाल
593	407985	मि. विकास विश्नोई	गाजियाबाद	613	408479	मिस वीना सिंह	रुरकी
594	408002	मि. सचिन कालरा	लखनऊ	614	408493	मि. मनवेन्द्र आचार्य	जयपुर
595	408003	मि. विक्रम दोशी	उदयपुर	615	408512	मि. दीपक मोदी	अलवर
596	408079	मि. आशीष कुमार जोशी	विदिशा				

616	408530	मि. राहुल कपिला	मेरठ	635	408995	मि. अंकित मेहता	भोपाल
				636	409015	मि. प्रवीन गुप्ता	दुर्ग
617	408546	मि. आशीष द्विवेदी	इन्दौर	637	409019	मि. लोकेश भारती	भरतपुर
618	408550	मिस नीशू जैन	गाजियाबाद	638	409043	मि. करन शुक्ला	सिकन्दराबाद
619	408567	मि. कृष्ण मुरारी अग्रवाल	जयपुर	639	409055	मि. अतुल गुप्ता	मुम्बई
620	408581	मि. अमित सहाय माथुर	देहरादून	640	409059	मि. नीरज सुरेश वाकलीवाल	दुर्ग
621	408673	मिस दीपिका	नोएडा	641	409066	मिस मीनल माहेश्वरी	मुम्बई
622	408676	मि. संदीप मित्तल	जयपुर	642	409080	मि. विशाल शर्मा	हाथरस
623	408699	मिस रिंकी राजदेव	भोपाल	643	409127	मि. मोहित सिक्का	मुरादाबाद
624	408703	मि. जतिन मल्होत्रा	जयपुर	644	409168	मिस प्रीति जैन	अलवर
625	408723	मि. सौरभ संगल	जबलपुर	645	409208	मिस मनप्रीत कौर तुतेजा	इन्दौर
626	408740	मि. आलोक पाण्डेय	इलाहाबाद	646	409263	मि. अंकुर गुप्ता	देहरादून
627	408776	मिस सुनैना शेखावत	जयपुर	647	409308	मि. हिमांशु पाण्डेय	इलाहाबाद
628	408811	मिस शमा कपिल अग्रवाल	जयपुर	648	409321	मिस निवेदिता गोयल	वाराणसी
629	408814	मि. कुशांक गांधी	कानपुर	649	409345	मि. अमित कुमार जशवानी	ग्वालियर
630	408836	मिस योगिता कपूर	जबलपुर	650	409347	मि. संदीप कारवा	इन्दौर
631	408889	मि. गुनवंत लाल शर्मा	प्रतापगढ़	651	409453	मिस प्रियंका गोयल	बेंगलुरु
632	408900	मिस समसिद्धी भट्ट	हैदराबाद	652	409472	मिस नीलाक्षी सोनी	बेंगलुरु
633	408978	मि. मनीष तेमानी	जयपुर	653	409485	मि. रवि खरबन्दा	गाजियाबाद
634	408991	मि. अमित कुमार कौनतिया	जमशेदपुर	654	409548	मिस शिवा शर्मा	गुडगाँव
				655	409572	मि. नितिन जैन	मुम्बई

656	409583	मि. पाराशर के. राठौर	रांची	676	410209	मि. सजल गोयल	सिकन्दराबाद
657	409634	मि. सनी वाधवानी	जयपुर	677	410221	मि. विकास कुमार	रांची
658	409646	मिस रिचा जैन	लखनऊ	678	410284	मि. विवेक कटियार	गुडगाँव
659	409661	मि. सुशील कुमार जैन	टीकमगढ़	679	410318	मि. मनीष रघुवंशी	इन्दौर
660	409665	मि. भारत करनानी	जयपुर	680	410456	मिस मानसी सुराना	उज्जैन
661	409675	मि. चन्दन अग्रवाल	इन्दौर	681	410470	मि. आजाद सिंह	गाजियाबाद
662	409682	मि. ब्रजेश कुमार	जमशेदपुर	682	410484	मि. निखिल अग्रवाल	देहरादून
663	409748	मि. अनूप कुमार	रांची	683	410508	मि. मनीष अग्रवाल	जयपुर
664	409801	मि. अमित कुमार गोयल	स्हारनपुर	684	410516	मिस नाजिया	रांची
665	409853	मि. अमजद खान	गुडगाँव	685	410519	मि. आशीष भाटिया	जयपुर
666	409898	मि. अंकित मित्तल	सिकन्दराबाद	686	410600	मि. मनीष कुमार जागेतिया	भीलवाड़ा
667	409922	मि. सुमित कुमार माहेश्वरी	इन्दौर	687	410638	मिस ममता बागरिया	रांची
668	409945	मि. आशीष कुमार श्रीवास्तव	लखनऊ	688	410736	मि. विपुल सिंघवी	जोधपुर
669	409968	मिस वीना कुमार	रांची	689	410756	मिस शिल्पी मिश्रा, अग्रवाल	बुलन्दशहर
670	409988	मि. अतुल जैन	भोपाल	690	410811	मि. अमित तलरेजा	इन्दौर
671	410015	मि. प्रदीप कुमार यादव	गोरखपुर	691	410880	मिस निशिता करनानी	जयपुर
672	410058	मि. विशाल चतुर्वेदी	लखनऊ	692	410899	मि. सौरभ शुक्ला	आगरा
673	410146	मि. मोहित मिश्रा	लखनऊ	693	410943	मि. अमन शर्मा	इन्दौर
674	410165	मि. आशीष कुमार यादव	जयपुर	694	410984	मि. प्रिया शर्मा	मथुरा
675	410178	मि. राकेश गर्ग	ब्यावर	695	411053	मि. गुफरानुल हसन सैय्यद	भोपाल

696	411132	मि. मोहम्मद आरिफ अंसारी	राय बरेली	715	411700	मि. अर्पित महाजन	इन्दौर
				716	411741	मि. मोहम्मद अकरम	हनुमानगढ़ टाउन
697	411159	मिस सुगंधा खण्डेलवाल	जयपुर	717	411758	मि. सुमित शेखर	रांची
698	411177	मि. मनीष कुमार गोयल	जयपुर	718	411793	मि. सतीश कुमार मुन्द्रा	टपकारा
699	411215	मिस प्रियंका जैन	गाजियाबाद	719	411819	मिस अक्षिता अग्रवाल	जयपुर
700	411217	मि. अमित कुमार गनग्रेड	सनवाद	720	500298	मि. दीपक कुमार	बरौनी
701	411241	मिस मोना द्विवेदी	भोपाल	721	500326	मि. पण्डित संदीप कुमार	नोएडा
702	411242	मि. अंकित जैन	बड़ौत	722	500565	मिस सुमन	न्यू देहली
703	411266	मि. सिद्धार्थ शंकर आचार्य	जोधपुर	723	500735	मि. सक्सेना बृजेन्द्र कुमार	उझानी
704	411271	मिस शुभम वी. भण्डारी	बाकारो स्टील सिटी	724	500846	मि. रंजीत कुँअर	गाजियाबाद
705	411349	मि. नारेन्द्र अरोड़ा	देहली	725	500929	मि. अनिल कुमार	गाजियाबाद
706	411381	मिस श्वेता जैन	इन्दौर	726	500931	मि. राजेश कुमार कन्डोई	न्यू देहली
707	411406	मि. शलिन कुमार गोयल	मदनगंज किशनगढ़	727	500944	मि. शशी भूषन कुमार	गया
708	411447	मि. मधुसूदन मुन्द्रा	सूरतगढ़	728	501035	मि. गोयल जितेन्द्र	भरतपुर
709	411479	मि. रजुद्दीन अंसारी	सिद्धार्थनगर	729	501175	मि. विजय कुमार अग्रवाल	रायपुर
710	411482	मि. कमल कालरा	भोपाल	730	501202	मि. अग्रवाल प्रराग	गाजियाबाद
711	411520	मि. विकास कुमावत	जयपुर	731	501207	मि. राजीव कुमार	हरद्वार
712	411568	मि. अभय माहेश्वरी	जयपुर	732	501649	मि. मित्तल सुमित कुमार	रांची
713	411632	मि. राहुल माहेश्वरी	भीलवाड़ा	733	501655	मिस क्वातरा मीनाक्षी	गाजियाबाद
714	411641	मि. आशुतोष एच. मालू	जयपुर	734	501958	मि. संतोष कुमार	गाजियाबाद

735	502070	मि. रमेश चन्द्र	देहली	755	506848	मि. राहुल जायसवाल	नोएडा
736	502205	मि. के. अनिल कुमार पतरो	नोएडा	756	506929	मि. वरून विरमानी	गाजियाबाद
737	502802	मि. सर्वेश कुमार	नोएडा	757	507254	मि. चेतन कुमार	विजय नगर
738	503838	मि. सिन्हा कृष्ण प्रताप	बाकारो स्टील सिटी	758	507817	मि. विवेक वेदा	गाजियाबाद
739	503841	मि. विवेक सिंह	बरेली	759	508467	मि. संजीव रस्तोगी	इलाहाबाद
740	504219	मि. अग्रवाल आशीष	देहली	760	508556	मि. विजयपाल सिंह गुलया	रायपुर
741	504285	मि. कश्यप मनीष	जयपुर	761	508813	मि. दिनेश कुमार	गाजियाबाद
742	504554	मि. मित्तल अमित मोहन	मथुरा	762	509263	मि. नीरज सिंह चौहान	नोएडा
743	505041	मि. जैन नितिन के	न्यू देहली	763	509514	मि. आशीष मोहता	बीकानेर
744	505378	मि. ठक्कर अमित कुमार	गाजियाबाद	764	509548	मि. नन्द लाल	न्यू देहली
745	505386	मि. गर्ग राजेश	उधम सिंह नगर	765	509672	मि. सौरभ शर्मा	देहरादून
746	505427	मिस दिव्या	गाजियाबाद	766	509695	मि. पिन्टू मेहर	मुम्बई
747	505445	मि. खन्ना राहुल	गाजियाबाद	767	509943	मि. बृजेश कुमार सिंह	देहली
748	505718	मि. भारद्वाज अमित	नोएडा	768	510000	मि. विपिन जैन	आगरा
749	505984	मि. गिरधारी प्रसाद	हरद्वार	769	510042	मि. रूपेश कुमार	गाजीपुर
750	506052	मि. अनुराग राजन	पटना	770	510194	मि. अमित त्रिपाठी	लखनऊ
751	506088	मि. स्वतंत्र कुमार सिंह	मनकापुर	771	510247	मि. आशीष जायसवाल	मिर्जापुर
752	506379	मि. सौरभ टण्डन	इलाहाबाद	772	510337	मि. सुमित गौतम मिश्रा	गाजियाबाद
753	506453	मि. विकास बिरला	चित्तौरगढ़	773	510422	मि. हर्ष कुमार	खुरजा
754	506561	मि. विनय बापना	नोएडा				

774	510428	मिस प्रियंका मोदी	बेंगलुरु	795	512676	मि. अकिलेश सिंह	गाजियाबाद
775	510439	मि. जीतेन्द्र अग्रवाल	मथुरा	796	512686	मिस गीतिका मलिक	नोएडा
776	510483	मि. विनय चौरसिया	गोरखपुर	797	512854	मिस सुची संगल	देहरादून
777	510671	मि. विकास कुमार	नोएडा	798	513025	मि. विनीत गोयल	बरेली
778	510709	मिस पूर्ति कोठारी	इन्दौर	799	513076	मि. मनोज गुप्ता	अलवर
779	510787	मि. गोपाल शर्मा	मुजफ्फरनगर	800	513183	मि. सतीश कुमार शर्मा	भिवाड़ी
780	510869	मि. मृनाल सजवान	गाजियाबाद	801	513723	मि. घनश्याम दास गुप्ता	छतरपुर
781	511016	मिस मोनीषा अग्रवाल	बरेली	802	514137	मि. हर्षित अग्रवाल	पड़रौना
782	511059	मि. बुद्धि भास्कर श्रीवास्तव	अलीगढ़	803	514628	मिस वाटिका अरोड़ा	बरेली
783	511089	मिस खुशबू बंसल	गाजियाबाद	804	514810	मिस गुंजन गर्ग	बछरांव
784	511164	मि. विनीत पुष्कर	गाजियाबाद	805	514985	मि. अर्जुन कुमार	न्यू देहली
785	511249	मि. अचल कुमार गर्ग	मेरठ	806	515157	मिस संजना सूद	गाजियाबाद
786	511261	मि. निखिल सिंहल	हापुड़	807	515164	मि. नरेन्द्र नाथ मिश्रा	मुम्बई
787	511480	मि. मुदित गुप्ता	नोएडा	808	515257	मिस प्रीति शर्मा	मेरठ
788	511591	मि. समीर अरोड़ा	गुड़गाँव	809	515456	मि. सौरभ जैन	बड़ौत
789	511637	मि. देश बन्धु	गुड़गाँव				
790	511896	मि. अभिषेक शर्मा	गाजियाबाद				
791	511984	मि. मोहम्मद औरंगजेब खान	गाजियाबाद				
792	512052	मि. अर्ध्या मुखर्जी	पटना			(टी० कार्तिकेयन) सचिव	
793	512279	मि. सौरभ अग्रवाल	मथुरा				
794	512647	मि. विशाल जायसवाल	पूरनपुर				

सं. 3 सी.सी.ए. (4)(2)/2010-2011--चार्टर्ड लेखाकार संस्थान विनियम सन् 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों द्वारा प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1(क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों के नाम मृत्यु हो जाने के कारण उनके आगे दी गयी दिनांक से हटा दिया है :--


SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	DATE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	DATE
1	002264	मि. कलानी पुखराज शंकर लाल	जयपुर	16.08.2010	12	015054	मि. गोपाल जी	इलाहाबाद	27.03.2010
2	002326	मि. गुप्ता श्रीकान्त	कानपुर	10.12.2010	13	015504	मि. मित्तल सुधीर कुमार	नोएडा	23.04.2010
3	002463	मि. शाह प्रभात रंजन	वाराणसी	18.12.2010	14	052716	मि. शाह रबी नाथ	पटना	21.12.2010
4	002696	मि. जैन धन्ना लाल राजमल	जयपुर	22.12.2010	15	070442	मि. भरकटिया गणेश मल	जयपुर	16.12.2009
5	003527	मि. जयसवाल रामेश्वर प्रसाद	भागलपुर	16.05.2010	16	070453	मि. बागला रामेश्वर लाल	उदयपुर	12.10.2010
6	006500	मि. संचेती मानक चन्द	जोधपुर	21.12.2010	17	070519	मि. अग्रवाल धरमवीर	श्री गंगा नगर	29.11.2010
7	008736	मि. शुक्ला श्री गोपाल	कानपुर	13.08.2010	18	071031	मि. कपूर अमर नाथ	कानपुर	23.03.2010
8	009014	मि. शुक्ला अश्वनी कुमार	कानपुर	01.12.2010	19	071049	मि. वीरेन्द्र कुमार	गाजियाबाद	02.12.2010
9	011007	मि. बैद नागराज	पटना	21.07.2010	20	072107	मि. गोयल हरी भूषण	कानपुर	08.02.2010
10	012882	मि. ढड्डा प्रेमचन्द्र	जयपुर	11.09.2010					
11	013497	मि. अग्रवाल कृष्ण मुरारी	गाजियाबाद	05.07.2010					


21	073027	मि. सिकावत अशोक कुमार	जोधपुर	04.01.2011	35	090344	मि. तपाड़िया मनीष	अजमेर	03.09.2010
22	073200	मि. जैन राजेन्द्र कुमार	उदयपुर	16.03.2010	36	402291	मि. जैन राजेन्द्र कुमार	भीलवाड़ा	10.11.2007
23	073326	मि. गुप्ता अनिल	सहारनपुर	17.09.2010	37	404685	मि. चाचरा अरविन्द	जमशेदपुर	02.08.2010
24	074492	मि. बोहरा देवेन्द्र	भीलवाड़ा	25.07.2010	38	405258	मि. शर्मा प्रहलाद	मथुरा	03.12.2010
25	075264	मि. शर्मा कृष्ण गोपाल	इलाहाबाद	29.04.2010	39	411045	मि. अनिकेत कृष्णानी	दुर्ग	04.11.2009
26	075830	मि. मिश्रा आशुतोष	लखनऊ	23.08.2010	40	515702	मिस प्राची गुप्ता	बुलन्दशहर	28.07.2010
27	076565	मि. अग्रवाल उग्रसेन	लखीमपुर खीरी	09.08.2010					
28	078219	मि. गलहोत्रा रमन कुमार	बिजनौर	18.11.2010					
29	078931	मि. सिंह सरबजीत	जयपुर	30.06.2010					
30	081353	मि. भुटानी विनोद कुमार	नोएडा	20.11.2010					
31	082433	मि. गुप्ता पवन प्रकाश	नोएडा	12.12.2010					
32	085567	मि. दोदिया विजय कुमार	पाली मारवाड़	29.11.2010					
33	087965	मि. सिंघल विनोद कुमार	बुलन्दशहर	06.07.2010					
34	090061	मि. अरोड़ा संजीव	मथुरा	17.11.2010					

(टी० कार्तिकेयन)
सचिव

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
आर्थिक चिदठा 31 मार्च 2011

दायित्व	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
कोश / पूँजी निधि	1	299411209.00	5490123.00
सुरक्षित / आधिक्य	2	2684999239.00	2251330690.00
विशेष प्रयोजनार्थ हेतु स्थायी निधि	3	4150297412.00	3208152033.00
आरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
स्थगित देनदार दायित्व	6	-	-
चालू दायित्व	7	47559024.00	60120516.00
योग :		7182266884.00	5525093362.00
सम्पत्तियाँ			
अचल सम्पत्तियाँ	8	2685093621.00	2251425072.00
विशेष प्रयोजनार्थ विनियोग / स्थायी निधि	9	2691873342.00	2331744020.00
विनियोग अतिरिक्त	10	218420858.00	206270878.00
चालू सम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम धन	11	1586879063.00	735653392.00
विविध खर्च		-	-
योग :		7182266884.00	5525093362.00


(शकेब अरसलान)
उप वित्त अधिकारी
(लेखा)


(यासमीन जलील बेग)
वित्त अधिकारी

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ आय / व्यय खाता 31 मार्च, 2011				
आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष	
बिक्री / सेवाओं से आय	12	22124834.00	17785117.00	
अनुदान/छूट	13	5026641371.00	4496362822.00	
शुल्क/अंशदान	14	114781313.00	119353480.00	
निवेश से आय (निर्धारित सन्धान / धर्मदा निधि)	15	3042049.00	3744070.00	
रॉयल तथा प्रकाशन से आय	16	178079.00	229314.00	
व्याज प्राप्त	17	5590645.00	14212473.00	
अन्य आय	18	24662933.00	21474477.00	
(बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी) निर्मित माल का स्टॉक	19	-	-	
कुल (अ)		5197021224.00	4673161753.00	
व्यय				
स्थापना व्यय	20	4366193240.00	4191281349.00	
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	536906898.00	511113519.00	
अनुदान / छूट इत्यादि पर व्यय	22	-	-	
व्याज	23	-	-	
कुल (ब)		4903100138.00	4702394868.00	
शेष व्यय से आय की अधिकता (अ-ब)		293921086.00	-29233115.00	
शेष आय से व्यय की अधिकता (ब -- अ)				
अधिक शेष (डेफिसिट) को कॉरपस/कैपिटल फण्ड में ले जाया गया				
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	24		-	
आकस्मिक दायित्व व लेखा	25		-	

(हस्ताक्षर)
 (यासमीन अरसलान)
 उप वित्त अधिकारी
 (लेखा)

(हस्ताक्षर)
 (यासमीन अरसलान)
 वित्त अधिकारी

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2009-10
दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर ।

यह मेरा सौभाग्य है के मैं दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के प्रशासन पर अपने कार्यकाल की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2009-10 प्रस्तुत कर रहा हूँ । दरगाह प्रशासन ने प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी कार्य किया । इन कार्यों की रिपोर्ट आगे के पृष्ठों पर अंकित की गई है ।

I. प्रबंधन

भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन संख्या: एस.ओ.1456(ई) दिनांक 24.08.2007 के द्वारा निम्न व्यक्तियों को दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर का सदस्य नियुक्त किया, जिन्होंने कमेटी की तरफ से जायरीन की सेवार्थ अपनी सेवाये समर्पित की ।

- | | | |
|-------|------------------------------------|-------------|
| i. | जनाब नवाब मोहम्मद अब्दुल अली साहब, | चेन्ई । |
| ii. | जनाब हाजी हाफिज वकील अहमद साहब, | सुलतानपुर । |
| iii. | जनाब मोहम्मद इलियास कादरी साहब | अजमेर। |
| iv. | जनाब प्रोफेसर (डॉ) इब्राहीम साहब, | दिल्ली । |
| v. | जनाब प्रोफेसर सोहेल अहमद खान साहब, | पटना । |
| vi. | जनाब ए.एच. खान चोधरी साहब, | दिल्ली । |
| vii. | जनाब एम.एस.एम तिरमीजी, | अहमदाबाद । |
| viii. | जनाब बदरुद्दीन जी शेख साहब, | अहमदाबाद । |
| ix. | जनाब घोले इस्माईल मुअल्लिम साहब, | रायगढ़ । |

II. दरगाह कमेटी अजमेर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का विवरण ।

1. मज़ार मुबारक पर रोज़ाना फूल, संदल एवं मोमबत्तियाँ पेश करना ।
2. वार्षिक उर्स का प्रबंधन ।
3. अंदरून दरगाह शरीफ में मुहर्रम शरीफ का इंतजाम और चिल्ला हजरत बाबा फरीद (र.अ.) को खुलवाना ।
4. खुल्फा-ए-राशेदीन और बुजुर्गाने दीन की फातिहा कराना ।
5. माहे रमजान में प्रतिदिन खास लंगर के जरिये सहर और अफतार का प्रबंध ।
6. दीनी तालीम के लिये दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया का संचालन ।
7. सी.बी.एस.ई., द्वारा मान्यता प्राप्त ख्वाजा मॉडल स्कूल का संचालन (अग्रेजी माध्यम की स्कूल) जिसमे धार्मिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है ।
8. गरीब नवाज कम्प्यूटर सेन्टर का प्रबंधन ।
9. बेवाओं ओर जरूरतमंदों को वजीफा ।
10. तीन अलग अलग दवाखाने, यूनानी, होम्योपैथिक एवं ऐलोपैथिक दवाखानों का संचालन । निःशुल्क मेडीकल सलाह के अतिरिक्त निःशुल्क दवाईयों का भी वितरण ।

11. मेडीकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य तकनीकी छात्रों को कोर्सेस के लिये छात्रवृत्ति ।
12. ईदगाह का प्रबंधन एवं अन्य मस्जिदों को वित्तीय सहायता ।
13. लावारिस मययुक्तों का निःशुल्क कफन दफन ।
14. दरगाह में स्वच्छ ट्रिपल फिल्टर्ड पीने के पानी का इंतजाम ।
15. वजू के लिये साफ पानी का इंतजाम । सर्दी के मौसम में तीन मर्तबा गर्म पानी की सप्लाई ।
16. निर्बाध विद्युत सप्लाई ।
17. 180 कमरों के गेस्ट हाउस का प्रबंधन ।
18. 24 घंटे सफाई की व्यवस्था ।
19. उर्स एवं अन्य धार्मिक उत्सवों के दौरान शामियानों का इंतजाम ताकि जायरीन को धूप, गर्मी, बारिश एवं सर्दी से बचाया जा सके ।
20. मोरूसी अमले को तनख्वाह (हकूक) की अदायेगी ।
21. राष्ट्रीय एकता पर कार्यक्रम ।
22. सोसायटी के कमजोर तबके के लिये विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन ।
23. राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्व विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन एवं मुलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना ।
24. अंग्रेजी माध्यम बोलचाल की निःशुल्क कक्षाएं लगाना ।
25. सुरक्षा हेतु एकसरे बैगेज स्कैनिंग मशीन एवं सी.सी.टी.वी. कैमरे उपलब्ध कराना ।
26. दरगाह एण्डोवमेंट एवं जायदादों का संरक्षण एवं पीरीयडीकल मरम्मत वगैरह कराना ।

III. वर्ष 2009-2010 की उपलब्धियाँ ।

ए. सुविधायें:-

- दरगाह में स्वच्छ ट्रिपल फिल्टर्ड पीने के पानी का इंतजाम, जनरेटरो द्वारा निर्बाध विद्युत सप्लाई, ठहरने एवं सफाई का विशेष प्रबंध ।
- विश्राम स्थली (गरीब नवाज़ मेहमान खाना) का विकास जिसमें एक लाख जायरीन ठहर सकते हैं एवं 6000 बसें को पार्क किया जा सकता है ।
- दरगाह शरीफ से भिखारियों को बाहर निकालना एक ऐतिहासिक कदम है ।
- सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट ।
- झालरा जल योजना, जिससे कि प्रतिदिन 4.75 लाख लीटर शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है ।
- सर्दी में गर्म ओर गर्मी में ठण्डे पानी का इंतजाम ।
- फ्लोर क्लीन मशीन द्वारा फर्श की सफाई ।

8. दरगाह कमेटी की आय:-

प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर अल्लाह ने चाहा तो दरगाह कमेटी को अतिरिक्त आय होगी जिसको की जायरीन की सुविधाओं पर खर्च किया जायेगा ।

बी. ख्वाजा मॉडल सेकण्डरी स्कूल :-**1. प्रस्तावना:-**

ख्वाजा मॉडल सेकण्डरी स्कूल की नींव 14 जुलाई 1994 को दरगाह कमेटी के संचालन में रखी गई । यह स्कूल एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था जिसकी विधिवत शुरुआत के समय में 35 विद्यार्थी थे जबकि आज 525 विद्यार्थी हैं । इस स्कूल में cocurricular activity के साथ साथ मस्तिष्क के विकास पर ध्यान दिया जाता है । एक प्राइमरी स्कूल होने के नाते यह एक खूबसूरत 5 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है । वर्ष 2007 एवं इसके बाद स्कूल बिल्डिंग का विकास, इन्फ्रा स्ट्रक्चर का विकास एवं कई क्षेत्रों में प्रत्येक छात्र के शैक्षिक स्तर के विकास पर ध्यान दिया जाता है ।

2. ध्येय एवं उद्देश्य:-

अकादमिक में विशेषता, अतिरिक्त कोकरीक्यूलर एक्टिविटी, खेल, स्पोर्ट्स एवं ज्ञान के जरिये छात्रों के चरित्र का निर्माण क्योंकि हमारे यहाँ सूफीवाद का चलन है एवं सूफी सर्वधर्म के सिद्धान्तों को मानता है ।

3. स्कूल को कमोन्त कराना :-

वर्ष 1994 से स्कूल आठवी कक्षा तक था जिसे कि वर्ष 2008 में कक्षा दस तक कमोन्त कर दिया गया ।

4. अनुभवी एवं प्रशिक्षित टीचिंग स्टाफ :-

सी.बी.एस.ई, नई दिल्ली द्वारा कक्षा 10 तक की मान्यता मिलने के बाद अनुभवी एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति प्रोफेसर जामिया मिल्लिया, मुम्बई एवं राजस्थान के विशेषज्ञों द्वारा की गई ।

5. मुलभूत विकास एवं विस्तार प्लान :-

- वर्ष 2007 में स्कूल भवन में मात्र 6 कक्षा कक्ष थे जिनका एरिया 5100 वर्गफुट था ।

- दरगाह कमेटी ने एक डोनर की वित्तीय सहायता से स्कूल भवन के विस्तार की योजना को लागू किया जिसके तहत 26 अदद कमरो का और निर्माण किया जा रहा है ।
- इसके अतिरिक्त स्कूल भवन के पास ही छात्राओं के लिये छात्रावास सुविधा हेतु अपार्टमेंट को खाली कराया गया है ।
- उक्त विस्तार योजना टर्न की बेसिस पर है एवं इस पर लगभग 1.10 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है जिसे कि दानादाता वहन करेगा ।
- स्कूल भवन 31.05.2010 को पूर्ण होने की संभावना है ।

6. सहायता:-

स्कूल निम्नलिखित गतिविधियों को सहायता दे रही है ।

- राज्य एवं भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाये जेसे कि आर.ए.एस., आर.जे.एस., पटवारी, सेक्रेटेरियेट परीक्षाये एवं कमप्यूटर परीक्षाओ का कराने का प्रबंध कराना ।
- राष्ट्रीय एकता पर सेमीनार / कान्फ्रेंस कराना ।
- विधिक साक्षरता केम्प का आयोजन ।
- अंग्रेजी सीखने एवं बोलने के लिये निःशुल्क कक्षाओ का आयोजन ।
- अध्यापको एवं छात्र / छात्राओ का शैक्षणिक भ्रमण की व्यवस्था ।

7. फीस में रियायत:-

- विद्यालय में फीस नाम मात्र की ली जा रही है जो कि अजमेर की कान्वेन्ट एवं अन्य स्कूलो की तुलना में एक तिहाई कम है ।
- दरगाह कमेटी द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख रुपये की सहायता स्कूल को दी जाती है ।
- विद्यालय की फीस को कम रखने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि गरीब वर्ग के बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित न रहें ।

सी. विश्राम स्थली कायड - अजमेर ।

- राष्ट्रीय राजमार्ग न.8 अजमेर जयपुर रोड हाईवे पर दरगाह शरीफ अजमेर से 10 कि.मी दूरी पर स्थित है ।
- 230 बीघा क्षेत्र में फेली हुई है जिसमे 80 बीघा दरगाह कमेटी की एवं 150 बीघा राजस्थान सरकार द्वारा आवंटित की गई भूमि है ।
- भारत सरकार द्वारा वित्तीय पोषित प्लान:-

- | | |
|----------------------------|-------------|
| पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार | 01.87 करोड़ |
| जे.एन.एन.यू.आर.एम के तहत | 15.38 करोड़ |
| कुल रकम | 17.25 करोड़ |
- कार्यकारी एजेन्सी सी.पी.डब्ल्यू.डी.
 - यह वार्षिक उर्स के दौरान 15 दिवस के लिये उपयोग में आयेगी ।
 - **योजना :-**
 - 112 अदद डोरमेट्रीज का निर्माण जिसमें लगभग एक लाख बारह हजार जायरीन ठहर सकेंगे ।
 - पार्किंग की सुविधा लगभग 6000 बसों के लिये ।
 - मुलभूत सुविधायें जैसे कि सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य, विद्युत, जल, रोडवेज एवं रेल की बुकिंग सुविधा ।
 - पार्क एवं वाटर हार्वेसटिंग का निर्माण ।
- इन तमाम पर लगभग 110 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

विश्राम स्थली (जिसका नया नाम गरीब नवाज मेहमान खाना रखा गया है)

विश्राम स्थली पर किये गये विकास कार्य निम्न हैं :-

योजना का प्रारूप / भाग	प्रतिशत	कीमत (रु.लाख में)
• बाउण्ड्री वाल	100 %	69.84
• चार मंजिला डोरमेट्री एक अदद	100 %	267.22
• दो डोरमेट्री, गेस्ट हाउस, किचन, भोजनालय, स्टोर्स एवं टायेलेट ब्लॉक	100 %	187.00
• अण्डर ग्राउण्ड वाटर टैंक	100 %	67.55
• होज एवं टायेलेट	60 %	225.36
• रोड के कार्य	60 %	137.26
• स्ट्रीट लाईट	100 %	38.51
• हाईमास्ट लाइट	5 %	1.65
• बागगानी के कार्य	50 %	3.85

कुल रकम 998.24

इस के अतिरिक्त पानी की सुविधा देने के लिये 1.5 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भी विचाराधीन है जो कि मार्च 2010 तक शुरू होने की संभावना है । अक्षर रुपये 23.58 लाख भी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विद्युत लाईन की सप्लाई हेतु जमा कराये जा चुके हैं ।

डी. सौर ऊर्जा प्लान्ट एवं दरगाह परिसर के लिये उपकरण :-

सतत् प्रयास के परिणामस्वरूप नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने दरगाह को केन्द्रीय सहायता स्वरूप 50 लाख रुपये सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु मंजूर किये । नाजिम के द्वारा सर्वे कराया गया एवं संबंधित मंत्रालय एवं एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर अप्रैल 2010 तक इस परियोजना को लागू करने के लिये भेजी गई । यह एक बहुत ही खास परियोजना है जिसकी वजह से दरगाह शरीफ के 1/3 बिजली के खर्च में कटौती हो जायेगी यानि कि 12 लाख प्रतिवर्ष की बचत होगी ।

ई. दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया :

दरगाह कमेटी की सफलता के साथ दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया का (जो कि एक धार्मिक स्कूल है ख्वाजा गरीब नवाज (र.अ.) की शिक्षाओं का प्रचार कर रहा है) संचालन कर रही है । दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया में उच्चस्तरीय पाँच आलिम, फाजिल, कामिल, हाफिज, कारी एवं लाईब्रेरियन है इस समय दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया में 77 छात्र कक्षा ऐदादिया, ऊला, सानिया, राबिया, तेहतानिया ओर हिफज में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । कमेटी ने 72 छात्रों के लिये भोजन एवं आवास की निःशुल्क व्यवस्था की है । इस और प्रयास जारी है कि दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया का अलग से भवन हो जिसमें सभी मूलभूत सुविधायें छात्रों को उपलब्ध रहें ।

एफ. वित्तः

निम्नलिखित सारणी दरगाह समिति की आय एवं खर्च की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करती है ।

दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर ।			
बजट प्रस्ताव			
मुख्य हेड	आय रूपों (लाख में)		
	2009-10		2010-11
	Estimated Budget	Income for 2009-10	Budget Estimates 2010-11
जगीरो से आय	278750	477285	259250
जायदादों से किराया	4025500	4515170	4453000
दान एवं नजूर	11735000	14311032	14685000
आरामगाह से आय	12200000	11142558	12100000
शिक्षा	2250000	2171134	2550000
दान	4700000	2067776	4200000
विविध	1100000	987531	1100000
बैंक से प्राप्त आय	1330000	1489039	1400000
योग	37619250	37161525	40747250

दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर ।			
बजट प्रस्ताव			
मुख्य हेड	खर्च रुपयों (लाख में)		
	2009-10		2010-11
	Estimated Budget	Income for 2009-10	Budget Estimates 2010-11
वेतन एवं भत्ते	16000000	14551899	16000000
कार्यालय के खर्च	2900000	1988667	2900000
दरगाह शरीफ के खर्च	8895000	7590571	8895000
मजार शरीफ के खर्च	1044000	1093434	1044000
चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च	195000	127928	195000
दारुल उलूम खर्च	495000	423451	495000
कल्याणकारी एवं अन्य खर्च	1810000	1136162	1810000
आरामगाह के खर्च	2730000	2314728	2730000
दरगाह अपार्टमेंट के खर्च	210000	189295	210000
मरम्मत एवं नवीनीकरण	300000	201219	300000
शिक्षा पर खर्च	350000	201210	350000
ख्वाजा मॉडल स्कूल के खर्च	1130000	1265447	1130000
कम्प्यूटर सेन्टर के खर्च	450000	419377	450000
केपिटल खर्च	1000000	949549	1000000
विविध खर्च	195000	163401	195000
कुल योग	37704000	32616338	37704000

जी. दरगाह कमेटी की बैठके :

वर्ष के दौरान दरगाह कमेटी की छः बैठकें दरगाह के मामलात के संबंध में आयोजित हुई ।

एच. वी.वी.आई.पी. एवं वी.आई.पी. का आगमन :-

निम्नलिखित अतिविशिष्ट व्यक्तियों ने दरगाह शरीफ की जियारत की जिसका उल्लेख निम्न प्रकार है ।

1. श्री अशोक गहलोत साहब,
2. श्री लालजान बाशा साहब,
3. श्री फारुख अब्दुल्ला साहब,
4. श्रीमती पान्नबा लक्ष्मी,

मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार ।
अध्यक्ष, संयुक्त संसदीय समिति ।
माननीय सौर ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार ।
माननीय टैक्सटाईल मंत्री, भारत सरकार ।

- | | |
|--------------------------------|--|
| 5. श्रीमती शेख हसीना बाजिद, | माननीय प्रधानमंत्री, बांग्लादेश । |
| 6. श्री विवेक मेहरोत्रा साहिब, | सचिव, अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, भारत सरकार । |
| 7. श्री विलास राव देशमुख, | माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र सरकार । |

आई. धन्यवाद

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं तमाम दरगाह कमेटी के सदस्यों का मैं आभारी हूँ जिनके दिये गये मार्गदर्शन से दरगाह शरीफ का प्रबंधन सुचारु रूप से हो पाया । दरगाह कमेटी के सहयोग के परिणाम स्वरूप प्रति दिन एवं उर्स एवं मुख्य दरगाह शरीफ की रसूमात का प्रबंधन बिना किसी व्यवधान के हुआ ।

मैं अपने कर्तव्यों में असफल रहता यदि मुझे अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, भारत सरकार एवं जिला प्रशासन अजमेर, पुलिस विभाग, नगर परिषद, विद्युत विभाग एवं अन्य विभागों से निरन्तर मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता । इनके सहयोग से दरगाह प्रशासन में गुणवत्ता आई ।

मैं यहाँ अपनी रिपोर्ट इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ कि हमारे लिये आने वाला वर्ष भी चुनौतीपूर्ण होगा ।

५१.

(अहमद रज़ा)

नाजिम एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

हमने 31 मार्च 2010 तक दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के संलग्न तुलन-पत्र और दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम 1955 की धारा 19(i) के साथ पठित नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा कर ली है। लेखापरीक्षा वर्ष 2008-09 से 5 वर्षों तक की अवधि के लिए सौपी गई है। इन वित्तीय विवरणों में दरगाह ख्वाजा साहब के समस्त इकाईयों के लेखे शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व दरगाह ख्वाजा साहब के प्रबन्धक का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण प्रथाओं के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटन मानकों आदि के सम्बन्ध में केवल लेखाकरण व्यवहार पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता एवं निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के सम्बन्ध में वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ यदि कोई हो, निरीक्षण प्रतिवेदनों/सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से अलग से सूचित की जाती हैं ।

3. हम ने भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम इस विषय में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त हैं योजना बनाते हैं और लेखापरीक्षा करते हैं । लेखापरीक्षा में नमूना के आधार पर जांच करना, रकमों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल होते हैं । लेखापरीक्षा में प्रयुक्त किए गए लेखाकरण सिद्धान्तों तथा प्रबन्धन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए समुचित आधार मुहैया करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

i. हमने वह समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार आवश्यक थे;

- ii. इस रिपोर्ट द्वारा डील किए गए तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा महानियंत्रक लेखा, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं।
- iii. हमारी राय में दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर द्वारा अनुरक्षित किए गए लेखाओं की समुचित बहियां और अन्य सुसंगत अभिलेख, जहां तक ऐसी बहियों के सम्बन्ध में हमारी जांच से प्रकट होता है, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर द्वारा अनुरक्षित किए गए हैं जैसा कि दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम 1955 की धारा 20(2) (डी) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

लेखाओं पर टिप्पणियां

क. तुलन-पत्र

क.1 दायित्व ₹ 18.78 करोड़

क.1.1 चल आस्तियों पर मूल्य हास निधि ₹ 15.00 लाख

वर्ष 2009-10 के दौरान चल आस्तियों पर भारित मूल्य हास ₹ 15.00 लाख था, किन्तु यह राशि आय एवं व्यय लेखा को भारित नहीं की गई। यह स्थिर आस्तियों के अधिक बताए जाने व जैसा का जैसा इस सीमा तक अधिशेष को अधिक बताए जाने में परिणामित हुआ।

क-2 आस्तियां

क-2-1 स्थायी आस्तियां भूमि-माफी जमीन ₹ 41.88 लाख ।

प्रबन्धन ने दिनांक 11.4.2009 को कोटा जिला में स्थित खतोली (2.32 हैक्टर), देवनिमडी (2.99 हैक्टर) एवं झोपडिया (2.03 हैक्टर) 3 दान प्राप्त भूखण्डों को कब्जे में लिया, एवं भूमि का जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) दर से कुल कीमत का निर्धारण ₹ 19.65 लाख के बजाय ₹ 22.65 लाख किया गया।

यह स्थिर आस्तियों के अधिक बताए जाने जैसा का जैसा पूंजी निधि को ₹ 3.00 लाख से अधिक बताए जाने में परिणामित हुआ।

क-2-2 चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि ₹ 43.83 लाख ।

इसमें दिनांक 31.3.2010 को श्री मस्तान अली ठेकेदार को उनके निवेदन पर अकबरी मस्जिद के संगमरमर का फर्श डालने के कार्य हेतु किया गया अग्रिम भुगतान शामिल नहीं है। भुगतान व्यय के रूप में माना गया था।

यह चालू आस्तियों के कम बताए जाने जैसा का जैसा अधिशेष के कम बताए जाने में परिणामित हुआ।

क-2-3 अन्य प्रतिभूति जमा ₹ 1.77 लाख ।

(i) यह ₹ 2.70 लाख से कम बताया गया है जैसा कि विद्युत संयोजन हेतु अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर को जमा प्रतिभूति जमा को ₹ 4.27 लाख के बजाय ₹ 1.57 लाख बताया गया था ।

परिणामतः पूंजी निधि एवं चालू आस्तियों को इस सीमा तक कम बताया गया ।

(ii) यह ₹ 0.60 लाख से अधिक बताया गया है, जैसा दो अस्थायी संयोजनों से सम्बन्धित विद्युत उपभोग राशि को गलती से प्रतिभूति जमा में शामिल किया गया था, वस्तुतः प्रतिभूति जमा ₹ 1.04 लाख अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को दो अस्थायी संयोजनों हेतु जमा करवाई गई थी, जो कि संयोजनों के कट जाने के बाद अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा ₹ 0.44 लाख अंतिम रूप से दरगाह को विद्युत उपभोग राशि के समायोजन के बाद प्रतिदाय किए गए थे ।

किंतु उपभोग प्रभार ₹ 0.60 लाख को विद्युत खर्च से नामे (डेबिट) नहीं किया गया जिसके परिणामतः चालू आस्तियों जैसा का जैसा अधिशेष को अधिक बताया गया ।

ख- आय एवं व्यय खाता**ख-1 व्यय ₹ 3.94 करोड़**

दरगाह ख्वाजा साहब सेवानिवृत्ति लाभ देने के लिए दायी है तथापि प्रोद्भूत उपादान एवं अवकाश नकदीकरण के प्रावधान लेखाओं में नहीं बताए गए ।

यह अधिशेष के अधिक बताए जाने जैसा का जैसा पूंजी निधि को अधिक बताए जाने में परिणामित हुआ । राशि का परिमाणन नहीं किया जा सका ।

ख-2 आय ₹ 4.19 करोड़**ख-2-1 स्वयं आस्तियाँ-अतिथि गृह ₹ 1.11 करोड़**

इसमें वर्ष 2009-10 के दौरान ठहरे अतिथियों के बकाया ₹ 0.98 लाख शामिल नहीं किए गए । प्राप्य आय के अंतर्विष्ट नहीं किए जाने के परिणामतः अधिशेष कम बताए गए जैसा का जैसा चालू आस्तियों/ प्राप्य दावों को कम बताए जाने में परिणामित हुआ ।

ग- सामान्य

वर्ष 2009-10 के दौरान दरगाह अतिथि गृह के स्वागत कर्त्ता द्वारा दरगाह अतिथि गृह की ₹ 5.68 लाख की प्राप्तियों का गबन किया गया, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दरगाह प्राधिकारियों द्वारा दर्ज करवाई गई । दरगाह के तुलन-पत्र में टिप्पणी के रूप में वसूली योग्य राशि को नहीं दर्शाया गया ।

घ- लेखाओं पर लेखापरीक्षा का प्रभाव -

पिछले पैराओं में दी गई टिप्पणियों का निवल प्रभाव यह हुआ है कि दिनांक 31 मार्च 2010 को दायित्वों को ₹ 0.30 लाख से अधिक एवं आस्तियों ₹ 14.42 लाख से अधिक एवं अधिशेष ₹ 14.12 लाख से अधिक बताए गए ।

च- प्रबन्धन-पत्र

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल न की गई कमियाँ उपचारी/सुधारात्मक कार्यवाही के लिए पृथक रूप से जारी प्रबन्धन पत्र के माध्य से प्रबन्धन की सूचना में लाई गई है ।

छ- उत्तर का अभाव

प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 01.08.2011 को जारी किया गया था, निर्धारित अवधि तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था ।

(v) पिछले पैराग्राफों में हमारी अभ्युक्तियों के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहारित किए गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा-बहियों के अनुरूप है ।

(vi) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखाकरण नीतियाँ तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित तथा उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुबन्ध-1 में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यधीन उक्त वित्तीय विवरण, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं ।

क- जहाँ तक यह 31 मार्च 2010 को दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के कार्यों के तुलन-पत्र से सम्बन्धित है ।

ख- जहाँ तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय एवं व्यय लेखा से सम्बन्धित है ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए

स्थान-जयपुर

दिनांक: 30.08.2011

ह/-

प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा)

राजस्थान, जयपुर

वर्ष 2009-10 के लिए दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुबन्ध-1

1- आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

दरगाह में प्रचलित आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त नहीं है। सनदी लेखाकार द्वारा केवल अंतिम लेखे तैयार किए गए।

2- आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

दरगाह में प्रचलित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का लेखापरीक्षा के दौरान मूल्यांकन किए जाने पर निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई -

- (i) नकद, स्टॉक एवं मूल्यवान मदों से सम्बन्धी कर्मचारियों के कर्तव्यों में कमावर्तन की कोई योजना नहीं है।
 - (ii) अतिथि गृह रजिस्टर उचित रूप से संधारित नहीं था।
 - (iii) अतिथि पंजिका की जांच किसी पर्यवेक्षकीय प्राधिकारी द्वारा नहीं की जा रही थी।
 - (iv) रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर की जांच प्राधिकारी द्वारा नियमित आधार पर नहीं की जा रही थी।
 - (v) रोकडिया/उप रोकडिया से विश्वस्तता -बंधपत्र प्राप्त नहीं किया गया था।
- 3- कोई लेखाकरण निर्देशिका प्रचलन में नहीं है।
- 4- भौतिक सत्यापन-
- (i) भूमि रजिस्टर संधारित नहीं किया गया था।
 - (ii) सम्पत्ति रजिस्टर को उचित रूप से अद्यतित नहीं किया गया, इन रजिस्ट्रो के अंकों का लेखाओं से मिलान नहीं हुआ था।
 - (iii) स्थिर आस्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, इसका कोई तंत्र विद्यमान नहीं था।
- 5- दरगाह ख्वाजा साहब वैद्यानिक देयताओं का नियमित रूप से भुगतान कर रहा है।
- 6- खादिमों एवं उनके परिवार के सदस्यों के ब्यौरे को दर्शाए जाने सम्बन्धी रजिस्टर का संधारण नहीं किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.सी.-III

जामिया मिल्लिया इस्लामिया
नई दिल्ली-110025
वार्षिक लेखा 2010-2011
तुलन-पत्र, 31 मार्च 2011

देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	विगत वर्ष
पूँजीगत निधि	1	-	750,108,155
उद्दिष्ट / स्थायी निधियां	2	365,559,299	386,668,753
चालू देयताएं एवं प्रावधान	3	5,113,773,812	3,215,164,396
योग		5,479,333,111	4,351,941,304
परिसंपत्तियां			
नियत परिसंपत्तियां (शुद्ध ब्लॉक)	4	3,348,920,662	2,763,080,732
उद्दिष्ट / स्थायी निधियों में निवेश	5	259,908,048	223,679,766
निवेश - अन्य	6	235,980	235,980
चालू परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम	7	1,574,791,951	1,364,944,826
अवर्णित विविध व्यय		295,476,470	-
(पूँजीगत निधि में नामे शेष)			
योग		5,479,333,111	4,351,941,304

हस्ताक्षर (आयतुल्लाह)	हस्ताक्षर (प्रो. शाहिद अशरफ)	हस्ताक्षर (प्रो. एस. एम. साजिद)
सहायक कुलसचिव (लेखा)	वित्त अधिकारी	कुलसचिव
हस्ताक्षर (जफरउल्लाह खान)	उप-वित्त अधिकारी	

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

A. आय

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	(राशि रुपयों में) विगत वर्ष
सहायता अनुदान / सव्बिडी	8	1,519,076,230	1,466,178,233
अकादमिक प्रप्तियां	9	93,811,025	99,751,259
प्रकाशन से आय	10	32,634	40,598
निवेश से आय	11	35,598	-
अर्जित ब्याज	12	36,325,696	11,102,116
अन्य आय	13	0	21,920,012
योग (A)		1,649,281,183	1,598,992,218

B. व्यय

स्थापना व्यय	14	2,989,766,159	1,517,358,378
अकादमिक व्यय	15	68,838,671	59,900,635
प्रशासनिक व्यय	16	120,342,030	93,521,336
मरम्मत एवं रख रखाव	17	73,697,333	76,801,840
विविध व्यय	18	56,151,154	50,256,656
मूल्यहास	4	144,448,732	163,049,506

योग (B)

3,453,244,079

1,960,888,351

अधिशेष के रूप में शेष/(घाटा), पूंजीगत निधि द्वारा वहन (A-B)

-1,803,962,896

-361,896,133

हस्ताक्षर
(आयतुल्लाह)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर
(जुफरउल्लाह खान)

उप-वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो. शाहिद अशरफ)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो. एस. एम. साजिद)

कुलसचिव

31-03-2011 को तुलन पत्र के अंग के रूप में गठित अनुसूचियाँ

अनुसूची -1: पूंजीगत निधि

विवरण	Current Year	Previous Year
अथ शेष	750,108,155	544,592,843
पूँजीगत व्यय हेतु व्यय की गयी अनुदान राशि को जोड़कर	468,082,864	396,133,256
	1,218,191,019	940,726,099
उपहार परिसंपत्तियों की जोड़		28,615
उद्दिष्ट/स्थायी निधियों से सृजित परिसंपत्तियाँ		2,621,703
प्रायोजित परियोजनाओं से सृजित परिसंपत्तियाँ		160,894,192
छात्रावास एवं रसोई से सृजित परिसंपत्तियाँ		-
एस एफ सी/ अन्य निधियों से सृजित परिसंपत्तियाँ		7,739,858
योग	262,532,142	1,112,010,467
वर्ष के दौरान बटटे खाते में डाली गयी परिसंपत्तियों को घटाकर	1,480,723,161	
शेष	326,344	6,179
आय एवं व्यय लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान हुए घाटे को घटाकर	(1,803,962,896)	(361,896,133)
अंत शेष	(323,566,079)	750,108,155

हस्ताक्षर

(अयातुल्लाह)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर

(जुफरउल्लाह खान)

उप-वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो. शाहिद अशरफ)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो. एस. एम. साजिद)

कुलसचिव

अनुसूची-2 : उद्दिष्ट / स्थायी निधियां

निधि अनुसार विभाजन						
विवरण	विश्वविद्यालय विकास निधि	एच बी ए निधि	एम. सी. ए. निधि	एस.आर.सी. प्रकाशन निधि	स्थायी निधियां	योग
A) अद्य शेष	238,106,022	43,778,757	2,645,086	3,500,590	98,638,298	386,668,753
B) वर्ष के दौरान जोड़ी गयी निधियां						
1) निधियों में से किए गए निवेश से आय	7,649,345	1,386,000	-	75,503	7,064,301	16,175,149
2) निधियों में से किए गए निवेश पर प्राप्त हुए आय		1,088,623	-	73,681	1,043,349	2,205,653
3) अन्य जोड़	44,788,723	4,673,510	3,780	96,025	19,011,185	68,573,223
योग	290,544,090	50,926,890	2,648,866	3,745,799	125,757,133	473,622,778
ब) निधियों के उद्देश्यों के अनुरूप उपभोग / व्यय						
1) राजस्व व्यय	773,746	1,671,901	-	206,763	3,625,026	6,277,436
2) पूंजीगत व्यय	101,768,326	-	-	-	17,717	101,786,043
योग	102,542,072	1,671,901	-	206,763	3,642,743	108,063,479
वर्ष के अंत में अंतशेष	188,002,018	49,254,989	2,648,866	3,539,036	122,114,390	365,559,299
विगत वर्ष	238,106,022	43,778,757	2,645,086	3,500,590	98,638,298	386,668,753

टिप्पणी : 1. एच. बी. ए. निधि के अंतर्गत निवेशों पर उद्भूत ब्याज के रूप में दर्शायी गयी ₹.10,88,623/- की राशि कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु दिये गए अग्रिम पर उद्भूत ब्याज आये को दर्शाती है।

2. 31.03.2011 को वसूली हेतु बकाया भवन निर्माण अग्रिम ₹.1,07,66,773/- तथा 31.03.2011 को वसूली हेतु बकाया चक्रीय अग्रिम ₹.3290 था

हस्ताक्षर
(आयुतुल्लाह)
सहायक कुलसचिव (बैक)

हस्ताक्षर
(जफरउल्लाह खान)
उप-वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो. शाहिद अशरफ)
वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो. एस.एम. साजिद)
कुलसचिव

अनुसूची 2 A

स्वाधीन निधि 31.03.2011		01.04.2010 को अग्रशेष		वर्ष 2010-11 के दौरान लेन-देन		31.03.2011 को अग्रशेष	
		निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
1	कन्द्रीय छात्रवृत्ति निधि (जमा)	-	6,684,053	538,000	192,599	-	6,338,652
2	प्रो. मोहम्मद मुजीब शोध पुरस्कार निधि (जमा)	-	7,299	-	154	-	7,453
3	ई. जे. केलेट छात्रवृत्ति निधि (जमा)	-	178,130	-	7,714	-	185,844
4	छात्रसंघ छात्रवृत्ति निधि (जमा)	-	2,262,328	-	1,038,990	-	3,301,318
5	काजी मोहम्मद अहमद मेमोरियल निधि (जमा)	-	33,671	1,000	1,876	-	34,547
6	गिर्जा मेहमूद बेग छात्रवृत्ति निधि (जमा)	-	90	-	165	-	255
7	एस. सी. शुक्ल छात्रवृत्ति निधि (जमा)	-	229,105	19,500	16,242	-	225,847
8	प्रो. दलीप स्वाधीन निधि (जमा)	-	33,194	-	1,796	-	34,990
9	विकलांग बाल निधि (नर्सरी स्कूल) (जमा)	-	57,674	-	1,463	-	59,137
10	प्रो. सुईद अंसारी मेमोरियल छात्रवृत्ति निधि (जमा)	-	120,901	-	6,923	-	127,824
11	जायिदा टीचर्स छात्रवृत्ति निधि (जमा)	-	170,147	227,000	238,558	-	181,705
12	बैरिस्टर एवं श्रीमती एन दीन एवं अहमद मेमोरियल छात्रवृत्ति निधि (जमा)	-	1,679,599	82,000	101,967	-	1,699,566
13	कुमार मोहम्मद सिंह बेदी साहित्यिक ट्रस्ट (जमा)	-	2,941	-	989	-	3,930
14	टॉपर छात्रों के लिये छात्रवृत्ति निधि (कक्षा 10वीं से 12वीं) (जमा)	-	48,880	9,500	1,469	-	40,849
15	सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों के लिये पुरस्कार निधि (जमा)	-	100,274	-	1,697	-	101,971
16	टॉपर छात्रों के लिये इस्लामी अध्ययन छात्रवृत्ति निधि (जमा)	-	251,614	-	12,365	-	263,979
17	तकत एवं मसियाखानी निधि (जमा)	-	14,578	-	771	-	15,349
18	टॉपर छात्रों के लिये छात्रवृत्ति निधि अरबी विभाग (जमा)	-	125,404	3,800	3,857	-	125,461
19	संकाय टॉपर रेंज छात्रवृत्ति निधि (जमा)	-	206,066	-	6,831	-	212,897
20	टॉपर छात्रों के लिये नवीम शैक्षिक सम्मान (जमा)	-	139,635	7,995	10,304	-	141,944
21	मोहम्मद एजाज स्टूडेंट टॉप एक्सेल अवार्ड (जमा)	-	139,635	8,000	10,304	-	141,939
22	सिद्दिक एन नदी मेमोरियल स्पोर्ट्स निधि (ए टी डब्ल्यू एस) (जमा)	-	134,303	-	7,368	-	141,671
23	म्यूनिस्पायल फील्ड मेमोरियल छात्रवृत्ति निधि (जमा)	-	99,606	-	6,595	-	106,201
24	इमरद शताब्दी महोत्सव छात्रवृत्ति निधि (जमा)	-	135,000	-	-	-	135,000
25	पुरवर्तमान विद्यालय की मुस्लिम लड़कियों के लिये नीलोपर छात्रवृत्ति निधि (जमा)	-	183,800	3,000	12,216	-	193,016
26	लुनी रिजुवान इस्लाम मेमोरियल छात्रवृत्ति निधि (जमा)	-	241,917	13,700	13,846	-	242,063
27	ए. जार सईर छात्रवृत्ति निधि (समलशास्त्र में टॉपर) (जमा)	-	115,885	7,500	7,581	-	115,966
28	प्रो. एस. जार मोहसीनी स्मृति व्याख्यान (बीज राशि) (जमा)	-	133,394	16,322	8,951	-	126,023
29	प्रो. हजियत कुमार स्मृति छात्रवृत्ति	-	110,000	7,900	7,904	-	110,004
30	विश्वविद्यालय के छात्र	-	100,000	-	-	-	100,000

हस्ताक्षर
(आयुक्त)

हस्ताक्षर
(उप-निर्देशक)

हस्ताक्षर
(प्रशासक)

हस्ताक्षर
(प्रो. एस. एम. साजिद)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

उप-निर्देशक

वित्त अधिकारी

कुलसचिव

अनुसूची 2 A

स्थायी निधियाँ 31.03.2011		01.04.2010 को अथर्वशेष		वर्ष 2010-11 के दौरान लेन-देन		31.03.2011 को अथर्वशेष	
		निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
31	अन्ना छत्रवृत्ति निधि (जमा)	-	187,000	43,910	7,000	-	150,090
32	पुरा मीडियाकर्मियों को समान / शोधवृत्ति हेतु निधि (एम.सी.आर.सी.)	-	653,043	-	-	-	653,043
33	मीडिया स्तर छत्रवृत्ति	-	12,082	-	-	-	12,082
34	बुलीका / छत्रवृत्ति (एम.सी.आर.सी.)	-	172,300	172,300	-	-	-
35	अन्ना स्थायी निधि (जमा)	-	-	-	600,000	-	600,000
36	मुमुल कसलीवाल छत्रवृत्ति निधि (जमा)	-	-	-	500,000	-	500,000
	योग (जमा)	-	14,763,548	1,161,427	2,828,495	-	16,430,616
1	जाकिर हुसैन स्थायी निधि (जरिस्ट)	-	1,631,622	-	156,371	-	1,787,993
2	दलित अध्यापन पीठ स्थायी निधि (जरिस्ट)	-	15,517,931	-	650,987	-	16,168,918
3	दलित अध्यापन पीठ (जरिस्ट)	-	9,962	683,979	715,996	-	41,979
4	संयुक्त निचलेय पीठ (कोर्स निधि)	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000
5	संयुक्त निचलेय पीठ	1,306,869	-	1,342,365	3,300,000	-	650,766
6	अतिरिक्त प्रोत्साहन हेतु कोर्स निधि (मैकिंग ग्रांट)	-	4,780,341	97,875	1,739,795	-	6,422,261
7	अतिरिक्त संसाधन मोबिलाइजेशन (अग्र)	97,875	-	-	97,875	-	0
8	एम.ए. अंसारी पीठ के लिए कोर्स निधि	-	20,000,000	-	0	-	20,000,000
9	एम.ए. अंसारी पीठ (कोर्स निधि)	-	20,000,000	-	0	-	20,000,000
10	जर्नल 'कटोचरी पर्सिफिक्टस : सोसाइटी' के लिए स्थायी निधि	-	40,994	-	12,078	-	53,072
11	अदुल गाकिर छात्रा पीठ	-	-	357,097	3,119,755	-	2,762,658
12	श्री रफी आहमद फिरोज़ पीठ	-	0	-	255,000	-	255,000
13	श्री रफी आहमद फिरोज़ पीठ - कोर्स निधि	-	0	-	15,000,000	-	15,000,000
14	एम.ए. अंसारी पीठ (आवर्ती)	-	-	-	1,497,778	-	1,497,778
	योग (जरिस्ट)	1,404,744	81,980,850	2,481,316	26,545,635	0	104,640,425
	कुल योग	1,404,744	96,744,398	3,642,743	29,374,130	0	121,071,041
	उद्भूत किर्तु अग्राम्य ब्राज को जोड़कर	-	3,298,644	3,298,644	1,043,349	-	1,043,349
	निवृत्त कुल योग	1,404,744	100,043,042	6,941,387	30,417,479	0	122,114,390
	समग्र वर्ष के लिये 50 प्रतिशत ब्याज सहित कोर्स को दर्शाया गया है						
	**पीठ हेतु व्यय के लिए प्रयुक्त शेष 50 प्रतिशत ब्याज को दर्शाया गया है।						

हस्ताक्षर

(आयुक्त)

सहायक कुलसचिव (शेखा)

हस्ताक्षर

(जुफरउल्लाह खान)

उप-विश्व अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो.एन.एम.साजिद)

विश्व अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो.एन.एम.साजिद)

कुलसचिव

अनुसूची - 3 चालू देयताएं एवं प्राक्धान

A. चालू देयताएं		चालू वर्ष	वित्त वर्ष
(i) स्टाफ द्वारा जमा			18,971,895
(ii) छात्रों द्वारा जमा			42,477,901
(iii) अन्य जमा (ई. एम. डी., सुरक्षा जमा)			
(iv) वैधानिक देयताएं (GPF, TDS, WC TAX, CPF, GIS, NPS)			
(v) अन्य चालू देयताएं			
क) वेतन	97,594,965		144,130,847
ख) प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत प्राप्तियां (युद्ध व्यय)	211,333,042		253,991,486
ग) प्रायोजित शोधवृत्तियों एवं छात्रवृत्तियों के अंतर्गत प्राप्तियां	23,547,284		12,516,460
घ) अनप्राप्त अनुदान	664,051,265		402,344,915
ङ) अग्रिम अनुदान	99,731,000		77,577,000
च) अन्य निधियां	231,390,902		189,271,582
छ) अन्य देयताएं	25,438,616		24,974,551
योग (A)		1,424,352,966	1,166,256,637
B. प्राक्धान			
1 अधिवर्तिता पेंशन	2,879,713,509		1,543,381,000
2 प्रेच्युटी	499,633,909		269,998,000
3 छुट्टियों का नकदीकरण	310,073,428		235,528,759
4 अन्य	-		-
योग (B)		3,689,420,846	2,048,907,759
योग (A+B)		5,113,773,812	3,215,164,396

हस्ताक्षर

(आयुक्त)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर

(जफउल्लाह खान)

उप-वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो. शाहिद अशरफ)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो. एस. एम. साजिद)

कुलसचिव

अनुसूची - 3 (V) (b) ग्राम प्रायोजित प्रयोजनाओं से प्राप्तियां - चालू देयताएं - अन्य देयताएं

लेखा मद	01.04.2010 को अथ शेष		वर्ष 2010-11 के दौरान लेन-देन		31.03.2011 को अंतशेष	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
प्रायोजित परियोजनाएं						
वित्तिय सहायता : परिशिष्ट (i)						
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	6,423,663	14,327,708	31,826,223	35,610,428	7,274,678	18,962,928
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	8,946,102	4,271,437	12,874,331	7,164,346	13,114,059	2,729,409
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डी एस टी)	786,289	16,738,092	18,370,994	22,279,373	771,074	20,631,256
कल्याण मंत्रालय	-	-	-	-	-	-
आई सी एस एस आर	82,598	568,022	1,026,767	1,353,015	71,779	883,451
आई सी एच आर	73,563	7,105	-	5,000	68,563	7,105
आई सी सी आर	-	38,917	-	-	-	38,917
सी एस आई आर	1,710	886,556	1,131,940	2,285,946	1,710	2,040,562
विविध स्रोत	2,964,017	214,344,807	168,164,208	118,491,881	1,573,551	163,282,014
योग	19,277,942	251,182,644	233,394,463	187,189,989	22,875,414	208,575,642
हस्ताक्षर (आयुक्तल्लाह) सहायक कुलसचिव (लेखा)	हस्ताक्षर (जफरउल्लाह खान) उप-वित्त अधिकारी	हस्ताक्षर (प्रो. शाहिद अमरफ) वित्त अधिकारी	हस्ताक्षर (प्रो. एस. एम. साजिद) कुलसचिव			

जाल प्रयोजित प्रयोजनाओं से प्राप्ति - जाल देयताएं - अन्य देयताएं

लेखा मद	01.04.2010 को अथवा वर्ष 2010-11 के दौरान लेने-देने	31.03.2011 को अंतर्भाव
	वर्ष 2010-11 के दौरान लेने-देने	31.03.2011 को अंतर्भाव
1	2	3
सिखित इंजीनियरी के क्षेत्र में नवीन दुर्नैतिकता विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	1,970	1,970
खगोलशास्त्र एवं खगोल भौतिकी पर परिसंवाद	8,800	8,800
वर्ष जल संरक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	1,400	1,400
'डार्ज प्रबंधन में नवीन परिपट्टियाँ' विषय पर सम्मेलन (विद्युत इंजीनियरी विभाग)	11,669	11,669
दूरग अंतर्राष्ट्रीय कैलीब-2004, डॉ. जॉर्जि हर्सेन पुस्तकालय	25,000	25,000
रेनैक्सी : साइबेरियाई एक्स्पेडिशन ऑन बैरियस माइक्रो ओर्गेनिज्म	-	-
तीसरा ग्लोबल सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	-	-
थॉमसन प्रेस : स्मृतिटी वेसलाइन	-	-
यशराज बायोटेक मुंबई के सहयोग से शोध परियोजना	1,938	1,938
"सॉफ्ट कम्प्यूटिंग, मरीन लॉगिंग एंड बायोइन्फोमेटिक्स एप्लीकेशंस" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला, प्रो.एस. आई. एरसान	-	-
"उ.प्र. में ग्रामीण सड़कों के सामाजिक आर्थिक प्रभाव के मूल्यांकन का अध्ययन (सफिया महदी-ए टी डब्ल्यू एस)	374,450	374,450
हारी इसन स्मृति व्याख्यान	-	-
राष्ट्रीय संगोष्ठी-"इंफार्मिंग इरयूज़ इन इंटरनेशनल बिजनेस", वाणिज्य विभाग	-	-
ए एम खोजा मेमोरियल फाउंडेशन अलीगढ़ : जवाहरलाल नेहरू अध्ययन केंद्र में व्याख्यान हेतु सहायता	100,840	100,840
प्रतिशील लेखक सम्मेलन : विचारधारा एवं सामाजिक आधार ; जवाहरलाल नेहरू अध्ययन केंद्र	-	-
नोड एक्सटेंस सर्वे इफेक्ट असिस्टेंस सर्वे.....पुरीदाबाद जी पी एस - ए एस कोहली	7,747	7,747
सतत विकास पर कार्यशाला	2,000	2,000
ए टी डब्ल्यू एस में संगोष्ठी	-	-
कंचूर अनुप्रयोग एवं डीटीपी केंद्र के लिये कॉर्पस निधि	187,529	187,529
(आयुतुल्लाह)	13,886	13,886
कुशा समुदाय : सामाजिक-राजनीतिक स्थिति का अध्ययन एवं सर्वेक्षण	38,175	38,175
डिजिटल इक्वालिटी केंद्र के उद्घाटन हेतु दान (कंचूर विज्ञान विभाग)	150,000	150,000
'इस्लामी कला एवं वास्तुविद्या पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आई सी आई ए ए), वास्तुविद्या विभाग	40,680	40,680

हस्ताक्षर
(आयुतुल्लाह)

हस्ताक्षर
(जफरउल्लाह खान)

हस्ताक्षर
(प्रो.एस.एम.साजिद)

हस्ताक्षर
(प्रो.एस.एम.साजिद)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

उप-वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

कुलसचिव

लेखा मद	01.04.2010 को अवशेष		वर्ष 2010-11 के दौरान लेने-देने		31.03.2011 को अवशेष	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
1	2	3	4	5	6	7
संगोष्ठी-“एलबल कनवेंस ऑफ फाइनेंसियल रिपोर्टिंग समाज पर शिक्षा के सामाजिक प्रभाव के अध्ययन पर कलागीधर ट्रस्ट स्कूल द्वारा परियोजना जीव विज्ञान के क्षेत्र में नवीन शोध प्रवृत्तियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन - सी आई आर बी एस सी एन सी पी एस(राष्ट्रीय) का सामाजिक आर्थिक अध्ययन, प्रो.ए एस कोहिली(एन टी पी सी) केंद्र प्रशिक्षण, अभियांत्रिकी इंजीनियरी ईको क्लब	1,386	-	-	-	1,386	-
बाइय एजेंसी	-	19,333	-	-	-	19,333
सजीवा / छात्रवृत्ति	-	40,279	483,512	474,562	-	31,329
फिल्म अध्ययन में अल्पवधि कार्यक्रम	-	54,466	79,466	25,000	-	-
करमीर विश्वविद्यालय के मीडिया केंद्र का कार्यशाला	-	69,400	-	-	-	69,400
सिक्किम परियोजना	10,000	-	-	10,000	-	-
सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में लोक माध्यम	-	1,009,224	348,406	194,000	-	854,818
प्रशिक्षण यात्रिका (आर एल ई के)	-	119,297	-	-	-	119,297
प्रिया	-	21,983	-	-	-	21,983
इ एम आर सी पर कार्यशाला	-	2,780	-	-	-	2,780
युनेस्को परियोजना	-	11,847	-	-	-	11,847
सी ई सी	-	2,600	-	-	-	2,600
कार्यशाला / संगोष्ठी	-	20,000	-	-	-	20,000
32वीं भारतीय समाज विज्ञान कांग्रेस	-	29,000	-	-	-	29,000
साइकल रैली	-	7,500	-	-	-	7,500
रिमोट सेंसिंग जी आई एस एल जी पी एस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, पुणे विज्ञान	-	85,471	-	-	-	85,471
28.02.2011 को करमीर उत्सव, परमशंखला, जम्मू एण्ड करमीर विभाग	-	-	-	-	-	-
योग	722,816	2,808,842	1,277,084	1,947,072	1,386	2,757,400
कुल योग	20,000,758	253,991,486	234,671,547	189,137,061	22,876,800	211,333,042

हस्ताक्षर (आयुक्तलाह) सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर (प्रो. शाहिद अमरक) वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर (जुफउल्लाह खान) उप-वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर (प्रो. एस.एम.साजिद) कुलसचिव

अनुसूची-3 (V)(C)

छात्र देयताएं-अन्य देयताएं-प्राप्तियां
छात्र प्रायोजित छात्रवृत्तियों एवं शोधवृत्तियों के अंतर्गत

संलग्नक (ii) के अनुसार

लेखा मद	01.04.2010 का अथशेष	वर्ष 2010-11 के दौरान लेन-देन	31.03.2011 को अंतशेष
	निकासी	जमा	निकासी
प्रयोजित छात्रवृत्तियां एवं शोधवृत्तियां			
वित्तिय सहायता			
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	375,000	10,284,816	35,021,890
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय(डी एस टी)	-	-	494,650
आई सी एस एस आर	7,663	65,417	493,929
आई सी एच आर	-	59,548	51,395
आई सी सी आर	-	-	3,870
सी एस आई आर	-	627,130	5,261,220
विविध स्रोत	224,970	1,479,549	6,510,560
(आयतुल्लाह)	607,633	12,516,460	47,837,514
		49,032,516	10,443,455
			23,547,284

हस्ताक्षर
(आयतुल्लाह)
सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर
(जफरउल्लाह खान)
उप-वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो. शाहिद अशरफ)
वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो. एस. एम. साजिद)
कुलसचिव

अनुसूची-3 (V)(d) आयुक्त सूचीसी अनुदान, भारत सरकार

		TOTAL
B. सूचीसी अनुदान : गैर-स्थान		
शेष B/F		299,665,335
वर्ष के दौरान प्राप्ति को जोड़कर		1,351,350,000
योग		1,651,015,335
पूर्वगत व्यय हेतु प्रयुक्त राशि को घटाकर		153,447,054
शेष		1,497,568,281
राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त राशि को घटाकर		1,457,895,866
अधिशेष (घाटा)		39,672,415
आंतरिक प्राप्ति		149,208,030
शेष C/F		• 188,878,445
C. यू. जी. सी अनुदान : स्थान		
शेष B/F		64,149,843
वर्ष के दौरान प्राप्ति को जोड़कर		758,500,000
योग		822,649,843
पूर्वगत व्यय हेतु प्रयुक्त राशि को घटाकर		234,916,765
शेष		587,733,078
राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त राशि को घटाकर		192,288,135
शेष		395,444,943
वर्ष के दौरान अन्य प्राप्ति को जोड़कर		4,119,656
शेष C/F		399,564,599
C. यू. जी. सी अनुदान : अन्य		
शेष B/F		38,529,737
वर्ष के दौरान प्राप्ति को जोड़कर		132,600,017
योग		171,129,754
पूर्वगत व्यय हेतु प्रयुक्त राशि को घटाकर		79,719,045
शेष		91,410,709
राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त राशि को घटाकर		18,098,259
शेष		73,312,450
वर्ष के दौरान प्राप्ति को जोड़कर		2,295,771
शेष C/F		75,608,221
कुलयोग शेष C/F		664,051,266

● रु.186,100,343 के विशेष अनुदान व्ययुक्त अनुदान

हस्ताक्षर (आयुक्त)	हस्ताक्षर (कमल्लाल खान) उप वित्त अधिकारी	हस्ताक्षर (प्रो. राहिल अख्तर) वित्त अधिकारी	हस्ताक्षर (प्रो. एस. एम. सादिक) कुलसचिव
-----------------------	--	---	---

सहायक कुलसचिव (लेखा)

यूजीसी ईएमएफ (2010-11) अन्य अनुदान

क्र.सं.	लेखा मद	अथ शेष		प्राप्तियाँ	कुल व्यय	पूँजी व्यय	राजस्व व्यय	अंत शेष	
		निकासी	जमा					निकासी	जमा
1	अनंत के इन्फोटेक कार्यक्रम की स्थापना, 10वाँ प्लान	128,999	-	-	-	-	-	128,999	-
2	डॉ. जाकिर हुसैन अध्ययन केंद्र	-	172,757	375,000	-	-	-	-	547,757
3	नव गंधीवादी अध्ययन केंद्र	-	432,560	75,000	-	-	-	-	507,560
4	परिवाम परियोजना अध्ययन केंद्र (वेलन एवं भाले)	79,587	-	-	-	-	-	79,587	-
5	पाकिस्तान अध्ययन केंद्र में क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम एवं टी डब्ल्यू एस	-	948,110	-	206,150	22,355	183,795	-	741,960
6	मानविकी एवं समाज विज्ञान के लिये आधारभूत संवा सुदृढ करने के लिए सहायता	626,653	-	-	221,666	221,666	-	848,319	-
7	उर्दू शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु अकादमी	-	703,581	-	15,442,612	12,766,801	267,581	8,406,794	-
8	नया स्कूल भवन	3,280,387	-	-	-	-	-	3,280,387	-
9	नये केन्द्रीय पुस्तकालय भवन का निर्माण (44.28 का विशेष सहायता अनुदान)	-	8,049,379	-	-	-	-	-	8,049,379
10	विशेष सहायता कार्यक्रम (डीआरएस) रसायन विज्ञान (प्रथम चरण)	-	7,582	179,647	208,726	22,660	186,066	21,497	-
11	अल्पसंख्यक एवं अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए आवासीय कॉचिंग अकेडमी	-	-	75,137,123	11,647,610	10,774,575	876,035	-	63,489,513
12	विशेष सहायता कार्यक्रम (डीआरएस) अंग्रेजी एवं आधुनिक यूरोपिय भाषाएँ (तृतीय चरण)	-	240,414	792,176	581,335	182,415	398,920	-	451,255
13	विशेष सहायता कार्यक्रम (डीआरएस) मौक्तिकी (तृतीय चरण)	-	809,783	170,780	876,211	704,511	171,700	-	104,352
14	विशेष सहायता कार्यक्रम (डीआरएस) अर्थशास्त्र	-	19,426	300,561	290,010	49,955	240,055	-	29,977
15	विशेष सहायता कार्यक्रम (डीआरएस) शैक्षिक अध्ययन	196,337	-	391,914	318,385	90,893	227,492	122,808	-

हस्ताक्षर
(आयुक्त/लाह)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर
(अध्यक्ष/लाह)

उप वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो. शाहिद अशरफ)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो. एस. एम. साजिद)

कुलसचिव

क्र.सं.	लेखा मद	अथ शेष		प्राप्तियाँ	कुल व्यय	पूँजी व्यय	राजस्व व्यय	अंत शेष	
		निकासी	जमा					निकासी	जमा
16	विशेष सहायता कार्यक्रम (डीआरएस) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी	-	353,796	304,942	119,253	18,571	100,682	-	539,485
17	विशेष सहायता कार्यक्रम (डीआरएस) इतिहास एवं संस्कृति विभाग (द्वितीय चरण)	-	212,759	684,092	839,473	295,172	544,301	-	57,378
18	विशेष सहायता कार्यक्रम (डीआरएस) ठरुई विभाग (प्रथम चरण)	-	50,249	-	50,249	-	50,249	-	-
19	कम्प्यूटर केंद्र का नवीकरण	498,705	-	-	-	-	-	498,705	-
20	250 छात्रों के लिये नये बालक छात्रावास का निर्माण	18,026,033	-	-	-	-	-	18,026,033	-
21	कला केंद्र का निर्माण	2,757,449	-	-	-	-	-	2,757,449	-
22	प्रबंधन अध्ययन केंद्र में दो अतिरिक्त तलों का निर्माण	6,949,646	-	-	-	-	-	6,949,646	-
23	असारी स्वास्थ्य केंद्र में प्रथम तल का निर्माण	-	633,284	-	-	-	-	-	633,284
24	ऑडिटोरियम पर 6 व्याख्यान हॉलों का निर्माण	-	26,780	-	-	-	-	-	26,780
25	शिक्षक संप खंड का निर्माण	5,236,081	-	-	-	-	-	5,236,081	-
26	(भौतिकी विभाग) विज्ञान, कृषि विज्ञान के अंतर्गत विज्ञानी पानी उपकरण आपूर्ति के रूप में आधारभूत	-	161,355	-	-	-	-	-	161,355
27		-	276,772	-	276,772	276,772	-	-	-
28		-	-	32,774,000	33,420,296	33,420,296	-	646,296	-

हस्ताक्षर
(प्रो.एस.एम.साजिद)
कुलसचिव

हस्ताक्षर
(प्रो.शाकिर अहमद)
वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(जफरउल्लाह)
उप वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(आयदुल्लाह)
सहायक कुलसचिव (लेखा)

क्र.सं.	लेखा मद	अध शेष		प्राप्तियाँ	कुल व्यय	पूजी व्यय	राजस्व व्यय	अंत शेष	
		निकासी	जमा					निकासी	जमा
29	मध्य एशियाई अध्ययन केंद्र के अंतर्गत क्षेत्र	-	311,639	-	110,715	-	110,715	-	200,924
30	भारत अरब संस्कृति केंद्र	178,161	-	20,000,000	6,447,333	2,527,850	3,919,483	-	13,374,506
31	केरियर कोडित कार्यक्रम एकमुस्त धनराशि	-	-	-	-	-	-	-	-
32	नेहरू हाउस के लिए मॉड्यूलर किचन का निर्माण	607,852	-	-	-	-	-	607,852	-
33	लेखन मंडेला संघर्ष एवं शांति स्थापना केंद्र का विस्तार	-	3,096,583	-	-	-	-	-	3,096,583
34	वयस्क एवं सतत शिक्षा एवं विस्तार कार्यक्रम	-	1,705,182	-	785,146	428,748	356,398	-	920,036
35	सरोजिनी नायडू स्त्री अध्ययन केंद्र के लिये 10वां	336,827	-	1,062,157	1,089,239	53,281	1,035,958	363,909	-
36	एकैडमिक स्टाफ कॉलेज के गैस्ट हाउस का निर्माण	-	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000
37		-	-	-	-	-	-	-	-
38	विजिटिंग प्रोफेसर	-	2,800,000	-	1,068,681	527,366	541,315	-	1,731,319
39	(कम्प्यूटर विज्ञान) विज्ञान, जलआपूर्ति विज्ञान, कृषि विज्ञान के अंतर्गत	-	-	2,000,000	1,418,015	-	1,418,015	-	581,985
40	डी आर एस- [सिविल इंजीनियरिंग विभाग (प्रो. खालिद मोईन)]	-	28,875	-	-	-	-	-	28,875
41	सैप (डीआरएस) उर्दू द्वितीय चरण	-	1,605,755	1,421,245	2,989,663	2,549,692	439,971	-	37,337
42	कौमनवेथ खेल 2010 सिधमंडली/ अतिथियों के लिये नवीनय	-	777,540	455,934	781,829	295,879	485,950	-	451,645
		-	16,315,315	-	16,979,483	10,338,969	6,640,514	664,168	-

हस्ताक्षर

(आयुक्त/लाह)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर

(जफरउल्लाह)

उप वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो. शाहिद अयरफ)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो. एस. एम. सजिद)

कुलसचिव

तुलन-पत्र का सार

अनप्रयुक्त अनुदान		योग
यू जी सी गैर-प्लान	जमा	• 188,878,445
यू जी सी प्लान	जमा	399,564,599
यू जी सी अन्य	जमा	75,608,221
	योग	664,051,265
प्राप्य अनुदान		
यू जी सी गैर-प्लान	निकास	-
यू जी सी प्लान	निकास	-
यू जी सी अन्य	निकास	-
यू जी सी न दी गई राशि	निकास	-
	योग	-

• रु.186,100,343 की बकाया एकमुश्त विशेष अनुदान राशि सहित

हस्ताक्षर (आयतुल्लाह)	हस्ताक्षर (जुफरउल्लाह खान)	हस्ताक्षर (प्रो.शाहिद अशरफ)	हस्ताक्षर (प्रो.एस.एम.साजिद)
सहायक कुलसचिव (लेखा)	उपविक्त अधिकारी	वित्तअधिकारी	कुलसचिव

अनुसूची : 3 (X d)

अन्य निधियाँ		01.04.2010 को अवशेष		वर्ष 2010-11 के दौरान लेखते		31.03.2011 को अवशेष	
	खारा	विकासी	जमा	विकासी	जमा	विकासी	जमा
A							
1	कुलपति राहत कोष	जमा		262,354	13,846	-	276,200
2	मकानवा जामिया निधि	जमा	-	5,000	-	-	5,000
B	कर्मचारी, छात्र संबंधी निधियाँ	जमा					
1	जामिया कर्मचारी राहत कोष	जमा	-	343,750	615,000	509,231	237,981
2	प्रशासनिक स्टाफ आरक्षित निधि	जमा	-	29,700	831	-	30,531
3	प्रशासनिक स्टाफ संघ	जमा	-	119,721	180,250	66,995	6,466
4	एस अर के संघ	जमा	-	88,514	1,789	33,285	119,990
5	विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	जमा	-	76,665	205,000	254,195	125,860
6	स्कूल शिक्षक संघ	जमा	-	59,622	48,000	52,090	63,712
7	शैक्षिक स्टाफ क्लब	जमा	-	6,605	-	-	6,605
8	विश्वविद्यालय छात्र संघ	जमा	-	527,674	925,087	491,100	93,667
9	सीनियर सेकेंडरी स्कूल छात्रसंघ	जमा	-	194,432	-	-	194,432
10	सबसेक्रेट एरिडियरन (छात्रों के लिये)	जमा	-	5,745,556	1,287,350	1,985,896	6,444,102
11	शैक्षणिक गतिविधियाँ	जमा	-	40,050	16,490	4,720	28,280
12	पुस्तकालय क्लब-सीनियर सेकेंडरी स्कूल	जमा	-	9,116	-	-	9,116
13	छात्र क्लब	जमा	-	13,262	-	-	13,262
14	छात्र क्लब	जमा	-	78,800	-	-	78,800
15	विद्यालय क्लब (मिडिल स्कूल एवं सीनियर सेकेंडरी स्कूल)	जमा	-	224,965	68,885	96,730	252,810
16	नेहरू ग्राम (विश्वविद्यालय अतिथि गृह)	जमा	-	4,516,050	1,911,027	2,958,780	5,563,803
17	जामिया आधुनिक केंद्र	जमा	-	3,780,104	934,097	2,982,800	5,828,807
18	एस एस हूडिन आर्ट गैलरी (बुकिंग/किराना प्रचार)	जमा	-	30,000	-	-	30,000
19	सम्मेलन भवन / पुस्तकालय-एफटीके-सीआई टी किराना प्रचार	जमा	-	52,500	23,580	87,000	115,920
20	भारत अरब संस्कृति केंद्र के सम्मेलन कक्ष का किराना	जमा	-	-	-	6,000	6,000
21	सांस्कृतिक गतिविधियाँ	जमा	-	5,754,871	454,181	2,052,310	7,353,000
22	विश्वविद्यालय पत्रिका निधि (छात्र)	जमा	-	2,953,754	34,410	633,000	3,552,344
23	राज सहायता निधि	जमा	-	1,412,808	142,450	1,698,955	2,969,313
24	जामिया सीपना दिलस समारोह (छात्र)	जमा	-	2,909,696	214,526	1,454,050	4,149,220
25	शिक्षक महाविद्यालय पत्रिका निधि	जमा	-	92,447	65,100	27,250	54,597
26	इंजीनियरी संकाय पत्रिका निधि	जमा	-	1,101,550	125,000	134,950	1,111,500
27	कैडेट्स जमा	जमा	-	5,493,313	1,685,544	637,850	4,445,619
28	सीनियर सेकेंडरी स्कूल पत्रिका निधि	जमा	-	367,267	1,080	57,200	423,387
29	मिडिल स्कूल पत्रिका निधि	जमा	29,584	-	-	30,000	416
30	मिडिल स्कूल अस्पताल - सीनियर सेकेंडरी स्कूल	जमा	-	425,033	-	247,500	672,533
31	मिडिल स्कूल अस्पताल - मिडिल स्कूल	जमा	-	132,731	-	33,000	165,731
32	गतिविधि जमा निधि	जमा	-	1,808,102	1,205,280	625,520	1,228,342

हस्ताक्षर (आयुक्त/प्रमुख) हस्ताक्षर (अध्यक्ष/प्रमुख) हस्ताक्षर (अध्यक्ष/प्रमुख)

सहायक कुलपति (सहायक) उप-कुलपति (सहायक) उप-कुलपति (सहायक)

हस्ताक्षर (अध्यक्ष/प्रमुख) हस्ताक्षर (अध्यक्ष/प्रमुख) हस्ताक्षर (अध्यक्ष/प्रमुख)

हस्ताक्षर (अध्यक्ष/प्रमुख) हस्ताक्षर (अध्यक्ष/प्रमुख) हस्ताक्षर (अध्यक्ष/प्रमुख)

अन्य निधियाँ		01.04.2010 को अवशेष		वर्ष 2010-11 के दौरान लेनदेन		31.03.2011 को अवशेष	
क्र.सं.	विवरण	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
33	मेडियाई सुधार (स्वायत्त योदान)	-	117,192	-	12,134	-	129,326
34	बी. एम. सी. बाल सहायता निधि	-	93,862	-	5,250	-	99,112
35	डा. चैत एच. वक्कर जमा	-	2,400	-	-	-	2,400
36	कामकाजी महिला छात्रावास	-	1,066,241	1,490,107	1,270,310	-	846,444
37	ग्रोह एवं सतत शिक्षा	-	89,471	-	34,400	-	123,871
38	प्रायोगिक एवं सत्रीय कार्य (पंजित कला)	-	274,992	66,665	205,000	-	413,327
39	शिल्प प्रसार (समाज कार्य)	-	4,600	-	-	-	4,600
40	सत्रीय ट्रेड (सीनियर सेकेंडरी स्कूल)	23,946	-	4,350	198,900	-	170,804
41	फौलडरक शूलक (समाजकार्य) खोसमेट	-	124,383	153,727	133,300	-	103,956
42	गृह परीक्षा शूलक (मिडिल स्कूल)	148,586	-	127,776	196,100	80,262	-
43	पर्यावरण प्रबंधन हेतु रिवाटे सौरिंग पर कार्यशाला	-	1,741	55,880	76,000	-	21,861
44	विभागीय समारोह (छात्र)	-	290,332	-	-	-	290,332
45	ज्यावहारिक प्रशिक्षण (निधि संकाय) (छात्र)	-	916,979	110,014	365,651	-	1,172,616
46	प्रयोगशाला प्रत्यक्ष विकास निधि, वार्षिक	-	456,386	-	-	-	456,386
47	एकैडमिक स्टाफ कोरैज विकास निधि	-	1,016,657	-	485,375	-	1,502,032
48	संगोष्ठी एवं पर्यटनसमिती (एल एल एम)	-	323,400	-	-	-	323,400
49	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र बी एम सी	-	114,322	-	15,000	-	129,322
50	क्रियाकलाप सामग्री एवं पत्रिका निधि	-	267,088	90,404	192,150	-	368,834
51	जाणिमा में स्काउट प्रयोगशाला - मिनी ऑफिस	-	8,101	266,596	436,000	-	177,505
52	एन एस एस कार्यक्रम हेतु शूलक (छात्र)	-	271,479	189,490	265,060	-	347,049
53	मुक्तसमा सामग्री शूलक (निधि संकाय)	-	1,628,274	55,389	231,700	-	1,804,585
54	परम्परा शूलक एवं संकाय छात्र (इंजीनियरिंग संकाय)	-	314,306	21,300	-	-	293,006
55	प्रबंधन अध्ययन केन्द्र : (एम बी ए पूर्वकार्यक्रम) कार्यक्रम	-	6,809,806	2,960,180	589,700	-	4,439,326
56	अंग्रेजी सुधार प्रत्यक्ष (मरत्त) अंग्रेजी विभाग	-	11,044	-	-	-	11,044
57	अभिव्यक्ति इंजीनियरी संस्थान (परीक्षा)	-	750	335,050	250,000	84,300	-
58	सामान्य ज्ञान हेतु वास्तुविद्या (इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संकाय)	-	89,090	303,546	293,500	-	79,044
59	मौलिकक शूलक (बी बी एस) वाणिज्य विभाग	-	113,500	-	17,000	-	130,500
60	विभागीय पुस्तकालय शूलक	-	292,200	3,000	67,000	-	356,200
61	प्रयोगशाला विकास निधि	-	1,206,342	-	-	-	1,206,342
62	प्रयोगशाला विकास शूलक	-	264,000	3,000	68,000	-	329,000
63	धर्म एवं सम्प्रदाय गुणनायक अध्ययन केन्द्र	-	8,960	-	-	-	8,960
64	प्रायोगिक एवं सत्रीय कार्य (बीबीएस) वाणिज्य विभाग	-	385,380	-	61,000	-	446,380
65	प्रायोगिक एवं सत्रीय कार्य (समाजकार्य विभाग)	-	596,644	-	1,500	-	598,144
66	संकाय पत्रिका (वास्तुविद्या संकाय)	-	42,550	-	15,450	-	58,000
67	कम्प्यूटर विज्ञान सीपना (वास्तुविद्या संकाय)	-	337,000	-	110,000	-	447,000
68	विभागीय पुस्तकालय/संगोष्ठी निधि (वास्तुविद्या संकाय)	-	38,965	-	-	-	38,965
69	विभागीय विकास निधि (अंतराध्यासमयी शोध केन्द्र)	-	2,122,963	378,000	444,000	-	2,188,963
70	प्रयोगशाला विकास निधि (वास्तुविद्या संकाय)	-	67,000	-	-	-	67,000

हस्ताक्षर
(श्री. एस. एम. साजिद)
कुलसचिव

हस्ताक्षर
(श्री. शाहिद अयाज़क)
वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(जफरुल्लाह खान)
उप-वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(आबुल्लाह)
सहायक कुलसचिव (लेखा)

अन्य विधियाँ		01.04.2010 को अग्रसेव		वर्ष 2010-11 के दौरान लेनदेन		31.03.2011 को अंतःसेव	
	खाला	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
71	विभागीय विकास निधि (ए टी डब्ल्यू एस)		11,400		4,400		15,800
72	जमा सौदा						98,804
73	लघु शैक्षिक प्रमाण (इंजीनियरिंग संकाय)	68,696		791,000	958,500		1,871,698
74	वालीमी सेर प्रमाण जमा (स्कूल)		1,797,998	288,500	342,200		40,835
75	गुरु कार्य डायरी (छात्र)		2,995	156,460	194,300		348,262
76	परामर्श प्रमाण (इंजीनियरिंग संकाय)		332,487	70,525	86,300		6,897,159
77	बच्चों की बुद्धिमत्ता		2,094,829	4,283,044	9,085,374		60,515
78	केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय-प्रशिक्षण को वरीणा(आकिर हुसैन पुस्तकालय)		5,274	26,559	81,800		3,525
79	उर्दू अकादमी (समसौली मुगावर)		3,525				16,000
80	कम्प्यूटर प्रयोगशाला सुविधा (निधि)		16,000				922,192
81	स्वयं विकास कार्यक्रम		921,192		1,000		11,746,271
82	अंतराष्ट्रीय पब्लिश निधि सत्यता : स्वयंस्तपोविता स्कूल		9,593,476	37,503	2,190,298		
83	एनार्थीय : ट्रांजी क्रिकेट (एम) टूर्नामेंट						
84	शिक्षा अनु		602,984				602,984
85	पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन शुल्क						
86	राज्यक पाठ्यक्रमों हेतु पुस्तिका का मॉडल पाठ्यक्रम (कम्प्यूटर)		655,745	426,642	1,409,090		1,638,193
87	अनिवार्य भाषाओं से शुल्क		14,828		75,000		89,828
88	अनुवाद शाला पाठ्यक्रम हेतु डिजिटल शुल्क			24,319,836	54,750		134,400
89	एक दिवसीय स्कूल - सीनियर सेकेंडरी स्कूल		134,337	54,887	23,850		160,261
90	विश्वविद्यालय परामर्श एवं मार्गदर्शन केंद्र		139,907	3,496	685,050		1,812,656
91	प्रयोगशाला सामग्री (एनएन-सी समीक्षा,बायोटेक एवं बायोमैकेटिक्स, अंतरलयावली)		1,333,617	206,011			737,600
92	विश्वविद्यालय खेल निधि		737,600				14,350
93	सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेल निधि		959,218	3,166,868	2,221,800		667,269
94	मिडिल स्कूल खेल निधि		576,512	142,711	233,468		643,042
95	प्रशासनिक एवं सहायकी स्टाफ को पारंपरिक (कुलसचिव कार्यालय)		525,172	32,130	150,000		806,310
96	प्रशासनिक एवं सहायकी स्टाफ को पारंपरिक (कुलसचिव कार्यालय)		371,793	211,760	646,277		473,682
97	प्रशासनिक एवं सहायकी स्टाफ को पारंपरिक (परिष्कार)		126,496	350,850	698,036		1,277,727
98	मालीमी सेवा		683,451	52,000	646,276		2,364
99	संकाय पत्रिका (निधि)	15,359			17,723		83,200
100	प्लेसमेंट शुल्क		44,700		38,500		3,439,657
101	प्रशिक्षण प्लेसमेंट एवं प्रमाण सामग्री (परिष्कार एवं विकास केंद्र)		3,035,523	96,600	500,734		484,634
102	राष्ट्रीय समेकन 'विद्यार्थी'कल एवं दृष्टिकरण अस्पेक्ट ऑफ अर्थव्यवस्था इंजीनियरी			1,987,179	2,471,813		
103	लाभकारी समेकन 2007						
104	सी आई टी अकादमिक गतिविधियाँ		143,672				143,672
105	राजा के पवन निर्माण हेतु सटरी विज्ञान सहायता		164,015		500		164,515
106	रिजर्व फंड प्रायोजन निमित्त दान	450,139			10,000,000		10,000,000
				32,625	482,764		

हस्ताक्षर
(प्रो. एस. एम. साकिर)
कुलसचिव

हस्ताक्षर
(प्रो. शाहिद अकरके)
वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(अनुपमलता खन्ना)
उप-वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(आशुतोष)
सहायक कुलसचिव (सेवा)

अन्य निधियां		01.04.2010 को अवशेष		वर्ष 2010-11 के दौरान लेनदेन		31.03.2011 को अवशेष	
क्र.सं.	विवरण	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
107	एस आर के छात्रावास में सीविड निर्माण हेतु सीविड से प्राप्त धन	-	483,000	-	-	-	483,000
108	भारत-अरब संस्कृति केन्द्र में पुस्तकालय निर्माण हेतु कुल्लैत दूधवांस से प्राप्त धन	-	-	11,400	1,330,332	-	1,318,932
109	प्रयोग सामग्री प्रसार (एस सी आर सी)	-	2,524,963	129,348	2,010,550	-	4,406,165
110	प्रशिक्षण एवं उत्पादन प्रसार (एस सी आर सी)	-	1,058,798	969,261	861,350	-	950,887
111	बसुली (एस सी आर सी)	-	108,664	-	122,981	-	231,645
112	सेमेस्टर प्रसार एस फिल (जवाहरलाल नेहरू केन्द्र)	-	5,000	-	-	-	5,000
113	शरीर विज्ञान में स्नातक (शरीर विज्ञान एवं पुर्नवास केन्द्र)	-	671,040	869,623	323,000	-	124,417
114	विभागीय विकास निधि (सहित कला संग्रहालय)	-	223,350	-	123,000	-	346,350
115	सीरिड वर्क शुल्क (संस्कृति एवं सीरिड प्रशासन केन्द्र)	-	26,400	-	14,400	-	40,800
116	विभागीय विकास निधि सीरिड एवं सांख्यिकी अभियान केन्द्र)	-	144,400	-	70,400	-	214,800
117	वार्षिक समारोह सीरिड स्कूल	-	19,607	-	-	-	19,607
118	वार्षिक समारोह सीरिड स्कूल	48,325	-	-	-	48,325	-
119	भारत अरब संस्कृति केन्द्र के लिए सखी अरब से धन	-	-	1,387,275	1,324,500	62,775	-
120	इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलिजियस ऑफ पार्लिसी	-	-	479,191	487,000	-	7,809
C	अन्य	-	-	-	-	-	-
1	स्वतंत्रता पौष्टिक कार्यक्रम	-	71,967,535	108,873,302	122,881,935	-	85,976,168
2	जामिया रैडियो शुल्क	-	-	220,200	220,200	-	-
3	डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल जमा	-	25,000	25,000	-	-	-
4	नयी योजना स्कीम	-	10,924,516	44,624,038	33,699,522	-	-
5	कैदवा राय चौधरी व्याख्यान पुस्तकालय एवं यात्रा सहयोग हेतु आई ए बी आर जी का योगदान	-	11,380	-	-	-	11,380
6	सी आई टी रिप्लेक्सन	-	1,030	-	-	-	1,030
7	ए एस सी - आधारभूत डॉका विकास निधि	-	801,289	243,315	307,000	-	864,974
8	अफ्रीका के सक्रिय प्रकाशों हेतु लघु पाठ्यक्रम (विदेश मंत्रालय)	-	-	-	-	-	-
9	अफगान प्रशासनिक एवं प्रकाशों के लिये कार्यशाला (एथेनेस/सीआईसी)	-	279,326	50,000	-	-	229,326
10	सिंहल इन्वीनरी संस्थान हेतु वार्षिक परीक्षा (भारत आई सी ई)	-	135,300	135,580	85,060	-	84,770
11	पुस्तक प्रदर्शनी डॉ. जाकिर हुसैन पुस्तकालय	-	-	12,650	37,000	-	24,350
12	स्वतंत्रता दिवस मुशारेफे के लिए सम्पादन, हरियुणा द्वारा योगदान	-	500,000	-	-	-	500,000
13	स्वतंत्रता दिवस मुशारेफे के लिए सम्पादन, सिक्किम द्वारा वित्तीय सहायता	-	15,000	-	-	-	15,000
14	छात्र राहत कोष (विविध सहायता)	-	396	-	-	-	396
15	प्रशिक्षण विज्ञान सूचना प्रशिक्षण	-	2,490,252	-	-	-	2,490,252
16	11 सिक्किम के बाद विप्लव, धर्म पर वैश्विक सम्मेलन (सीसीआईएस)	-	176,111	2,556	-	-	173,555
17	सीरिड प्रशासन के सीमांत पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, उत्तरी	-	-	-	-	-	-
18	सीरिड एवं प्रशासनिक स्टाफ को पारंपरिक (एमएम)	-	106,357	187,525	210,362	-	129,194
19	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-भाइको फाईनेंस एबीएमएस एंड चैलेंज	10,300	-	-	-	10,300	-
20	गणित एवं उसके अनुप्रयोगों में नये बदलाव	-	-	-	-	-	-

हस्ताक्षर
(प्रो. एस. एम. साजिद)
कुलसचिव

हस्ताक्षर
(प्रो. साहिद अमलक)
वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(अमरुल्लाह खान)
उप-वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(अमरुल्लाह)
सहायक कुलसचिव (लेखा)

अन्य निधियाँ		01.04.2010 को अवशेष		वर्ष 2010-11 को योग्य लेनदेन		31.03.2011 को अवशेष	
	खाता	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
21	संगोष्ठी, ट्रेड, टेक..... स्वीडिश फोरे इंडियन ओवरसीज बैंक अरबो विभाग	-	-	-	-	-	-
22	इंटर विमिस्टा में स्वातंत्र्य	-	-	-	-	-	-
23	संभाव्य विकास निधि (संश्लिष्ट कला संकाय)	-	389,800	15,150	735,000	-	1,109,650
24	संश्लिष्ट योग्य एम सी एस (अल्पकालीन स्थिति कर्मचारी, सई पैमाने स्कीम)	-	18,950	200	20,700	-	39,450
25	एलबीएसएडीपी पर शोध एवं ब्रॉड पर एक विदेशीय कार्यवाही	353,535	-	1,004	354,539	-	-
26	प्रारंभिक स्वस्थता केन्द्र, जामिया खेला परिसर	-	-	4,975	6,500	-	1,625
27	एनपीएस निविदा खाता	-	-	-	140,200	-	140,200
28	रिजर्व फंड रिप्लेसमेंट निधि (एनसीआरसी)	-	-	-	1,951,938	-	1,951,938
29	जामिया ऐडवोकेट्स फंड (एम सी आर सी)	-	306,314	-	-	-	306,314
30	नारसैना प्रसारण ट्रस्ट (एम सी आर सी)	-	1,429,025	292,247	722,280	-	1,859,058
31	स्वायत्त विकास निधि (एम सी आर सी)	-	43,481	-	-	-	43,481
32	प्रशासनिक स्वयं को परामर्शिक (एम सी आर सी)	-	113,740	-	-	-	113,740
33	कामगिरी व्यवहार शैरी पर 3 विदेशीय कार्यवाही (वैश्विक विभाग)	-	93,783	-	-	-	93,783
34	राष्ट्रीय सम्मेलन 2011 (कौमार्स अथवा विभाग)	-	-	34,555	34,500	55	-
35	एम ओ पी 2011	-	-	95,506	94,000	1,506	-
36	एलबीएस-भारतीय कानून प्रणाली में विदेशी साक्ष्य-प्रतिरूप प्रतिक्रिया	-	-	4,972	5,000	-	28
				147,860	149,000		1,340
	कुल जमा	1,148,470	178,546,965	212,291,819	249,156,422	287,523	214,550,621
34	अधिशेष - छात्रावास एवं तल्ले	-	9,333,678	5,466,090	8,598,741	-	12,466,329
35	छात्रावास सुविधाएं	-	2,520,477	-	692,301	-	3,212,778
36	उद्दिष्ट लेखा- अन्य निधि उद्दिष्ट	-	18,932	3,188,635	4,618,400	-	1,448,697
	योग	-	11,873,087	8,654,725	13,909,442	-	17,127,804
	मातायोग (A+B+C)	1,148,470	190,420,052	220,946,544	263,065,864	287,523	231,678,425
	एकल जमा		189,271,582				231,390,902

हस्ताक्षर
(आयुक्त)हस्ताक्षर
(अपरिचालक खान)
उप-विश्व अधिकारीहस्ताक्षर
(प्रो. एस. एम. साजिद)
वित्त अधिकारीहस्ताक्षर
(प्रो. एस. एम. साजिद)
मुख्य अधिकारी

अनुसूची 4 : नियत परिसंपत्तियाँ

पूजायत परिसंपत्तियाँ (2010-11)

विवरण	कुल खण्ड			मूल्यद्वारा				सकल खंड	
	वर्ष के आरंभ में मूल्य/मूल्यन	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में मूल्य/मूल्यन	वर्ष के आरंभ के अनुसार	वर्ष के लिए निर्धारित दरों पर मूल्यद्वारा	वर्ष के दौरान कटौती/योग समायोजन	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अनुसार 31.03.2011 के अनुसार
A. नियत परिसंपत्तियाँ									
भूमि	40,260,413	0	0	40,260,413	0	0	--	0	40,260,413
भवन	2,420,293,806	494,325,754	--	2,914,619,560	230,283,379	58,292,391	--	288,575,770	2,626,043,790
दृष्टबलेल	885,573	--	--	885,573	256,543	17,711	--	274,255	611,318
विद्युत फिटिंग (विद्युत इंस्टालेशन एवं उपकरण)	13,696,335	--	--	13,696,335	8,661,035	684,817	--	9,345,832	4,350,484
फिटिंग प्रेस (प्लॉट एवं मशीनरी)	127,464	--	--	127,464	127,463	0	--	127,463	1
प्रयोगशाला एवं वकीलाप (विज्ञान एवं प्रयोगशाला उपकरण)	507,065,143	--	--	507,065,143	501,850,071	5,384,038	--	507,234,109	5,215,072
फर्नीचर एवं उपकरण	557,075,121	139,685,193	212,567	696,547,747	255,378,750	52,241,081	212,567	307,407,264	389,140,483
फिल्म-वी फिल्म (दृश्य श्रव्य उपकरण)	3,289,770	--	--	3,289,770	3,289,769	0	--	3,289,769	1
कम्प्यूटर	169,008,814	21,618,167	--	190,626,981	169,008,814	4,323,633	--	173,332,447	17,294,534
कार एवं लॉरी (वाहन)	10,196,824	1,319,220	--	11,516,044	8,545,628	1,151,604	--	9,697,232	1,818,812
पुस्तकें	191,493,922	35,340,890	113,777	226,721,035	137,704,818	22,672,104	113,777	160,263,145	66,457,891
शिक्ति उपकरण (फर्नीचर एवं उपकरण)	13,310	0	--	13,310	13,310	0	--	13,310	0
गठन अन्य	29,374	0	--	29,374	19,469	2,937	--	22,407	6,967
दूरभाष (कार्यशाला उपकरण)	0	0	--	0	0	0	--	0	0
द्विधियार एवं औजार (फर्नीचर एवं उपकरण)	63,457	0	--	63,457	47,592	4,759	--	52,352	11,105
A. चालू वर्ष का योग	3,913,499,326	694,401,295	326,344	4,607,574,277	1,315,186,642	144,775,076	326,344	1,459,635,374	3,147,938,903
विगत वर्ष	3,399,060,365	514,445,140	6,179	3,913,499,326	1,152,137,135	163,234,996	185,490	1,315,186,641	2,598,312,684
पूँजीगत कार्य प्रगति	560,316,963	96,805,448	--	657,122,411	0	0	0	0	0
	395,548,915	60,591,737	--	456,140,652	--	--	--	--	--
B. शुद्ध कार्य प्रगति	164,768,048	36,213,711	--	200,981,759	--	--	--	--	--
योग (A+B)	4,078,267,374	730,615,006	326,344	4,808,556,036	1,315,186,642	144,775,076	326,344	1,459,635,374	3,348,920,682

टिप्पणी : वर्ष के दौरान नियत परिसंपत्तियों में जोड़ी गयी कुल रु.730,615,006 की राशि का स्रोत अनुसार विमानन इस प्रकार है : रु.46,80,82,864 (प्लान/गैर प्लान/अन्य) अनुदान, रु.2,46,061 उपहार, रु.10,17,86,043 उद्दिष्टस्थायी निधि, रु.14,62,23,810 प्रायोजित परियोजनाएं एवं रु.1,42,76,228 अन्य निधि।

हस्ताक्षर
(आयतुल्लाह)
सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर
(जफरउल्लाह खान)
उप वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो.शाहिद अशरफ)
वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो.एस.एम.साजिद)
कुलसचिव

अनुसूची 5 : उद्दिष्ट / स्थायी निधियों से निवेश

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. डिबेंचर्स एवं बॉन्ड	-	-
2. अन्य बैंक नियत जमा	259,908,048	223,679,766
योग	259,908,048	223,679,766

उद्दिष्ट / स्थायी निधियां (निधि अनुसार)

निधियां	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. विश्वविद्यालय विकास निधि	100,800,000	117,001,752
2. एस आर सी प्रकाशन निधि	2,000,000	2,000,000
3. स्थायी निधियां	129,108,048	84,878,014
4. गृह भवन चक्रीय निधि	28,000,000	19,800,000
योग	259,908,048	223,679,766

अनुसूची 6 : निवेश-अन्य

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
मकतबा जामिया लि. में शेयर (मूल्य पर)	235,980	235,980
योग	235,980	235,980

हस्ताक्षर

(आयतुल्लाह)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर

(जफरउल्लाह खान)

उप-वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो. शाहिद अशरफ)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो. एस. एम. साजिद)

कुलसचिव

अनुसूची 7 : चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम			
A चालू परिसंपत्तियाँ		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
नकद एवं बैंक शेष			893,143
1. नकद (स्टाम्प सहित)			
2. बैंक शेष			
a. बचत बैंक खातों में अनुसूचित बैंक		439,199,990	
b. सार्वजनिक जमा		1,053,934,608	1,273,518,669
योग (A)		1,494,119,394	1,274,411,812
B ऋण एवं अग्रिम		Current Year	Previous Year
a. कर्मचारियों को अग्रिम (बिना ब्याज के अंतर्गत)			
वेतन		29,000	
महोत्सव		786,660	
एल टी सी		1,084,787	
विक्रिस अग्रिम		156,121	
अन्य		-	
b. कर्मचारियों को दीर्घवधि अग्रिम (ब्याज सहित)		2,056,568	2,688,865
पेंशन		2,156	2,156
साहकिल		-	
c. अग्रिम एवं नकद वसूली योग्य अन्य राशि			
विपक्वा मूल्य प्राप्त किया जाना है			
आपूर्तिकर्ता को अग्रिम		8,141,200	
पूजीगत लेखा पर अग्रिम		3,332,838	
अन्य		12,175,297	
d. पूर्व भूतान खय		23,649,335	41,556,938
बीमा		-	
अन्य खय		-	
e. जमा			
दूरभाष			
पेट्टा किराया			
विद्युत			
अन्य		38,812	38,812

हस्ताक्षर

(आयुक्त)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर

(जयपुरलाल खान)

उप-वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो. शाहिद अयाज)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो. एस. एम. साकिद)

कुलसचिव

f. उद्भूत किंतु अदेय आय	उद्दिष्ट / स्थायी निधियों से निवेश पर	1,117,030	21,068,723	23,745,260
	ऋण एवं अग्रिम (एच बी ए) पर	19,951,693		
	अन्य			
g. अन्य प्राप्य	प्रायोजित परियोजनाओं में निकासी शेष	22,876,800		
	पोषवृत्तियों एवं छात्रवृत्तियों में निकासी शेष	10,443,455		
	बसूली योग्य भुगतान			
	अन्य प्राप्य	536,708	33,856,963	22,500,983
h. प्राप्य दावे				
	योग (B)		80,672,557	90,533,014
	योग (A+B)		1,574,791,951	1,364,944,826

संलग्नक A

31.03.2011 को बचत बैंक खाते में शेष

इंडियन बैंक

योग	योग
1. राजस्व खाता	194,838,512
2. प्लान खाता	142,375,960
3. उद्दिष्ट खाता	18,809,596
4. जमा खाता	77,799,227
5. छात्रावास एवं रसोई	5,343,576
6. एफ सी आर ए खाता	33,119
योग	439,199,990

हस्ताक्षर
(आयतुल्लाह)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर
(जफरउल्लाह खान)
उपविद्य अधिकारीहस्ताक्षर
(प्रो. शाहिद अशरफ)
वित्तअधिकारीहस्ताक्षर
(प्रो. एस. एम. साजिद)
कुलसचिव

आय एवं व्यय लेखा के अंग स्वरूप निर्मित अनुसूचियाँ 31 मार्च, 2011 के लिए

अनुसूची 8 : अनुदान सहायता / सविक्री

विवरण	यूजीसी प्लान	यूजीसी गैर-प्लान	यूजीसी अन्य	योग
शेय B/F	64,149,843	299,665,335	38,529,737	402,344,915
वर्ष के दौरान प्राप्तियों को जोड़कर	758,500,000	1,351,350,000	132,600,017	2,242,450,017
योग	822,649,843	1,651,015,335	171,129,754	2,644,794,932
यूजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त राशि को घटाकर	234,916,765	153,447,054	79,719,045	468,082,864 (a)
योग	587,733,078	1,497,568,281	91,410,709	2,176,712,068
अप्रसरित शेष का घटाकर	399,564,599	188,878,445	75,608,221	664,051,265 (b)
वर्ष के दौरान अनुदान के अतिरिक्त अन्य प्राप्तियों को जोड़कर	4,119,656	-	2,295,771	6,415,427
एकत्र व्यय हेतु प्रयुक्त राशि	192,288,135	1,308,689,836	18,098,259	1,519,076,230 (c)

(a) तुलन-पत्र में प्रदर्शित निवृत्त परिसंपत्तियोंकी अनुसूची में वर्ष के दौरान यूजीगत निधि में सम्मिलित अना के साथ-साथ निवृत्त परिसंपत्तियों में हुये अना को भी दर्शाया गया है।

(b) कुल अनुप्रयुक्त अनुदान' को दर्शाता है बिना तुलन-पत्र की अनुसूची 3 (v)(d) के अंतर्गत दिखाया गया है।

(c) आय एवं व्यय लेखा में आय के रूप में प्रदर्शित

टिप्पणी : क्रमशः रु.188,878,445 (प्लान) तथा रु.149,206,030 (गैर प्लान) की आंतरिक प्राप्ति का संज्ञान लेते हुए की गई राशियों का समाधान कर लिया गया है।

हस्ताक्षर (आयुक्त)	हस्ताक्षर (प्रो.प्रो.वि. असाफ)	हस्ताक्षर (प्रो. एम. एम. साजिद)
सहायक कुलसचिव (लेखा)	विन अधिकारी	कुलसचिव

अनुसूची 9 : आकादमिक प्राप्तियाँ

विवरण	राशि
A. छात्रों से शुल्क	
आकादमिक	
1. शिक्षण शुल्क	14,441,916
2. प्रवेश शुल्क	1,310,750
3. नार्मकिन शुल्क	300,900
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	3,208,990
5. प्रयोगशाला शुल्क	3,786,450
6. वार्षिक शुल्क : मिडिल स्कूल/सीनियर सेकेंडरी स्कूल शुल्क	325,300
7. वार्षिक शुल्क : नर्सरी स्कूल	39,000
8. ग्रीष्म एवं शिल्प शुल्क - बी एम सी	28,150
9. नर्सरी शुल्क - बी एम सी	43,180
10. ग्राइमरी शुल्क बी. एम. सी.	10,400
11. पंजीकरण शुल्क	89,750
12. पाठ्यक्रम शुल्क	875,400
योग	24,460,186
प्रशिक्षा	
1. सुपरविजन शुल्क (पी एच डी)	1,613,000
2. वार्षिक प्रशिक्षा शुल्क	18,371,943
3. मार्कशीट, प्रमाण-पत्र शुल्क	79,075
योग	20,064,018
अन्य शुल्क	
1. परिचय पत्र शुल्क	891,680
2. फाइल/विविध शुल्क	917,521
3. चिकित्सा शुल्क	1,743,320
4. बागवानी शुल्क	712,900
5. यू. जी. सी. से आय	202,360
योग	4,467,781
B. प्रकाशनों की बिक्री	
1. पाठ्यक्रम एवं प्रश्नपत्र आदि की बिक्री	7,745
2. विवरणिका (आवेदन पत्र सहित) की बिक्री	44,811,295
योग	44,819,040
महायोग	93,811,025

हस्ताक्षर

(आयुक्त)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर

(अध्यक्ष)

उप-विश्वविद्यालय

हस्ताक्षर

(अध्यक्ष)

विश्वविद्यालय

हस्ताक्षर

(अध्यक्ष)

कुलसचिव

अनुसूची 10 : प्रकाशन से आय

विवरण	उत्पन्नद्वय
संरक्षित : जमिया मसिक	32,634
योग	32,634

अनुसूची 11 : निवेश से आय

विवरण	उद्दिष्ट/स्थायी निधियों से निवेश	निवेश-अन्य
1. व्याज		
a) शासकीय सिक्युरिटीज पर		-
b) बॉण्ड / डिबेंचर		-
2. डिविडेंडस		
a) शेयरों पर (मकतबा जमिया लि.)		35,598
3. प्राप्त आय		
a) विश्वविद्यालय विकास निधि	7,649,345	
b) एस आर सी प्रकाशन निधि	75,503	
c) स्थायी निधि	7,064,301	
योग	14,789,149	35,598
उद्दिष्ट / स्थायी निधि में सीनीतरीत	14,789,149	
योग	0	

हस्ताक्षर
(आयुतुल्लाह)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर
(जफरउल्लाह खान)

उप-विन अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो. शाहिद अशरफ)

विन अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो. एस. एम. सविद)

कुलसचिव

अनुसूची 12 : अर्जित ब्याज

विवरण	राशि
A. चियत जमा	
1. गैर - प्लान (मरम्मत)	27,237,164
2. प्लान	9,088,532
योग	36,325,696

अनुसूची 13 : अन्य आय	
विवरण	राशि
1. भूमि एवं भवन से आय	
1. छात्रावास कमरा किराया	1,707,300
2. लाइसेंस शुल्क	2,478,357
3. सभागार/क्राइस्थल/सामुदायिक केन्द्र आदि का किराया प्रभार	875,900
5. विद्युत एवं जल प्रभार	2,213,137
योग	7,274,694

2. अन्य	
1. कर्मचारियों से चिकित्सा योगदान	3,078,390
2. स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों से रख-रखाव प्रभार	10,226,537
3. परियोजनाओं से ऊपरी प्रभार	512,253
4. इग्नू अध्ययन केन्द्र से आय	125,000
5. आवेदन पत्रों का विक्रय (भर्ती)	247,650
6. विविध प्राप्ति (निविदा आवेदन पत्र, अनुपयोगी कागज इत्यादि की बिक्री)	6,100,857
7. परामर्श से आय	249,327
8. आर टी आई शुल्क	11,899
9. रॉयल्टी से आय	15,627
10. डेंटल कॉलेज से आय	247,375
योग	20,814,915

कुल योग	28,089,609
----------------	-------------------

हस्ताक्षर (अयातुल्लाह) सहायक कुलसचिव (लेखा)	हस्ताक्षर (जफरउल्लाह खान) उप-वित्त अधिकारी	हस्ताक्षर (प्रो. शाहिद अशरफ) वित्त अधिकारी	हस्ताक्षर (प्रो. एस.एम.साजिद) कुलसचिव
---	--	--	---

अनुसूची 14 : स्थापना व्यय

विवरण	गैर-प्लान	प्लान/अन्य	योग
1. वेतन एवं भत्ते	957,547,568	135,551,539	1,093,099,107
2. परिश्रमिक	24,196,886	-	24,196,886
3. बोनस	3,763,747	-	3,763,747
4. सेवानिवृत्ति लाभ	1,771,111,454	-	1,771,111,454
योग (A)	2,756,619,655	135,551,539	2,892,171,194
2010-11 के बकाया व्यय को जोड़कर			
1. वेतन एवं भत्ते	72,244,205	12,564,183	84,808,388
2. कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान / पेंशन	12,786,577	-	12,786,577
योग (B)	85,030,782	12,564,183	97,594,965
महायोग (A+B)	2,841,650,437	148,115,722	2,989,766,159

अनुसूची 14 (A) : सीपना व्यय (वेतन एवं भत्ते)

विवरण	गैर-प्लान	प्लान	योग
1. वेतन एवं भत्ते	859,384,980	135,551,539	994,936,519
2. छोटे वेतन आयोग का एरियर	20,294,276	-	20,294,276
3. एल टी सी सुविधाएं	13,252,452	-	13,252,452
4. चिकित्सा सुविधाएं	46,387,644	-	46,387,644
5. बाल शिक्षा भत्ता	11,643,965	-	11,643,965
6. यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता व्यय	967,689	-	967,689
7. एल टी सी के बदले अर्जित अवकाश का नगदीकरण	5,616,562	-	5,616,562
योग	957,547,568	135,551,539	1,093,099,107

हस्ताक्षर (आयतुल्लाह) (जफरउल्लाह खान) उप वित्त अधिकारी सहायक कूलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर (प्रो. शाहिद अशरफ) वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर (प्रो. एस. एम. साजिद) कूलसचिव

अनुसूची 14 B : सेवाविशुद्धि खाश

विवरण		योग
(I) पेंशन		
अधिशेष		
2010-11 में हुये वास्तविक भुगतान को घटाकर		1,543,381,000
31.03.2011 को उपलब्ध वास्तविक शेष (A)		83,696,703
31.03.2011 को वास्तविक मूल्यन के अनुरूप देयताएं (B)		1,459,684,297
2010-11 (B-A) के लिये लेखा में किए गए प्रावधान		2,879,713,509
		1,420,029,212
(II) ग्रेजुटी		
अधिशेष		
2010-11 में हुये वास्तविक भुगतान को घटाकर		269,998,000
31.03.2011 का उपलब्ध शेष (A)		17,100,090
31.03.2011 को वास्तविक मूल्यन के अनुरूप देयताएं (B)		252,897,910
2010-11 (B-A) के लिये लेखा में किए गए प्रावधान		499,633,909
		246,735,999
(III) छुट्टियों का नगदीकरण		
अधिशेष		
2010-11 में हुए वास्तविक भुगतान को घटाकर		235,528,759
31.03.2011 का उपलब्ध शेष (A)		10,062,823
31.03.2011 को वास्तविक मूल्यन के अनुरूप देयताएं (B)		225,465,936
2010-11 (B-A) के लिये लेखा में किए गए प्रावधान		310,073,428
		84,607,492
(IV) वर्ष 2009-10 के दौरान भुगतान		
(i) भविष्य निधि अंशदान		
(ii) अवकाश वेतन / पेंशन अंशदान		19,738,751
योग		0
		19,738,751
महायोग (I+II+III+IV)		1,771,111,454

हस्ताक्षर
(आयुक्तलाह)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर
(जफ़्तरुल्लाह खान)
उप-वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो. शाहिद अशरफ)
वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो. एस. एम. साजिद)
कुलसचिव

अनुसूची 15 : अकादमिक व्यय

विवरण	मैत्र-प्लान	प्लान	योग
1. प्रयोगशाला व्यय	6,793,080	-	6,793,080
2. फील्डवर्क / भागीदारी	1,148,379	1,291,097	2,439,476
3. संगोष्ठी/कार्यशाला/अनिर्धारित अनुदान	650,706	-	650,706
4. अतिथि संकाय सदस्यों का भुगतान	151,450	-	151,450
5. परीक्षा	17,219,851	-	17,219,851
6. छात्र कल्याण व्यय	7,611,672	-	7,611,672
7. प्रवेश व्यय	24,920,749	-	24,920,749
8. दीक्षांत समारोह व्यय	1,199,178	-	1,199,178
9. प्रकाशन	343,076	315,061	658,137
10. अतिथि अध्यापकों को पारिश्रमिक	190,800	-	190,800
11. वजीफा / मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति	1,064,500	-	1,064,500
12. विविध	5,368,271	-	5,368,271
13. सम्मेलन / संगोष्ठी	-	570,801	570,801
योग	66,661,712	2,176,959	68,838,671

हस्ताक्षर
(आयुक्त)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर
(जुफरउल्लाह खान)
उप वित्त अधिकारीहस्ताक्षर
(प्रो. शाहिर अशरफ)
वित्त अधिकारीहस्ताक्षर
(प्रो. एस.एम. साजिद)
कुलसचिव

अनुसूची 16 : प्रशासनिक व्यय

विवरण	गैर-प्लान	प्लान, अन्य	योग
1. किराया, दफे एवं कर (संपत्ति कर सहित)	8,909,800	-	8,909,800
2. विद्युत प्रभार	57,900,095	-	57,900,095
3. जल-प्रभार	6,644,303	-	6,644,303
4. वाहन प्रभार	3,435,154	-	3,435,154
5. डाक एवं तार	433,711	-	433,711
6. फोन एवं इंटरनेट प्रभार	2,297,648	-	2,297,648
7. विज्ञापन एवं प्रचार	3,930,578	-	3,930,578
8. विधिक व्यय	2,266,662	-	2,266,662
9. वर्दी एवं दैनिक भत्ते	1,727,636	-	1,727,636
10. मुद्रण, स्टेशनरी प्रभार	10,360,453	-	10,360,453
11. यात्रा परिवहन प्रभार	2,182,095	-	2,182,095
12. आतिथ्य	371,542	-	371,542
13. विविध व्यय	2,271,853	17,610,500	19,882,353
योग	102,731,530	17,610,500	120,342,030

हस्ताक्षर (आयुक्तलाह)	हस्ताक्षर (जफरउल्लाह खान)	हस्ताक्षर (प्रो. शाहिद अशरफ)	हस्ताक्षर (प्रो. एस. एम. साजिद)
सहायक कुलसचिव (लेखा)	उप वित्त अधिकारी	वित्त अधिकारी	कुलसचिव

अनुसूची 17 : प्राम्पत एवं रख-रखाव

विवरण	भैर-प्लान	प्लान	योग
1. स्वच्छता सामग्री एवं सेवाएं	889,776	-	889,776
2. भवन रख-रखाव (जल एवं विद्युत आपूर्ति सहित)	47,819,131	-	47,819,131
3. बागवानी	790,172	-	790,172
4. कम्प्यूटर का रख-रखाव	18,332,648	-	18,332,648
5. फर्नीचर एवं उपकरणों का रख-रखाव	5,865,606	-	5,865,606
योग	73,697,333	-	73,697,333

अनुसूची 18 : विविध व्यय

विवरण	भैर-प्लान	प्लान	योग
1. विविध व्यय	-	42,483,213	42,483,213
2. आकस्मिक व्यय	13,667,941	-	13,667,941
योग	13,667,941	42,483,213	56,151,154

हस्ताक्षर (आयुक्तल्लाह) सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर (जुफरउल्लाह खान) उप वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर (प्रो. शाहिद अशरफ) वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर (प्रो. एस. एम. साजिद) कुलसचिव

31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखाओं की अनुसूचियाँ

अनुसूची 19 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा तैयार करने का आधार

जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, ये लेखे पारंपरिक लागत परिपाटी के अंतर्गत तैयार किये जाते हैं। जबकि सामान्यतः इन्हें संप्रति पद्धति के तहत तैयार किया जाता है।

2. राजस्व की पहचान

2.1 छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क, प्रवेश के आवेदनों की बिक्री तथा बचत खाते पर मिलने वाल ब्याज की नकदी के तौर पर देखा जाता है।

2.2 निवेशों से प्राप्त आय को प्रोद्भवन आधार पर दर्शाया गया है।

2.3 कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये दी गयी अग्रिम राशि से प्राप्त ब्याज को प्रतिवर्ष प्रोद्भवन आधार पर दर्शाया गया है हालांकि ब्याज की वास्तविक वसूली मूलधन के पूर्ण भुगतान के बाद ही आरंभ होगी।

3. स्थाई संपत्तियाँ और मूल्य ह्रास

3.1 नियत परिसंपत्तियों को आवक किराये, शुल्कों और करों एवं अर्जन, संस्थापक तथा चालू करने से संबंधित आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष खर्चों के रूप में अर्जित मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।

3.2 नियत परिसंपत्तियाँ अवमूल्यन घटा कर खरीद मूल्य पर रखी गई हैं। स्थाई संपत्तियों के अवमूल्यन को सीधी रेखा पद्धति से निम्नलिखित दरों पर निर्धारित किया गया है।

हस्ताक्षर (आयतुल्लाह) सहा.कुलसचिव(लेखा)	हस्ताक्षर (जफरउल्लाह खान) उप-वित्त अधिकारी	हस्ताक्षर (प्रो.शाहिद अशरफ) वित्त अधिकारी	हस्ताक्षर (प्रो.एस.एम.साजिद) कुलसचिव
---	--	---	--

1	भूमि	0%		
2.	भवन	2%		
3.	द्युब वेल एवं जल आपूर्ति	2%		
4.	बिजली का सामान एवं लगाई	5%		
5.	संयंत्र एवं मशीनें	5%		
6.	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला यंत्र	8%		
7.	कार्यालयी सामान	7.5%		
8.	दूरध-श्रव्य यंत्र	7.5%		
9.	कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल्स	20%		
10.	फर्नीचर, फिक्सचर्स एवं फिटिंग्स	7.5%		
11.	वाहन	10%		
12	पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिकाएँ	10%		
13	अन्य	10%		
3.3	वर्ष के दौरान जोड़ी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास उपलब्ध कराया गया है।			
3.4	जब कोई परिसंपत्ति पूरी तरह अवमूल्यित हुई है तो उसे तुलन-पत्र पर 1 रु. के बचे हुए मूल्य की तरह दर्ज किया गया है और उसका भविष्य में अवमूल्यन नहीं होगा।			
3.5	निर्धारित निधियों और प्रायोजित परियोजनाओं से सृजित संपत्तियाँ जिनका स्वामित्व विश्वविद्यालय के पास है, उन्हें पूंजीगत निधि में दर्शाया गया है और विश्वविद्यालय की स्थायी संपत्तियों में शामिल कर लिया गया है। इनका अवमूल्यन अन्य संपत्तियों के ह्रास की दर पर आंका गया है।			
3.6	विश्वविद्यालय को भेंट की गई परिसंपत्तियाँ पूंजी निधि में निहित कर दी गयी हैं और उन्हें विश्वविद्यालय की स्थाई परिसंपत्तियों में मिला दिया गया है। इसका अवमूल्यन अन्य संपत्तियों पर निर्धारित दरों पर होगा।			
3.7.	भेंट स्वरूप प्राप्त पुस्तकों का मूल्य उन पर मुद्रित मूल्य के बराबर ही रखा गया है। जहाँ कोई मूल्य मुद्रित नहीं है वहाँ मूल्यांकन के आधार पर मूल्य तय कर दिया गया है।			
	हस्ताक्षर (आयतुल्लाह)	हस्ताक्षर (जफरउल्लाह खान)	हस्ताक्षर (प्रो. शाहिद अशरफ)	हस्ताक्षर (प्रो. एस. एम. साजिद)
	सहा. कुलसचिव (लेखा)	उप-वित्त अधिकारी	वित्त अधिकारी	कुलसचिव

4. सेवा निवृत्ति के लाभ

सेवा निवृत्ति के लाभ अर्थात् पेंशन और ग्रेज्युटी हर वर्ष के अंत में किए गए मूल्यांकन के आधार पर मुहैया करवाए जाते हैं। विश्वविद्यालय के उन कर्मचारियों को जिन्हें विश्वविद्यालय में समाहित कर लिया गया है उनके पूर्व नियोक्ताओं से प्राप्त पेंशन और ग्रेज्युटी के पूंजीगत मूल्य को उनके प्रोविजनल खाते में जमा किया गया है। प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर गए विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त पेंशन अंशदान को भी पेंशन के प्रावधानों में जमा किया गया है।

5. निवेश

सभी निवेश लागत के अनुसार मूल्यांकित हैं

6. निम्नलिखित दीर्घ-अवधि निधियाँ विशेष उद्देश्यों के लिए निधारित की गई हैं। इनमें से अधिक जमा राशि वाली निधियों को बैंक सवधि जमाओं में निवेश कर दिया गया है। निवेश और मकान निर्माण अग्रिम की वसूली से प्राप्त आय को संबंधित खातों में जमा किया गया है। मकान/भवन परिक्रमण निधि से संबंधित व्यय और अग्रिम को निधियों में जमा कर दिया गया है। बकाया को अग्रसरित कर बैंक शेष(निधारित/मियादी बचत खाता में समाहित), निवेश

6.1 विश्वविद्यालय विकास निधि

यह कोष विश्वविद्यालय के छात्रों से प्राप्त वार्षिक आय एवं अन्य पर्याप्त पूंजी प्राप्तियों से बनाया गया है। इसका उपयोग ढांचागत सुविधाओं को सुधारने परिसंपत्तियों के अर्जन, आदि के लिए किया जाता है।

6.2 मकान बनाने के लिए अग्रिम भुगतान निधि

अधिकारियों और कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए दिए गए ब्याज वाले अग्रिमों के भुगतान हेतु बनायी गयी एक परिक्रमण निधि।

6.3 वाहन निधि

अधिकारियों और कर्मचारियों को मोटर कार, दोपहिया और कम्प्यूटर और साइकिलें खरीदने के लिए दिए गए ब्याज वाले अग्रिमों के भुगतान हेतु बनायी गयी परिक्रमण निधि।

हस्ताक्षर

(आयतुल्लाह)

सहा.कुलसचिव(लेखा)

हस्ताक्षर

(जफरउल्लाह खान)

उप-वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो.शाहिद अशरफ)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो.एस.एम.साजिद)

कुलसचिव

6-4 एस.आर.सी. प्रकाशन निधि
राज्य संसाधन केंद्र के प्रकाशनों की विक्री से बनायी गयी परिक्रामी निधि, जिससे प्रकाशनों की छपाई आदि का खर्च निकलता है। एस.आर.सी. भवन के निर्माण का खर्च भी इसी निधि से निकाला गया है।

6-5 स्थायी निधियाँ
स्थायी निधियाँ वे निधियाँ हैं जो विभिन्न व्यक्तिगत दानकर्ताओं, ट्रस्टों और अन्य संगठनों से प्राप्त होती हैं। ये निधियाँ पीठ स्थापित करने के लिए और दानकर्ताओं द्वारा तय की गई छात्रवृत्तियों, पुरस्कारों, मेडलों के लिए होती हैं। जहाँ हर स्थायी निधि का अपना निवेश होता है वहीं अनिवेशित राशि को एक ही बैंक खाते में रखा जाता है।

प्रत्येक स्थायी निधि के निवेष्टा से प्राप्त आय को सतत् आधार पर एक कोष में एकत्रित किया जाता है। पीठ, मेडल, पुरस्कार एवं छात्रवृत्तियों पर होने वाला खर्च इस विशेष एंडोवमेंट निधि से निकाला जाता है और बकाया आगे बढ़ा दिया जाता है। बकाया को स्थाई जमाओं, प्रोद्भूत ब्याज (वर्तमान परिसंपत्तियाँ) में निवेश के रूप में परिलक्षित किया जाता है और कुल बकाया सभी जमा राशियों को एक ही बचत खाते में रखा जाता है।

7. शासकीय एवं यू.जी.सी. अनुदान

7.1 सरकारी एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों को वसूली के आधार पर दर्शाया जाता है। सिवाय इसके कि जहाँ वर्ष के लिए वसूली हेतु स्वीकृति तो ले गयी है पर वास्तव में वसूली नहीं हो पायी है।

7.2 पूंजीगत व्यय के रूप में अनुप्रयुक्त राशियों, शासकीय अनुदानों एवं यू.जी.सी. के अनुदानों को पूंजीगत निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है।

हस्ताक्षर (आयतुल्लाह) सहा.कुलसचिव(लेखा)	हस्ताक्षर (जफरउल्लाह खान) उप-वित्त अधिकारी	हस्ताक्षर (प्रो.शाहिद अशरफ) वित्त अधिकारी	हस्ताक्षर (प्रो.एस.एम.साजिद) कुलसचिव
---	--	---	--

7.3 सरकारी और यू.जी.सी. के अनुदानों को जिस हद तक राजस्व खर्च का भार उठाने के लिए उपयोग में लाया जाता है उस हद तक उन्हें उस वर्ष की आय माना जाता है जिस वर्ष वह प्राप्त हुए।

7.4 अप्रयुक्त (ऐसे अनुदान से दिए गए अग्रिम सहित) अग्रणीत किये गये और उन्हें तुलन -पत्र में देयता की तरह दर्शाया गया।

8. निर्धारित / स्थायी निधियों का निवेश और ऐसे निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज से प्राप्त आय

जिस हद तक खर्च के लिए तुरंत आवश्यकता न हो, ऐसी निधियों से प्राप्त धन को स्वीकृत प्रतिभूतियों और बॉण्डों या बैंकों में मियादी जमा खातों में निवेशित किया गया और शेष राशि बचत खातों में रख छोड़ी गई।

ऐसे निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज, और प्राप्य लेकिन अदेय ब्याज को संबंधित निधियों में जोड़ दिया गया और उन्हें विश्वविद्यालय की आय नहीं माना गया।

9. प्रायोजित परियोजनाएँ

9.1 चालू प्रायोजित परियोजनाओं के संदर्भ में प्रायोजकों से प्राप्त राशियों को 'वर्तमाना देयताओं और प्रावधानों - वर्तमान देयताओं - अन्य देयताओं - चालू प्रायोजितपरियोजनाओं से प्राप्तियों' के शीर्ष में रखा गया है। जब भी और जिस रूप में भी ऐसी परियोजनाओं के लिए धन व्यय हुआ है/अग्रिम का भुगतान किया गया है या संबंधित परियोजना खाते में ओवरहेड प्रभार जमा किया गया है, तो उसे देयता लेखा में जमा कर दिया गया है परियोजनाओं से वसूले गए ओवरहेड प्रभार को विश्वविद्यालय की आय में शामिल किया गया है।

9.2 व्यक्तिगत प्रायोजित परियोजनाओं में जमा शेष को प्रायोजकों से प्राप्त की जाने वाली वर्तमान परिसंपत्तियों-उधार एवं अग्रिम, के अंतर्गत दर्शाया गया है।

हस्ताक्षर (आयतुल्लाह) सहा.कुलसचिव(लेखा)	हस्ताक्षर (जफरउल्लाह खान) उप-वित्त अधिकारी	हस्ताक्षर (प्रो.शाहिद अशरफ) वित्त अधिकारी	हस्ताक्षर (प्रो.एस.एम.साजिद) कुलसचिव
---	--	---	--

10. शोधवृत्तियाँ एवं छात्रवृत्तियाँ

10.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पोषित कनिष्ठ फेलोशिप के लिए निर्धारित कोष के अतिरिक्त विभिन्न संगठनों की फेलोशिप एवं छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इनका उल्लेख भी उसी तरह किया गया है जैसे प्रायोजि परियोजनाओं के संदर्भ में किया जाता रहा है, सिवाय इसके कि इसमें खर्च केवल इन छात्रवृत्तियों और शोधवृत्तियों के वितरण को होता है जिसमें फेलों और शोधार्थियों के भते एवं आकस्मिक खर्च भी शामिल किए गए हैं।

10.2 विश्वविद्यालय स्वयं भी शोधवृत्तियों एवं छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है जिन्हें विश्वविद्यालयके अकादमिक व्यय में सम्मिलित किया जाता है।

11. आय कर

विश्वविद्यालय की आय आयकर अधिनियम की धारा 10(23ग) के तहत आयकर से मुक्त है। इसलिए खाते में आकर संबंधी कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

12. एम. सी. आर. सी.

एम. सी. आर. सी. विश्वविद्यालय का अभिन्न अंग है, इसके लेखाओं को तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखाओं एवं भुगतान लेखाओं में शामिल किया गया है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(आयतुल्लाह)	(जफरउल्लाह खान)	(प्रो. शाहिद अशरफ)
सहा. कुलसचिव (लेखा)	उप-वित्त अधिकारी	वित्त अधिकारी
		कुलसचिव

अनुसूची-20 : आकास्मिक देयताएँ एवं लेखाओं पर टिप्पणी

1. आकास्मिक देयताएँ

- 1.1 31.03.2011 तक जामिया के पूर्व/वर्तमान कर्मचारियों द्वारा जामिया के विरुद्ध कुल 59 मुकदमों दायर किये गये जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े हैं। यह मामले पदोन्नति, वेतनवृद्धि, वेतनमान और निष्कासन आदि से संबद्ध हैं। दावों के मूल्यों का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ

- पूँजीगत लेखा में निष्पादित की जाने वाली बकाया संविदाओं का मूल्य और 31.03.2011 को गैर प्रावधान वाली राशि (अग्रिम की कुल राशि) थी। (विगत वर्ष में रु.223,331,572/-)

3. चालू परिसंपत्तियाँ : ऋण एवं अग्रिम

- प्रबंधन की राय में, सामान्य तरीके से वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण तथा अग्रिम राशियों का वसूली के समय एक मूल्य होता है जो कम से कम तुलन-पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर होता है।

4. बचत खाते में बकाया राशि के विवरण संलग्नक 'ए' में दिए गए हैं।

5. पिछले वर्ष के आँकड़े जहाँ भी आवश्यक था वहाँ पुनः समूहित किए गए हैं।

6. अंतिम लेखाओं में आँकड़ों को निकटतम रुपये तक राउंड ऑफ कर दिया गया है।

7. अनुसूची-1 से 20 तक 31 मार्च 2011 तक के तुलन-पत्र के अभिन्न अंग की तरह और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा में संलग्न किए गए हैं।

8. क्योंकि भविष्य निधि लेखे उनके खातेदारों के होते हैं विश्वविद्यालय के नहीं, इसलिए इन खातों को विश्वविद्यालय के लेखाओं से अलग रखा गया है। फिर भी प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा (प्रसूत के आधार पर) और भविष्य निधि खातों के तुलन-पत्र विश्वविद्यालय के लेखाओं के साथ संलग्न कर दिये गए हैं।

हस्ताक्षर

(आयतुल्लाह)

सहा.कुलसचिव(लेखा)

हस्ताक्षर

(जफरउल्लाह खान)

उप-वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो.शाहिद अशरफ)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो.एस.एम.साजिद)

कुलसचिव

समापन वर्ष 31 मार्च 2011 के लिये प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ	राशि	भुगतान	राशि
I. अथशेष			
a) नकद	893,143	I. व्यय	1,668,282,260
b) बैंक शेष	669,419,475		
II. प्राप्त अनुदान	2,242,450,017	II. प्रायोजित, स्थायी निधियों एवं अन्य निधियों के अंतर्गत भुगतान	559,008,702
III. प्राप्त ब्याज	36,325,696	III. सावधि जमाओं सहित निवेश	1,371,518,483
IV. अन्य आय		IV. अन्यतः परिसंपत्तियाँ पर व्यय एवं पूंजीगत कार्य-प्राप्ति	730,368,945
a) विश्वविद्यालय की अन्य	126,225,645		
b) प्रायोजित, स्थायी निधियाँ एवं अन्य निधियाँ के अंतर्गत प्राप्ति	800,563,043		
V. अन्य प्राप्ति		V. अन्य भुगतान	
a) निवेश की वसूली	884,600,523	वेतन से कटौती एवं व्यय हेतु अग्रिम के अंतर्गत प्रेषित धन	454,850,998
b) धन-वापसी/व्यय के तहत अग्रिम एवं वेतन से कटौती की समायोजन	463,736,632		
		VI. अंतर्शेष	984,796
		a) नकद	439,199,990
		b) बैंक शेष	
योग	5,224,214,174	योग	5,224,214,174

हस्ताक्षर

(आयुक्त)

सहायक कलमचिव (लेखा)

हस्ताक्षर

(प्रो. शाहिद अशरफ)

उप वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो. शाहिद अशरफ)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो. एस.एम. साजिद)

कलमचिव

भविष्य निधि लेखा

तुलन-पत्र 31-03-2011

देयता		परिसंपत्तियां		
विवरण	राशि	विवरण	राशि	राशि
1. भविष्य निधि सदस्यता		निवेश		764,105,000
अथ शेष	511,379,831	अक्षुण्ण ब्याज (किंतु अदेय)		
2010-11 के दौरान योगा	161,369,182	1) आर बी आई सह बॉण्ड	12,929,908	
ब्याज को जोड़कर	42,063,712	2) अन्य	7,271,477	
आहरण, अग्रिम एवं अंतिम भुगतान को घटाकर	117,935,921			20,201,385
2. अंशदायी भविष्य निधि सदस्यता		इंडियन बैंक में शेष		3,907,963
अथ शेष	59,272,974			
2010-11 के दौरान योगा	17,082,925			
ब्याज को जोड़कर	4,740,058			
आहरण, अग्रिम एवं अंतिम भुगतान को घटाकर	11,247,537			
3. अंशदायी भविष्य निधि योगदान				
अथ शेष	37,052,872			
2010-11 के दौरान योगा	4,768,255			
ब्याज को जोड़कर	2,833,595			
आहरण, अग्रिम एवं अंतिम भुगतान को घटाकर	1,397,023			
आरक्षित ब्याज - अथशेष	68,982,516			
व्यय पर आय की अधिकता को जोड़कर	9,248,909			
योग (रु)	788,214,348	योग (रु)		788,214,348

हस्ताक्षर

(आयतुल्लाह)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर

(जुफरउल्लाह खान)

उप-वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो. शाहिद अशरफ)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो. एस.एम. साजिद)

कुलसचिव

भविष्य निधि लेखा
आय एवं व्यय लेखा, समाप्त वर्ष 31 मार्च 2011

व्यय		आय		
विवरण	राशि	विवरण	राशि	राशि
भविष्य निधि सदस्यता धारकों के लिये स्वीकृत ब्याज		निवेशों पर ब्याज		
1) भविष्य निधि सदस्यता धारक	42,063,712	1) निवेश पर ब्याज (वर्ष के दौरान प्राप्त) (बालू वर्ष के दौरान प्राप्त)		44,554,289
2) अंशदायी भविष्य निधि सदस्यता धारक	4,740,058	2) वर्ष के दौरान प्रोद्यूत ब्याज : आर बी आई बॉन्ड पर एफ डी पर	12,929,908 1,402,077	14,331,985
3) अंशदायी भविष्य निधि योगदान	2,833,595			
व्यय वर आय की अधिकता से	9,248,909			
योग (रु)	58,886,274	योग (रु)		58,886,274

हस्ताक्षर

(आयतुल्लाह)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर

(जफरउल्लाह खान)

उप-वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो. शाहिद अशरफ)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो. एस.एम. साजिद)

कुलसचिव

भविष्य निधि लेखा
वर्ष 2010-11 के लिये प्राप्त एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ		भुगतान		
विवरण	राशि	विवरण	राशि	राशि
अथ शेष इंडियन बैंक में		ऋण/ निकासी / अंतिम भविष्य निधि सदस्यता अंशदायी भविष्य सदस्यता अंशदायी भविष्य निधि योगदान	117,935,921 11,247,537 1,397,023	130,580,481
प्राप्त ब्याज		किया गया निवेश		142,220,000
निवेश का नकदीकरण	55,098,799			
वर्ष के दौरान योग	29,000,000			
भविष्य निधि सदस्यता		अंत शेष द्वारा		3,907,963
अंशदायी भविष्य सदस्यता	161,369,182	इंडियन बैंक में		
अंशदायी भविष्य निधि योगदान	17,082,925			
	4,768,255			
योग (रु)	276,708,444	योग (रु)		276,708,444

हस्ताक्षर

(आयुल्लाह)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर

(जफरउल्लाह खान)

उप-वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो. शाहिद अशरफ)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो. एस. एम. साजिद)

कुलसचिव

परिशिष्ट (i) अनुसूची : ३ (vxb)

घातु देयताएं—अन्य देयताएं—प्राप्तियां
घातु प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत

लेखा मद	01-04-2010 को अग्रशेष		समवायि के दौरान लेनेदेने		31-03-2011 को अंतशेष	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग						
डॉ. सैयद मेहताब बेगम को शोध सम्मान	--	56,477.00	1,33,414.00	67,972.00	8,965.00	--
डॉ. ज्योति कक्कड़ को शोध सम्मान	--	1,30,688.00	12,89,579.00	18,34,791.00	--	6,75,900.00
डॉ. तनुजा सिंह को शोध सम्मान	--	2,79,032.00	8,37,292.00	11,17,674.00	--	5,59,414.00
एमरेटस शोधवृत्ति : डॉ. जी एस एल देवड़ा	--	6,352.00	0.00	0.00	--	6,352.00
विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने के लिये विज्ञान के मेधावी छात्रों के लिये शोध फेलोशिप	--	2,08,546.00	15,86,867.00	26,67,261.00	--	12,88,940.00
एमरेटस शोधवृत्ति : प्रो. एम. फहीम	--	90,000.00	1,40,000.00	0.00	50,000.00	--
एमरेटस शोधवृत्ति : प्रो. एम के अग्रवाल	--	--	34,193.00	0.00	34,193.00	--
विकलांगों हेतु उच्च शिक्षा, डॉ. एस आर मित्तल	--	3,58,336.00	0.00	0.00	--	3,58,336.00
थर्ड वर्ल्ड सामाजिक आर्थिक अध्ययन संस्थान	--	70,919.00	0.00	0.00	--	70,919.00
मानवाधिकार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, राजनीति विज्ञान विभाग	1,62,916.00	--	0.00	1,62,916.00	--	--
जामिया की विजिटिंग फैकल्टी	1,00,000.00	--	1,40,000.00	1,00,000.00	1,40,000.00	--
वि.अ.आयोग - नेट (राष्ट्रीय यात्रा परीक्षा)	--	21,02,665.00	59,98,855.00	51,79,807.00	--	12,83,617.00
टैप्स पाठ्यक्रम संगठन	--	1,00,000.00	0.00	0.00	--	1,00,000.00
कोचिंग, अनुसूचित जाति / जनजाति छात्र नेट	--	3,85,879.00	0.00	14,121.00	--	4,00,000.00
तीसरी दुनिया सामाजिक आर्थिक अध्ययन संस्थान (तृतीय चरण)	--	73,890.00	0.00	0.00	--	73,890.00
मौजूदा एवं नये प्रबंधन विभाग को सुदृढ़ बनाने हेतु विकास सहायता	--	2,77,743.00	0.00	0.00	--	2,77,743.00
सत्र "क्षेत्र अध्ययनों का स्नातकोत्तर आंतरिक अध्ययन शिक्षण विभाग में रूपांतरण", ए टी डब्ल्यू एस	--	1,10,140.00	0.00	0.00	--	1,10,140.00
भारतीय सोशल साइंस काउंसिल का 32वां सत्र (भारतीय समाज विज्ञान अकादेमी) रक्षा जलील	1,04,528.00	--	3,150.00	3,05,700.00	--	1,98,022.00
जगद्विषय/अभिप्रेरण कार्यक्रमाला-"महिला प्रबंधकों के लिये सामर्थ्य निर्माण", डॉ. बुलबुल धर	--	1,21,516.00	0.00	0.00	--	1,21,516.00
विशेष ग्रीष्मकालीन स्कूल का आयोजन - 2008	--	2,38,229.00	2,38,229.00	0.00	--	--
डॉ. जमाल मो. मूसा को यात्रा अनुदान	67,357.00	--	0.00	0.00	67,357.00	--
मानवाकार एवं सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत संगोष्ठी भूमंडलीकरण शिक्षा, (ए एस सी)	40,000.00	--	0.00	40,000.00	--	--
डॉ. सूजाता एरवर्य चौमा को यात्रा अनुदान	41,545.00	--	0.00	41,545.00	--	--
स्नातक स्तर पर शोध की संस्कृति को प्रोत्साहित करना और आगे बढ़ाना, विद्युत इंजीनियरी विभाग	--	5,00,000.00	3,70,000.00	0.00	--	1,30,000.00
स्नातक स्तर पर शोध की संस्कृति को प्रोत्साहित करना और आगे बढ़ाना, जैव प्रौद्योगिकी विभाग	--	43,125.00	0.00	0.00	--	43,125.00

हस्ताक्षर
(अय्युल्लाह)

हस्ताक्षर
(जफरउल्लाह खान)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो. शाहिद अशरफ)
वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो. एस एम साबिर)
कुलसचिव

लेखा मद	01-04-2010 को अंशशेष		समयावधि के दौरान लेनेदेने		31-03-2011 को अंशशेष	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
मानवविकास एवं शिक्षा के अंतर्गत संगोष्ठी (राजनीति विज्ञान)						
अबुल हलीम	-	1,60,000.00	1,98,415.00	38,415.00	-	-
डॉ. विश्वजीत दास	-	1,079.00	0.00	0.00	-	1,079.00
डॉ. ए. के. कुमार	-	819.00	0.00	0.00	-	819.00
डॉ. कमर गफ्फार	-	13,072.00	0.00	0.00	-	13,072.00
डॉ. मुस्लिम खान	-	142.00	0.00	0.00	-	142.00
अर्चना प्रसाद	-	50,000.00	0.00	0.00	-	50,000.00
बृहत शोध परियोजना - विनोद पाटिया	14,897.00	-	1,08,110.00	2,30,720.00	-	1,07,713.00
रेखावत मसीह	26,075.00	-	41,125.00	67,200.00	-	-
बृहत शोध परियोजना - कविता चौहान	-	78,926.00	0.00	0.00	-	78,926.00
बृहत शोध परियोजना - निनी एस थॉमस	-	3,29,447.00	1,59,623.00	0.00	-	1,69,824.00
बृहत शोध परियोजना - के. डी. कपूर	-	1,24,412.00	1,26,423.00	0.00	2,011.00	-
डॉ. अंजना आनंद सेन	34,884.00	-	0.00	0.00	34,884.00	-
मो. हसन शाहिद	14,806.00	-	1,02,589.00	1,26,800.00	-	9,405.00
जस्ती अन्नाहम	-	1,50,222.00	3,07,774.00	1,83,152.00	-	25,600.00
डॉ. तुकमान अहमद खान	-	2,00,628.00	2,63,449.00	2,05,720.00	-	1,42,899.00
डॉ. अनवर अली	-	1,894.00	3,88,357.00	3,94,160.00	-	7,697.00
डॉ. मो. इरफान कुरैशी	13,704.00	-	1,30,209.00	2,45,730.00	-	1,01,817.00
अख्तर आदिल शायमी	1,35,875.00	-	1,03,096.00	2,56,974.00	-	18,003.00
बृहत शोध परियोजना - मोहम्मद अली खान	-	1,57,127.00	1,38,973.00	0.00	-	18,154.00
बृहत शोध परियोजना - तन्वीम फतीमा	-	3,70,851.00	3,28,303.00	28,917.00	-	71,465.00
बृहत शोध परियोजना - सोमू चंद ठाकूर	-	95,878.00	1,91,771.00	2,50,607.00	-	1,54,714.00
यामला ए. नारयण	-	1,83,392.00	2,09,470.00	40,995.00	-	14,917.00
डॉ. पी. के. गुप्ता	2,957.00	-	0.00	0.00	2,957.00	-
बृहत शोध परियोजना - जुबैदा अंसारी	-	24,199.00	27,210.00	5,80,200.00	-	5,77,189.00
बृहत शोध परियोजना - आरिफ अली	-	2,30,154.00	3,16,354.00	1,56,156.00	-	69,956.00
बृहत शोध परियोजना - सैयद अख्तर	-	4,65,748.00	2,95,145.00	0.00	-	1,70,603.00
बृहत शोध परियोजना - मीशु गुप्ता	-	47,263.00	42,165.00	0.00	-	5,098.00
बृहत शोध परियोजना - ईंदु बीन्ना	-	52,903.00	54,280.00	0.00	1,377.00	-
बृहत शोध परियोजना - आर के ब्रोजन सिंह	-	24,738.00	24,738.00	0.00	-	-
बृहत शोध परियोजना - अमन जयराजपुरी	-	3,28,519.00	3,61,000.00	42,720.00	-	10,239.00
बृहत शोध परियोजना - शाहिदा खातुन	-	55,418.00	84,045.00	0.00	28,627.00	-
बृहत शोध परियोजना - मदन मोहन	-	8,34,361.00	28,207.00	0.00	-	8,06,154.00
बृहत शोध परियोजना - प्रोटीन फोर्डिंग : बुड द हैड/पसिड डियेचर्ड..., डॉ. फैजान अहमद	-	2,39,210.00	0.00	0.00	-	2,39,210.00
बृहत शोध परियोजना - डॉ. अरुण सिंह	-	3,27,384.00	2,67,592.00	7,096.00	-	66,888.00
बृहत शोध परियोजना - डॉ. सईदुरीन	-	5,01,723.00	2,84,803.00	0.00	-	2,16,920.00
बृहत शोध परियोजना - डॉ. सईदुरीन	-	1,42,983.00	1,32,152.00	0.00	-	10,831.00
हस्ताक्षर			हस्ताक्षर		हस्ताक्षर	
(अयादुल्लाह)			(प्रो. शाहिद अशरफ)		(प्रो. एस एम सजिद)	
सहायक कुलपति (लेखा)			वित्त अधिकारी		कुलपति	

लेखा मद	01-04-2010 को अग्रशेष		समवायि के दौरान लेनेदेने		31-03-2011 को अंतशेष	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
वृहत शोध परियोजना - डॉ. मरियम सरदार	--	51,180.00	75,738.00	0.00	24,558.00	--
वृहत शोध परियोजना - मो. मुस्सिर हुसैन	--	--	19,700.00	51,750.00	--	32,050.00
वृहत शोध परियोजना - डॉ. नसीमुल हौवा, रसायनशास्त्र विभाग	--	72,000.00	61,186.00	0.00	--	10,814.00
वृहत शोध परियोजना - प्रो. किरुवर सालीम, रसायनशास्त्र विभाग	--	70,000.00	60,000.00	0.00	--	10,000.00
डॉ. सबीहा हुसैन	--	4,10,200.00	2,68,161.00	0.00	--	1,42,039.00
डॉ. एम. एजाज हुसैन	--	6,02,800.00	5,35,966.00	0.00	--	66,834.00
डॉ. मोहम्मद हुसैन	--	7,52,800.00	5,70,921.00	0.00	--	1,81,879.00
डॉ. मसूद अहसान सिद्दीकी	--	4,28,800.00	1,36,390.00	0.00	--	2,92,410.00
डॉ. शहनाज परवीन	--	5,94,800.00	1,28,396.00	0.00	--	4,66,404.00
डॉ. एस. एम. मुस्तफा	--	4,80,000.00	4,03,811.00	28,800.00	--	1,04,989.00
डॉ. एस. ए. योजना (तृतीय चरण), समाजकार्य विभाग	--	--	0.00	2,78,000.00	--	2,78,000.00
वृहत शोध परियोजना - मोहम्मद बदरुल हस्नाम	--	--	9,233.00	8,63,500.00	--	8,54,267.00
वृहत शोध परियोजना - शफीक अहमद अंसारी	--	--	1,900.00	7,53,800.00	--	7,51,900.00
वृहत शोध परियोजना - डॉ. सुनात	--	--	0.00	1,25,000.00	--	1,25,000.00
वृहत शोध परियोजना - डॉ. मेरी ताहिर	--	--	0.00	6,99,000.00	--	6,99,000.00
वृहत शोध परियोजना - डॉ. अज्जल कयुम अंसारी	--	--	0.00	7,16,800.00	--	7,16,800.00
वृहत शोध परियोजना - अज्जह माजिद सिद्दीकी	--	--	0.00	6,37,800.00	--	6,37,800.00
वृहत शोध परियोजना - डॉ. रंजन पटेल	--	--	19,770.00	7,24,000.00	--	7,04,230.00
वृहत शोध परियोजना - काजी मो. रिजवानुल हक, बायोसाइंस विभाग	--	--	0.00	4,58,700.00	--	4,58,700.00
वृहत शोध परियोजना - नदीम अहमद	--	--	0.00	87,500.00	--	87,500.00
वृहत शोध परियोजना - शहनाज अंजुम	--	--	0.00	30,000.00	--	30,000.00
वृहत शोध परियोजना - सैफ सिद्दीकी	--	--	0.00	3,80,200.00	--	3,80,200.00
डॉ. एस.ए. योजना (तृतीय चरण), समाजकार्य विभाग	--	34,957.00	0.00	0.00	--	34,957.00
डॉ. एस.ए. योजना (तृतीय चरण), से. सी. ए. एस.-1 (01.04.201 से 31.03.2015) समाजकार्य विभाग	--	--	4,32,636.00	33,50,000.00	--	29,17,364.00
फिरोज अहमद	--	10,000.00	0.00	0.00	--	10,000.00
हरि विष्णु गौतम	--	10,000.00	0.00	0.00	--	10,000.00
जॉ. शबीर अहमद	--	7,472.00	7,472.00	0.00	--	--
सामाजिक बहिष्कार एवं स्वीकार अध्ययन केंद्र (2007-08 से 31.03.2012)	--	4,56,670.00	6,01,423.00	0.00	1,44,753.00	--
एकैडमिक स्टाफ कोलेज 11वां प्लान	53,16,219.00	--	1,16,57,006.00	1,02,38,229.00	67,34,996.00	--
राष्ट्रव्यापी कक्षाएं (एम. सी. आर. सी.)	3,47,900.00	--	13,49,557.00	18,00,000.00	--	1,02,543.00
अनुसूची योग	64,23,663.00	1,43,27,708.00	3,18,26,223.00	3,56,10,428.00	72,74,678.00	1,89,62,928.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय						
धर्मल इंजीनियरी प्रयोगशाला एवं उत्पादन का आधुनिकीकरण	--	46,712.00	0.00	0.00	--	46,712.00
प्रबंधन में उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन/कार्यशाला	--	15,649.00	0.00	0.00	--	15,649.00
सामुदायिक पोलिटेक्निक योजना	--	10,25,000.00	0.00	0.00	--	10,25,000.00

हस्ताक्षर

(अयायुल्लाह)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर

(जफरउल्लाह खान)

उप वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो. शाहिद अयरफ)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो. एस. एम. साजिद)

कुलसचिव

लेखा मद	01-04-2010 को अवशेष		समयवधि के दौरान लेनदेन		31-03-2011 को अवशेष	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
एस. आर. सी. जनसंख्या शिक्षा परियोजना	1,75,934.00	—	0.00	0.00	1,75,934.00	—
एस. आर. सी. नियमित बजट	87,11,123.00	—	95,71,318.00	53,95,546.00	1,28,86,895.00	—
सर्वशिक्षा अभियान ए एस सी (कार्यवाला)	—	46,439.00	0.00	0.00	—	46,439.00
एम. आर. सी.-पी डी ई परिलक्षित	51,230.00	—	0.00	0.00	—	—
डाइट के लिए सामर्थ्य निर्माण कार्यक्रम	—	1,32,899.00	0.00	0.00	—	—
जन शिक्षण संस्थान देवरिया एवं मंजरा का बाह्य मूल्यांकन (एन. यू. खान)	7,815.00	—	1,14,159.00	1,80,000.00	—	1,32,899.00
जन शिक्षण संस्थान का मूल्यांकन (जे. एस. एस.) एस आर सी-सीपी धर	—	1,17,528.00	1,66,878.00	49,350.00	—	58,026.00
विविध अनुदान	—	28,87,210.00	28,87,210.00	0.00	—	—
एन एस ई आई सी टी, ई आर पी मिशन परियोजना	—	—	953,16.00	150,000.00	—	—
राजस्थान राज्य में एस आर सी कोन्द्र की स्थापना हेतु गैर सरकारी संस्थानों की साध्यता अध्ययन	—	—	39,450.00	39,450.00	—	140,4684.00
अनुसूची योग	89,46,102.00	42,71,437.00	1,28,74,331.00	71,64,346.00	1,31,14,059.00	27,29,409.00
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डी एस टी)	—	—	—	—	—	—
वाडासे जून के माध्यम से सीबेटे के परिवहन व्यवहार का अध्ययन : डा.सिराजुद्दीन	—	10,550.00	10,550.00	0.00	—	—
एसईआरसी फास्ट ट्रेक परियोजना: रटडी ऑफ बायोमॉलिक्यूलस इन एक्वास/मिक्सड सोल्वेंट : डॉ.अजित कुमार	—	—	—	—	—	—
नैनो	—	1,24,351.00	0.00	0.00	—	1,24,351.00
शम्भूदिलसिस ऑफ पायरोफोस्फेट ड्यूरींग पॉली-यूक्लिथोयड सिंथेसिस-डॉ.निकहत मंजूर	—	2,084.00	0.00	0.00	—	2,084.00
इलेक्ट्रॉन एम्बोपैस रटडीजएस्ट्रोफिकल इंटरस्ट्रस: डा.मो.मुबसिर हुसैन	63,881.00	—	0.00	0.00	63,881.00	—
"माइक्रोमल्टन सिंथेसिस..... नैनोसाइड ऑक्साइड्स"- लौकरी अहमद	—	8,755.00	2,18,755.00	2,10,000.00	—	—
एस ई आर सी फास्ट ट्रेक योजना-"प्रकृवाले एंड बायोफिकल.....हीट" डॉ. मोहम्मद इमतिआज हुसैन	—	2,30,836.00	2,88,437.00	0.00	57,601.00	—
एस ई आर सी फास्ट ट्रेक योजना-"क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन..." डॉ.शमा परवीन	7,871.00	—	0.00	0.00	7,871.00	—
एस ई आर सी फास्ट ट्रेक परियोजना- डॉ. फरीदा अहतर	—	80,550.00	2,54,339.00	2,00,000.00	—	26,211.00
एस ई आर सी फास्ट ट्रेक परियोजना-"सिंक्रोनाइजेशनसिस्टम्स" डॉ.आर.के.ब्रोजन सिंह	—	56,858.00	0.00	0.00	—	56,858.00
एस ई आर सी फास्ट ट्रेक परियोजना-"प्रैपिंग द स्ट्रेय मलौडी-टी ऑफ एस एस" डॉ.मो.इरफान कुरेशी	—	—	—	—	—	—
एस ई आर सी फास्ट ट्रेक परियोजना-"डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ...." डॉ.उफना रिज़ा	—	58,154.00	4,67,122.00	3,00,000.00	1,08,968.00	—
एस ई आर सी फास्ट ट्रेक परियोजना-"सिंथेसिस कैल्कुराजेशन...." डॉ. हुसैन परवीन	—	58,088.00	1,58,096.00	1,55,000.00	—	54,992.00
एस ई आर सी फास्ट ट्रेक परियोजना-"सिंथेसिस कैल्कुराजेशन...." डॉ. हुसैन परवीन	—	2,55,281.00	8,05,281.00	5,50,000.00	—	—

हस्ताक्षर

(अध्यक्ष)

हस्ताक्षर

(अध्यक्ष)

सहायक कुलपति (लेखा)

हस्ताक्षर

(अध्यक्ष)

उप वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो.राशिद अमरक)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो.एस एम साजिद)

कुलपति

लेखा मद	01-04-2010 को अन्तर्गत		समावधि के दौरान लेखन		31-03-2011 को अन्तर्गत	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
एस ई आर सी फास्ट ट्रैक परियोजना- "सिथेसिस कैंक्ट्राइजेशन एंड सिटीटीफिकेशन" डॉ. रही सुदीन, रसायन विभाग	-	5,21,923.00	3,01,378.00	0.00	-	2,20,545.00
डॉ. मोहम्मद सामी	-	8,909.00	0.00	0.00	-	8,909.00
डॉ. एस ए अब्बास को यात्रा अनुदान	-	36,848.00	36,848.00	0.00	-	-
डॉ. सिरजुदीन अहमद को यात्रा अनुदान	-	99,750.00	99,750.00	0.00	-	-
पीपुल्स समाजविज्ञान कार्यशाला	1,77,505.00	-	0.00	1,77,505.00	-	-
डी.बी.टी. जेनेटिक इंजीनियरिंग.....इंफुवैट ऑफ मरकरी टॉलरेंस, प्रो.आरिफ अली	27,029.00	-	0.00	0.00	27,029.00	-
प्रथम कार्यक्रम : रसायनशास्त्र विभाग	-	47,000.00	0.00	0.00	-	47,000.00
राष्ट्रीय कार्यशाला, "सॉफ्ट कंयूटिंग, मशीन लॉगिंग एंड बायोइन्फोमेटिक्स एप्लीकेशन" प्रो.एस. आई. एहसान	-	-	0.00	0.00	-	-
एम.एस.सी. जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा कार्यक्रम: समन्वयक-प्रो.आरिफ अली	-	1,010.00	0.00	0.00	-	1,010.00
स्वेच्छास्वीकृतिक इंजीनियरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर.....इलेक्ट्रोकेमिकल इंजिन: डॉ.एस.एस. इस्लाम	3,82,413.00	-	0.00	0.00	3,82,413.00	-
विशेष सहायता आवासीय परियोजना: इन विवो एंड इन विट्रो पैराडॉक्स ऑफ दे कामेन, इफेक्ट ऑफ मिथीलाइजेशन - प्रो. फैजान	-	18,549.00	0.00	0.00	-	18,549.00
बायोइन्फोमेटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी(बी आई एफ) कम्प्यूटर विज्ञान विभाग	-	1,86,869.00	1,86,869.00	0.00	-	-
रचना शोधवृत्ति - प्रो.सुधेश्वर राय चौधरी	-	5,27,314.00	51,323.00	14,000.00	-	4,89,991.00
पार्टिकल फिजिक्स मॉडल्स ऑफ इन्फ्लेशन.....कॉन्सट्रेंट्स" प्रो.एस.सामी	-	3,97,661.00	3,97,661.00	0.00	-	-
अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी "आई टी इंडस्ट्री इन इंडिया: प्रोसेक्ट्स रेडोलेक्टेस एंड पॉलिमिड", एम एस भट	-	19,450.00	0.00	0.00	-	19,450.00
वित्तिय सहायता शोध परियोजना- "इंटरैक्शन ऑफ मैलाथियोन..... एनालाइजिंग बैरिथेबिलिटीज" प्रो.तस्नीम	-	5,000.00	5,000.00	0.00	-	-
"पेर ऑफोलेजी स्टडीज ऑफ पोर्स ड्राई गैस इन PPM V To Ppb V", डा. टी. इस्लाम	-	1,09,606.00	4,09,606.00	3,00,000.00	-	-
"अंडरस्टैंडिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कैमिकल..... पॉलीमिराइजेशन" डॉ.एस.ए. जयराजपुरी	7,590.00	-	3,91,429.00	4,00,000.00	-	981.00
मॉलीब्डेनम इन्फ्यूजन ऑफ पीन लीन इन कोलेक्टेल्स..... इंडिया" डॉ.एस.मुशाहिद ए. रिव्वी	-	1,30,404.00	1,08,533.00	0.00	-	21,871.00
डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजेल्स बेस्ड स्मार्ट वॉर्डेड ड्रेसिंग " - डॉ. साइका इकराम	-	1,96,611.00	3,43,431.00	3,13,400.00	-	1,66,580.00
डॉ. फजमीया खातून- डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजेन बेस्ड स्मार्ट वॉर्डेड ड्रेसिंग्स"	-	13,616.00	1,02,167.00	0.00	88,551.00	-
"क्वांटिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ जी-प्रोटीन जीन..... कैंक्ट्राइजेशन" डॉ.शमा परवीन	-	12,500.00	45,710.00	0.00	33,210.00	-
	-	20,696.00	5,99,246.00	5,77,000.00	1,550.00	-

हस्ताक्षर
(अय्युल्लाह)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर
(अय्युल्लाह खान)

उप वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो.शाहिद अराफ)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो.एस एम साकिर)

कुलसचिव

लेखा मद	01-04-2010 को अवशेष		समाप्ति के दौरान लेखे		31-03-2011 को अवशेष	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
"ब्रेन वर्ल्ड कॉन्सोलिडी विवेकेंस... सिगमा मॉडल" डॉ. मो. सामी	—	3,69,955.00	0.00	0.00	—	3,69,955.00
बाँयकाट फेलोशिप - डॉ. निकहत मंजूर	—	—	1,26,968.00	1,26,968.00	—	—
प्रथम कार्यक्रम - सिविल इंजीनियरी विभाग	—	55,00,000.00	0.00	0.00	—	55,00,000.00
"आइडीटीकेशन ऑफ हेरिटेज बी वाइस.... डॉ. सैयद नकवी कानूमी (शिप युगार ससरी)	—	61,06,733.00	46,14,950.00	0.00	—	14,91,783.00
फेनिकेशन ऑफ पीओलेक्ट्रिक एंड पाइरोलेक्ट्रिक सेमिनार... डॉ. अरुण सिंह, भौतिकी विभाग	—	9,60,674.00	49,254.00	0.00	—	9,11,420.00
"मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ पी-टेन जीन इन ब्रेस्ट कैंसर सेल्ल्स- ज़किया कानिम	—	3,02,070.00	3,71,474.00	4,00,000.00	—	3,30,596.00
दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम- "एलीकेशन ऑफ जीएस्टी..." डॉ. एम. ए. सिद्दिकी	—	2,59,437.00	2,59,437.00	0.00	—	—
मॉडल ऑफ डॉक एनर्जी : थियरी एंड ऑब्जर्वेंस- डॉ. सामी सैद्धांतिक भौतिकी केन्द्र	1,20,000.00	—	89,865.00	7,00,000.00	—	4,90,135.00
ऑरिजन ऑफ डॉक एनर्जी डॉक मेटर एंड इन्फ्लेशन (भारत-जापान) डॉ. सामी, सी टी पी	—	—	1,87,371.00	1,90,000.00	—	2,629.00
फलाई ऐस के इस्तेमाल हेतु तकनीक फोरकार्टि एवं मूल्यांकन-डॉ. आबिद हलीम	—	—	1,37,538.00	8,40,000.00	—	7,02,462.00
प्रथम कार्यक्रम - बायोसाइंस विभाग	—	—	25,33,559.00	41,75,000.00	—	16,41,441.00
मैट्रिकोड वेक्टर ऑफ जैवनीय इंजीनियरीज बाइरस... डॉ. बीना बागी दास	—	—	1,57,928.00	3,10,500.00	—	1,52,574.00
डॉ. अरुण सिंह (भौतिकी विभाग) को बाँयकाट फेलोशिप के अंतर्गत वित्तिय सहायता	—	—	15,70,000.00	15,70,000.00	—	—
टेक्नीकल इंटरवेंशन के द्वारा ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण एवं आर्थिक उत्थान ...डॉ. शकुन्ता जमाल	—	—	2,27,597.00	6,70,000.00	—	4,42,403.00
31 जनवरी से 20 फरवरी 2011 तक जामिया मि.इ. में मेन स्कूल थियोरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स	—	—	7,44,969.00	13,50,000.00	—	6,05,031.00
इन्वेस्टीगेशन ऑफ फोटो... वैपेर सैसिंग - प्रो. एस एस इस्लाम	—	—	13,26,263.00	28,00,000.00	—	14,73,737.00
"कॉन्सोलिडी एंड एस्ट्रॉफिजिक्स" परियोजना - डॉ. अंजना आनंद सेन	—	—	0.00	13,50,000.00	—	13,50,000.00
"डिजलपैट ऑफ वायरलेस सैसिंग... ओल्ड एज होम्स" परियोजना हेतु वित्तिय सहायता डॉ. शाहीदा खानम	—	—	0.00	11,00,000.00	—	11,00,000.00
प्रथम कार्यक्रम - अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी विभाग	—	—	6,92,292.00	35,00,000.00	—	28,07,708.00
अनुसूची योग	7,86,289.00	1,67,38,092.00	1,83,70,994.00	2,22,79,373.00	7,71,074.00	2,06,31,256.00

हस्ताक्षर

(अध्यापक)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर

(अध्यापक)

उप वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रशासिक अधिकारी)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो.एस एम साबिक)

कुलसचिव

लेखा मद	01-04-2010 को अधशेष		समयावधि के दौरान लेवने		31-03-2011 को अंतशेष	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
आई सी एस एस आर						
संगोष्ठी- अस्तिता एवं भौगोलिक राजनीति" ' प्रो.मुशीरूल हसन						
संगोष्ठी- "एक्सपीरिएंस ऑफ यू एन इन रीसेंट पीस मैनेजमेंट लेसन फोर द थर्ड वर्ल्ड	9,000.00	--	0.00	9,000.00	--	--
संगोष्ठी के लिए सहायता: "42वां राष्ट्रीय सम्मेलन.... विश्व"-एम जी हुसैन	--	1,854.00	0.00	0.00	--	1,854.00
संगोष्ठी- "भारत में मुस्लिम पिछड़पन..... रिपोर्ट प्रो.एम. मुस्तबा खान	--	1,074.00	0.00	0.00	--	1,074.00
अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी- भारत में सूचना उद्योग: संभावनाएं टेरोसेक्ट एवं नीतियां	5,000.00	1,90,000.00	0.00	0.00	--	1,90,000.00
संगोष्ठी - हार्शिये के लोगों का सशक्तीकरण: दलित एवं अल्पसंख्यक, डॉ. एम. शफीक	--	47,500.00	0.00	5,000.00	--	--
संगोष्ठी- "सीमा मुक्त एशिया: इतिहास, ज्ञातव्यता एवं राजनीति पर पुनर्विचार	7,894.00	--	0.00	0.00	--	47,500.00
संगोष्ठी- "9/11 के बाद की दुनिया और ईरान"	3,449.00	--	0.00	0.00	7,894.00	--
"हार्शियों पर महिलाएं- समस्याओं की पहचान एवं निराकरण"	2,490.00	--	0.00	0.00	3,449.00	--
अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी- "मीडिया गवर्नेंस के सीमांत" (संस्कृति एवं मीडिया गवर्नेंस केन्द्र)	5,000.00	--	0.00	0.00	2,490.00	--
संगोष्ठी : "व्यष्टि-वित्त : उपलब्धियां, संभावनाएं एवं चुनौतियां"	5,000.00	--	0.00	0.00	5,000.00	--
प्रशासन एवं सुरक्षा : भारत का उत्तरपूर्व एवं बंगलादेश" - डॉ.संजय हजारीका	15,042.00	--	0.00	15,042.00	--	--
क्षेत्रीय व्यापारिक समझौतों की गति एवं विश्व व्यापार संगठन : विकासशील देशों का परिप्रेक्ष्य-1	10,973.00	--	0.00	10,973.00	--	--
अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी: "तत्कालीन समयों में भारत ईरान के संबंध (1979 से 2009)	5,000.00	--	0.00	0.00	--	--
"धार्मिक अस्मिता..... मुस्लिम अल्पसंख्यक"- डॉ अनवर आलम	3,750.00	--	0.00	0.00	5,000.00	--
"आक्रोश एवं हिंसा : सामाजिक बेहतरी के लिये चुनौतियां	10,000.00	--	0.00	0.00	3,750.00	--
अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी: "सामाजिक बहिष्कार की समझ: सर्वेक्षणीय एशिया"	--	2,318.00	0.00	0.00	10,000.00	--
अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी: "प्रशासन एवं विविधता मीडिया निकाय से जुटना	--	45,000.00	49,625.00	0.00	--	2,318.00
"हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच सुरक्षा-असुरक्षा : डॉ एन हसनैन	--	361.00	0.00	0.00	4,625.00	--
"अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बेसलाइन सर्वेक्षण(2)"- प्रो.अजरा रुझुक एवं प्रो. मुशीरूल हसन	--	1,27,825.00	1,27,825.00	0.00	--	361.00
"ए स्टडी ऑफ आईसीटी इन ग्री सर्विस टीचर..... टीचर्स", डॉ जेस्सी अब्राहम"	--	96,228.00	1,20,299.00	0.00	--	--
					24,071.00	--

हस्ताक्षर
(अयातुल्लाह)हस्ताक्षर
(अफजल्लाह खान)
उप वित्त अधिकारीहस्ताक्षर
(प्रो.शाहिद अशरफ)
वित्त अधिकारीहस्ताक्षर
(प्रो.एस एम साजिद)
कुलसचिव

सहायक कुलसचिव (लेखा)

लेखा मद	01-04-2010 को अवशेष		समावधि के दौरान लेनदेन		31-03-2011 को अंतर्शेष	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
शिक्षा एवं विकास के प्रस्तावनों में मददों की भूमिका ... प्रो.एम. हरिनाथक	—	55,862.00	60,000.00	1,44,000.00	—	1,39,862.00
भारत अफ्रीकी संबंध - चीन के लिए इंस्टीट्यूट्स	—	—	41,880.00	1,44,000.00	—	1,02,120.00
साइकोलॉजिकल कैपिलस एंड इमप्लाइड परफॉर्मेंस : एक्सप्लोरेशन ऑफ पोजिटिव साइकोलॉजी एंड वर्क	—	—	1,34,087.00	1,40,000.00	—	5,913.00
इन्वेस्ट ऑफ इथिपिक अपरहिंग इस्तेमाली ऑन आइडेंटि डिक्लपमेंट एंड एलिमेंशन इन नार्थईस्ट - प्रो. एम. जी. हुसैन	—	—	1,25,791.00	3,12,000.00	—	1,86,209.00
इक्रेन्ट ऑफ सी बी टी ऑन टेस्ट एनैलाइसी एकादमिक परफॉर्मेंस- एमंग हाई स्कूल स्टूडेंट	—	—	1,34,500.00	1,34,000.00	500.00	—
जनजाति सशक्तीकरण में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका- गुजरात के जूनिता गैर सरकारी संगठनों का अध्ययन	—	—	22,658.00	1,58,000.00	—	1,35,342.00
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में समाज की सहभागिता हेतु स्ट्रेटजीज का मूल्यांकन	—	—	2,10,102.00	2,81,000.00	—	70,898.00
अनुसूची योग	82,598.00	5,68,022.00	10,26,767.00	13,53,015.00	71,779.00	8,83,451.00
मध्य एशिया एवं राजनीति पर कार्यशाला एवं संगोष्ठी	4,102.00	—	0.00	0.00	4,102.00	—
धार्मिक अस्तिवाजों पर कार्यशाला एवं संगोष्ठी	50,860.00	—	0.00	0.00	50,860.00	—
संगोष्ठी- "आधुनिक संस्कृति मध्य एशिया" (ए टी डब्ल्यू एस)	5,001.00	—	0.00	0.00	5,001.00	—
संगोष्ठी- "दर्श, संस्कृति एवं समाज" उत्तर भारत (प्रो.यूसीरुल हसन)	4,925.00	—	0.00	0.00	4,925.00	—
कार्यशाला "प्रतिपक्षीय लेखक अरविन्द, विचारधारा एवं सामाजिक आधार" : जवाहरलाल नेहरू अध्ययन	—	—	—	—	—	—
संगोष्ठी "भारत, मध्य एशिया एवं टर्की वर्तमान वास्तविकताएं" नासिर रज़ा खान (ए टी डब्ल्यू एस)	—	3,472.00	0.00	0.00	—	3,472.00
1857 के विद्रोह पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन रसद जलील	5,000.00	3,633.00	0.00	0.00	—	3,633.00
आई सी एच आर- संगोष्ठी "मध्य एवं पश्चिम एशिया में प्रमुख शक्तियां एवं भारत अवार्ड" 21-23	3,875.00	—	0.00	5,000.00	—	—
अनुसूची योग	73,563.00	7,105.00	0.00	0.00	3,875.00	—
आई सी सी आर	—	—	—	—	68,563.00	7,105.00
सम्मेलन '1857 के विद्रोह का स्मरण' के विदेशी प्रतिभागियों के लिये यात्रा अनुपन	—	38,917.00	0.00	0.00	—	38,917.00
अनुसूची योग	0.00	38,917.00	0.00	0.00	0.00	38,917.00

हस्ताक्षर

(अनादुरलाह)

समाधिक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर

(अनादुरलाह खान)

उप वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो.शहीद अमरक)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो.एस एस साजिद)

कुलसचिव

लेखा मद	01-04-2010 को अवधि		समयवधि के दौरान लेखन		31-03-2011 को अंतर्दोष	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
सी एस आई आर						
यात्रा अनुदान- तस्नीम फारिमा	-	-	21,508.00	21,508.00	-	-
यात्रा अनुदान - तारीकुल इस्लाम	-	10,274.00	0.00	0.00	-	10,274.00
स्कीम सिधिसि, कोरियाइजेशन कपाउंड विर डीपन, डाए आजम	-	9,593.00	0.00	0.00	-	9,593.00
प्रोटीन फोस्फोरस क-फोस्फोरस एंड थर्मोडायनामिक स्टडीज : प्रो.फैजान अहमद	1,710.00	-	0.00	0.00	1,710.00	-
डिजाइन एंड सिधिसि..... हेट्रोसाइक्लिक मॉलीक्यूल्स" डॉ. अमीर आजम	-	20,430.00	4,18,400.00	4,18,270.00	-	20,300.00
इन्वेस्टीगेशन व इन्वैलेंट ऑफ अर (जीन मैथिलएमिनस) प्रो.फैजान अहमद	-	8,46,259.00	6,92,032.00	3,96,001.00	-	5,50,228.00
स्कीम ऑन मॉलिक्यूलसडॉ. मो. हुसैन	4-	-	0.00	7,84,167.00	-	7,84,167.00
सोल्वोमैल सिधिसि एंड स्ट्रक्चरल कोरियाइजेशन ऑफ जेड. एस. सी..... डॉ. तोकर अहमद	-	-	0.00	6,66,000.00	-	6,66,000.00
अनुसूची योग	1,710.00	8,86,556.00	11,31,940.00	22,85,946.00	1,710.00	20,40,562.00
विशिष्ट एजेंसियां						
विदेश मंत्रालय						
आर ए एवं इस्लामी विचार एवं संस्कृति को भारत का योगदान	-	959.00	0.00	0.00	-	959.00
राष्ट्रीय सम्मेलन "परिचय एशिया के संदर्भ में भारत का संदर्भ21-22 अप्रैल 2006 (सी डब्ल्यू ए एस)	-	3,000.00	0.00	0.00	-	3,000.00
अंतराष्ट्रीय संगोष्ठी- " अबु रेहान अलबहली24-26 मार्च	1,00,000.00	-	0.00	1,00,000.00	-	-
उप अनुसूची योग	1,00,000.00	3,959.00	0.00	1,00,000.00	0.00	3,959.00
पर्यावरण एवं जल मंत्रालय						
संगोष्ठी "राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (नेप) 2006, उद्देश्य..... छुटे हुये संस्" शोध परियोजना "डिबेलमेट ऑफ ल्यूमिनीन.....बोडोज" आरिफ अली	16,000.00	-	0.00	0.00	16,000.00	-
आर्थिक मूल्यांकन पर कार्यशाला....."राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूक अभियान 2007-08 के अंतर्गत	9,398.00	-	1,33,763.00	1,50,000.00	-	6,839.00
सेल्यूल/नॉलीक्यूलर मैक्रोफिस इन्वैलेंट फोर आरसेनिक डिटेक्सीफिकेशन एंड ..	-	8,000.00	0.00	0.00	-	8,000.00
जिला बलिवा(उ.प्र.) के भूजल में आरसेनिक का अनुवीक्षण..... डॉ.मुरान अली, रसायनशास्त्र विभाग	-	6,35,817.00	8,25,403.00	1,84,000.00	5,586.00	-
उप अनुसूची योग	25,398.00	13,54,192.00	17,93,781.00	6,76,000.00	21,586.00	2,32,599.00

हस्ताक्षर
(अय्युबुल्लाह)
सहायक कुलसचिव (सेवा)

हस्ताक्षर
(अय्युबुल्लाह खान)
उप वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो.गोविंद अग्रवाल)
वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो.एस एम सजिद)
कुलसचिव

लेखा मद	01-04-2010 को अंशशेष		समयावधि के दौरान लेनेदेने		31-03-2011 को अंशशेष	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
सांसाधनिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय						
कमजोर वर्गों के लिये कौशल एवं अन्य सहायता योजना						
भारतीय पुर्नवास परिषद : सीआई कार्यक्रम : लेस पर ब्रेल का अध्यापन, प्रो.एम अख्तर सिद्दिकी	1,20,649.00	--	0.00	0.00	1,20,649.00	--
लोक कल्याण विभाग को जमिया के पब्लिक लिफ्ट बरियर प्री एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की गयीं	--	3,580.00	0.00	0.00	--	3,580.00
केंद्रीय क्षेत्र योजना: वर्ष 2008-09 के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये निशुल्क	--	1,95,118.00	31,614.00	0.00	--	1,63,504.00
उप अनुसूची योग	1,20,649.00	7,61,198.00	31,614.00	0.00	1,20,649.00	7,29,584.00
गृह मंत्रालय						
डॉ. एस एम रिजवान अहमद को पुलिस विज्ञान एवं अपराध शास्त्र में शोध कार्य के लिये	--	1,500.00	0.00	0.00	--	1,500.00
उप अनुसूची योग	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
रक्षा मंत्रालय						
शोध परियोजना "ग्रीध्र ऑन मल्टीवाल्ड.... एलीकेशन (फेड) डॉ.मुशाहिद हुसैन	--	1,00,147.00	5,30,547.00	6,32,400.00	--	2,02,000.00
शोध परियोजना: "इन्वैस्टिगेशन ऑन प्रोबायोटिक एंड थैरैप्युटिक ... स्टैम सेल्स डा.मुशाहिद ए रिज्वी	--	1,00,930.00	8,03,563.00	9,95,084.00	--	2,92,451.00
"डेवलपमेंट ऑफ हाई परफोर्मेंस कोडिफिंग" प्रो शरीफ अहमद	--	15,03,965.00	18,12,373.00	6,68,200.00	--	3,59,792.00
"डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिक एंड एक्सप्लूजिव.... डॉ.मो.शाहिद खान	--	--	5,977.00	10,86,000.00	--	10,80,023.00
उप अनुसूची योग	0.00	17,05,042.00	31,52,460.00	33,81,684.00	0.00	19,34,266.00
युवा मामले एवं खेल मंत्रालय						
एन एस एस: यूनिवर्सिटी टॉक एड्स	--	18,558.00	0.00	0.00	--	18,558.00
एन एस एस: राष्ट्रीय एकता का बढ़ावा	27,138.00	--	0.00	0.00	27,138.00	--
कौमनवेलथ खेल 2010 हेतु प्रशिक्षण सीलों का विकास एवं परिवर्तन/नवीकरण	--	18,02,67,123.00	11,77,99,997.00	0.00	--	6,24,67,126.00
एन एस एस: गणतंत्र दिवस पेंट शिफ्ट 2010	--	15,00,000.00	19,89,976.00	7,01,377.00	--	2,11,401.00
उप अनुसूची योग	27,138.00	18,17,85,681.00	11,97,89,973.00	7,01,377.00	27,138.00	6,26,97,085.00
शिक्षा विभाग						
एन एस एस: नियमित गतिविधियां	16,541.00	--	0.00	16,541.00	--	--
एन एस एस: विशेष अभियान कार्यक्रम	27,160.00	--	0.00	27,160.00	--	--
एन एस एस: राष्ट्रीय एकता शिफ्ट	40,789.00	--	0.00	40,789.00	--	--
उप अनुसूची योग	84,490.00	0.00	0.00	84,490.00	0.00	0.00

हस्ताक्षर

(अय्यल्लुप्पाह)

(अय्यल्लुप्पाह खान)
उप वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(अय्यल्लुप्पाह खान)

(प्रो.एस एम साजिद)
वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

(प्रो.एस एम साजिद)
कुलसचिव

लेखा मद	01-04-2010 को अंशोध		समयावधि के दौरान लेनदेन		31-03-2011 को अंतर्शेष	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
एन सी ई आर टी						
कक्षा 1 से 12वीं तक की पाठ्यपुस्तकों का अनुवाद	37,502.00	--	0.00	0.00	37,502.00	--
स्कूलों में आई सी टी के अनुप्रयोग एवं अपलब्धता का अध्ययन: प्रो.अख्तर सिद्दिकी	--	36,499.00	0.00	0.00	--	36,499.00
उप अनुसूची योग	37,502.00	36,499.00	0.00	0.00	37,502.00	36,499.00
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एन सी ई आर टी)						
उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान	9,39,257.00	--	0.00	0.00	9,39,257.00	--
उप अनुसूची योग	9,39,257.00	0.00	0.00	0.00	9,39,257.00	0.00
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद						
औद्योगिक अभियांत्रिकी प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण: डॉ.आबिद हलीम	--	4,846.00	0.00	0.00	--	4,846.00
मोडरनाइज प्रथम : प्रो. एस एस नबी	--	14,755.00	0.00	0.00	--	14,755.00
मोडरनाइज द्वितीय : प्रो. एस. एस. नबी	--	1,32,281.00	0.00	0.00	--	1,32,281.00
मोडरनाइज : मोड सोल अभियांत्रिकी प्रयोगशाला: एन यू खान	--	2,725.00	0.00	0.00	--	2,725.00
रिसर्च प्रमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एक्वाइर सिस्टम : गौहर महमूद	--	6,235.00	0.00	0.00	--	6,235.00
नार्वेद अहसान को कैरियर सम्मान	--	2,58,779.00	2,58,779.00	0.00	--	--
रिसर्च प्रमोशन स्क्रीम - मिनी एस थामस	--	14,178.00	20,000.00	5,822.00	--	--
रिसर्च प्रमोशन स्क्रीम - शमशाद अहमद	--	1,86,210.00	25,400.00	0.00	--	1,60,810.00
डॉ. रिहान अहमद खान को कैरियर सम्मान	--	1,87,239.00	0.00	0.00	--	1,87,239.00
डॉ. शाहिदा खातून	--	4,60,000.00	0.00	0.00	--	4,60,000.00
रिसर्च प्रमोशनल स्क्रीम - प्रो. खालिद मोईन	--	14,20,000.00	14,17,500.00	0.00	--	2,500.00
मोडरनाइज : डॉ. गौहर महमूद	200.00	--	0.00	200.00	--	--
कैरियर अवार्ड डॉ. मेमूता अख्तर को	--	--	0.00	4,60,000.00	--	4,60,000.00
सैयद अहमद को कैरियर अवार्ड	--	--	0.00	4,60,000.00	--	4,60,000.00
रजिया खानम को कैरियर अवार्ड	--	--	0.00	4,60,000.00	--	4,60,000.00
अब्दुल कलाम गजुमी को कैरियर अवार्ड	--	--	0.00	4,60,000.00	--	4,60,000.00
उप अनुसूची योग	200.00	26,87,248.00	17,21,679.00	18,46,022.00	0.00	28,11,391.00
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार						
जामिया सीनियर सेकेंडरी में ईको क्लब	--	11,601.00	7,500.00	22,500.00	--	26,601.00
स्वयंसेवी परामर्श एवं परीक्षण केंद्र (दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी)	--	66,581.00	1,72,165.00	1,24,627.00	--	19,043.00
एन एस एस स्वयंसेवी रक्त दान शिविर (दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी)	--	29,870.00	4,565.00	0.00	--	25,305.00
अंतराष्ट्रीय युवा दिवस (दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी)	2,016.00	--	0.00	7,700.00	--	5,684.00

हस्ताक्षर

(अयातुल्लाह)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर

(जफरउल्लाह खान)

उप वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो.शाहिद अशरफ)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो.एस एम सानिद)

कुलसचिव

लेखा मद	01-04-2010 को अग्रशेष		समयावधि के दौरान लेनदेन		31-03-2011 को अंतशेष	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
जाभिया ईको क्लब	--	23,201.00	10,000.00	0.00	--	13,201.00
जल एवं ठोस अवशेष प्रबंधन का अध्ययन.....दिल्ली" प्रो.सिगुडुईन अहमद	32,667.00	--	70,064.00	99,595.00	3,136.00	--
एच आई वी परामर्श हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम.....प्रो.बहीदा खान(एड्स नियंत्रण सोसायटी)	--	65,956.00	65,956.00	0.00	--	--
जाभिया में आर आर सी के अनावरण हेतु अग्रिम (दिल्ली राज्य भारतीय एड्स नियंत्रण सोसायटी)	--	15,599.00	7,910.00	0.00	--	7,689.00
"युवा कोशित स्वास्थ्य सुविधाएं" एन एस एस जाभिया के अंतर्गत(दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी)	--	3,93,000.00	3,75,913.00	4,42,000.00	--	4,59,087.00
जाभिया में कला/सीसीसी आदर्शालयों को प्रशिक्षण (दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी)	--	1,79,425.00	1,79,425.00	0.00	--	--
(केरिबक निधि) काउंसिलिंग सर्विसिब फॉर हि... एस टी आई/ आर टी आई (एन ए सी पी एल आई आई आई)	--	--	7,18,142.00	7,18,142.00	--	--
गुणवत्ता परीक्षण सर्वे" रूनिंग एंड स्ट्रैनिंग ऑफ ईड रोड बिज" डॉ.सिगुडुईन	--	--	0.00	1,78,500.00	--	1,78,500.00
उप अनुसूची योग	34,683.00	7,85,233.00	16,11,640.00	15,93,084.00	3,136.00	7,35,110.00
फोर्ड फाउंडेशन	--	--	--	--	--	--
अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी "इतिहास और राजनीति में भारत की संस्कृति" ए टी डब्ल्यू एस	--	72,631.00	0.00	0.00	--	72,631.00
भारत में मीडिया नीति एवं कानून की पड़ताल	--	23,19,153.00	7,67,221.00	0.00	--	15,51,932.00
उप अनुसूची योग	0.00	23,91,784.00	7,67,221.00	0.00	0.00	16,24,563.00
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद	--	--	--	--	--	--
एटीमाइक्रोबायल एक्टिविटी ऑफ साइनोबैक्टीरिया-तस्नीम फारिसा	4,384.00	--	0.00	4,384.00	--	--
श्री गौरव रथ (एस आर एफ) : डॉ मोहम्मद हुसैन	--	44,335.00	2,69,932.00	2,25,600.00	--	3.00
एपीपाटीसि एंड पैथोजेनेसिटी माइलेशन.....डॉ. निखत मंजूर (बायोसर्जिस विभाग)	--	--	5,49,339.00	13,14,952.00	--	7,65,613.00
उप अनुसूची योग	4,384.00	44,335.00	8,19,271.00	15,44,936.00	0.00	7,65,616.00
इग्नू - दूरस्थ शिक्षा परिषद : सी ई सी	--	--	--	--	--	--
दूरस्थ एवं मुक्त अधिगम केंद्र (इग्नू) शिक्षा परिषद	--	--	14,41,886.00	20,61,896.00	--	6,20,010.00
उप अनुसूची योग	0.00	0.00	14,41,886.00	20,61,896.00	0.00	6,20,010.00
विविध	--	--	--	--	--	--
डा.जाकिर हुसैन शाहवादी समारोह : अभिलेख एवं चित्र प्रदर्शनी	--	14,931.00	5,250.00	25,000.00	--	34,681.00

हस्ताक्षर
(अयादुल्लाह)हस्ताक्षर
(अफजल्लाह खान)
उप वित्त अधिकारी

सहायक कुलसचिव(लेखा)

हस्ताक्षर
(प्रो.शाहिर अशराफ)
वित्त अधिकारीहस्ताक्षर
(प्रो.एस एस साबिर)
कुलसचिव

विषय	01-04-2010 को अवशेष		समावधि के दौरान लेवने		31-03-2011 को अंतर्देश	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
म.प्र. महिला वित्त एवं विकास निगम : 'स्व शक्ति परियोजना'	—	93,913.00	0.00	0.00	—	93,913.00
यूएनवाईपीसीपी ग्रामीण समग्र में दूध अम्बूल की समस्या-डॉ. एस.एस.साजिद	—	13,048.00	0.00	0.00	—	13,048.00
डॉ. जाकिर हुसैन इस्लामियाक अध्ययन संस्थान (जैद एच आई आई एस)	—	6,14,376.00	0.00	63,865.00	—	6,78,241.00
जम्मू एवं कश्मीर कला अकादमी : समग्रकारी की तरफ...विषय पर संगोष्ठी	—	629.00	0.00	0.00	—	629.00
फिरोज : परिया लिक परियोजना, प्रो.एम अख्तर सिद्दीकी	—	35,200.00	0.00	0.00	—	35,200.00
"जामिया स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा विकसित करने हेतु प्रारंभिक कार्य, रतन टाटा ट्रस्ट (सी जी एन एस)	—	2,08,562.00	0.00	0.00	—	2,08,562.00
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	—	19,101.00	0.00	0.00	—	19,101.00
यूरोप एवं दक्षिण एशिया में शक्ति निर्माण एवं शक्ति स्थापना(एशिया लिक कार्यक्रम) प्रो.राधा कुमार	—	67,21,931.00	82,07,014.00	52,94,105.00	—	38,09,022.00
सतत शिक्षा कार्यक्रम का बाह्य विस्तार बीकानेर जिला राजस्थान (एस आर सी)	—	90,589.00	0.00	0.00	—	90,589.00
मीडिया स्रोत केंद्र हेतु सर रतन टाटा ट्रस्ट अनुदान, रे जे के एस सी आर सी	—	2,63,698.00	10,20,122.00	8,88,683.00	—	1,32,259.00
गुडर में बाह्य विस्तार (अंग्रेजों के) (एस आर सी) जुनैर मीनई	—	57,323.00	0.00	0.00	—	57,323.00
जैद एस एस गोरखपुर (उ.प्र.) डॉ. एन. यू. खान	6,298.00	—	0.00	0.00	—	—
एक दिवसीय कार्यशाला 'शक्ति संस्था' - नौदलैड	4,475.00	—	0.00	0.00	—	—
पी एल पी का बाह्य विस्तार गोवडा झारखंड, - एन यू खान	—	6,931.00	6,927.00	0.00	4,475.00	—
मदरसा शिक्षकों एवं छात्रों के लिए सामर्थ्य निर्माण 'ब्रिटिश उच्चायोग, प्रो.एस एस साजिद	—	4,269.00	0.00	0.00	—	4,269.00
रवीबल फंड सातवां राउंड : एचआईसी/एड्स, प्रो. अंजली गांधी (टाटा समाज विज्ञान संस्थान)	—	14,59,152.00	38,90,139.00	28,90,477.00	—	4,59,490.00
अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी "मीडिया गवर्नेस के सीमांत" (आई डी आर सी) (संस्कृति एवं मीडिया गवर्नेस केंद्र)	—	—	—	—	—	—
पायलट स्पोर्ट डिजाइन, निरीक्षण स्टील उद्योग- प्रो. सिपयुदीन अहमद (भारतीय स्टील प्राधिकरण)	47,491.00	—	5,000.00	53,680.00	—	1,189.00
दो दिवसीय सम्मेलन "दक्षिण एशिया की महिलाएं : साक्षीवाद...." प्रो.वीना सीकरी (दक्षिण एशिया फाउंडेशन)	—	54,750.00	25,709.00	0.00	—	29,041.00
सामाजिक भुविष्य केंद्र	—	73,528.00	16,500.00	0.00	—	57,028.00
एस आर सी: मीडिया एक्सेक्यूटिव परियोजना : संस्कृति, मीडिया एवं गवर्नेस केंद्र	—	79,601.00	1,81,534.00	4,36,750.00	—	3,33,817.00
जैद एस एस कुशीनगर (उ.प्र.) - एन यू खान	—	37,315.00	37,315.00	0.00	—	—
सीसीएमजी - मीडिया स्थापित एवं सामग्री वकालत: प्रसारण रणनीति का संदर्भ (एच आई वी ओ एस)	232.00	—	0.00	232.00	—	—
अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी "निकोलस गेरिक, उनकी विरासत...." ललित कला अकादमी	—	6,94,931.00	6,09,940.00	0.00	—	84,991.00
	—	9,768.00	10,000.00	232.00	—	—

हस्ताक्षर
(अय्यलुत्तम)

हस्ताक्षर
(अय्यलुत्तम खान)
उप वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो.शाहिद अराफ)
वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो.एस एम साजिद)
कुलसचिव

लेखा मद	01-04-2010 को अवधि		समयबधि के दौरान लेनेदेने		31-03-2011 को अंतःशेष	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
अंतराष्ट्रीय संगोष्ठी, "निकास रोरिक, उनकी विरासत और बाज..," (भारतीय स्वील प्रधिकारण क्षेत्रीय व्यापार समझौते एवं विश्व व्यापार संगठन : विकासशील देशों का परिचय)	-	275.00	0.00	0.00	-	275.00
टेक एंड ऑफ परिसिटींग डब्ल्यूएस एंड डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क फॉर 148 विलेज...मेता	-	45,566.00	46,183.00	617.00	-	-
एम सी जी के वर्षा जल संरक्षण के दिग्गहन एवं फिनिशियरी पर एक वित्तीय प्रशिक्षण - गौहर महमूद :	-	2,65,070.00	4,75,605.00	2,28,786.00	-	18,251.00
यूनिटर : शक्ति प्रक्रिया का परिच, 25-29 जनवरी 2010, शक्ति एवं संबंध समायोजन केंद्र	-	1,20,000.00	1,82,783.00	19,90,000.00	-	19,27,217.00
यूनिटर : 'संघर्ष की समझ एवं संबंध विस्तारण 01-05 जनवरी 2010, शक्ति एवं संबंध समायोजन केंद्र	-	14,11,362.00	13,25,394.00	0.00	-	85,968.00
समेलन सत्यन शाल और जीव विज्ञान के बीच इंटरफेस डीबीटी-सीटीडीसी	10,64,837.00	-	3,82,336.00	13,88,677.00	-	-
अंतराष्ट्रीय संगोष्ठी, अनु रेलान अलबकनी... उज्बेकिस्तान	-	6,280.00	6,280.00	0.00	-	-
प्रशिक्षण सहायता केंद्र के लिये रख-रखाव अनुदान	-	-	0.00	0.00	-	-
दुमरा, पिन्वर हरियाणा के लिए कॉन्फ्रेंसियल जल प्रबंधन योजना-प्रोग्राम-गौहर महमूद	-	1,25,000.00	1,25,000.00	0.00	-	-
कुटनीय कार्यक्रम - इंडिया फाउंडेशन फॉर दी आर्ट	-	-	3,51,190.00	17,20,000.00	-	13,68,810.00
समुद्र विषयविद्यालय में पोलिमरिक सिस्टम - डॉ. सैफुर अहमद	-	-	4,06,317.00	11,83,600.00	-	7,77,283.00
कॉन्फ्रेंसियल जल प्रबंधन योजना... (एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, फरीदबाद) प्रोग्राम-गौहर महमूद	-	-	5,32,470.00	11,05,248.00	-	5,72,778.00
उप अनुसूची योग	-	-	1,00,750.00	7,20,000.00	-	6,19,250.00
	10,64,837.00	1,25,27,099.00	1,79,49,768.00	1,79,95,260.00	4,476.00	1,15,12,229.00
यमुना राष्ट्रीय बांध निधि (युनिसेफ)	-	-	-	-	-	-
साधना 5वीं	892.00	-	0.00	0.00	892.00	-
साधना एवं नेटवर्किंग 7वीं	1,40,579.00	-	6,89,611.00	7,12,649.00	1,17,541.00	-
उप अनुसूची योग	1,41,471.00	0.00	6,89,611.00	7,12,649.00	1,18,433.00	0.00
गैल :	-	-	-	-	-	-
कोरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व : प्रभाव अध्ययन	-	20,840.00	0.00	0.00	-	20,840.00
उप अनुसूची योग	0.00	20,840.00	0.00	0.00	0.00	20,840.00
राष्ट्रीय ठाई भाषा प्रसार परिषद :	-	-	-	-	-	-
फिरक स्मृति व्याख्यान	-	-	-	-	-	-
संगोष्ठी, चंडीद अखार हयाते-बिस्मात	-	18,750.00	42,320.00	18,750.00	4,820.00	-
राष्ट्रीय समेलन 'साहित्य के पठन पाठन की नयी दिशाएं'	12,369.00	-	0.00	0.00	-	-
	17,500.00	-	0.00	17,500.00	-	-

हस्ताक्षर

(अध्यापक)

हस्ताक्षर

(अध्यक्ष/अध्यक्ष)

उप निदेश अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रोग्रामिंग अधिकारी)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रोग्राम एवं सांख्यिक)

कुलसचिव

लेखा मद	01-04-2010 को अवशेष		समयावधि के दौरान लेनदेन		31-03-2011 को अवशेष	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
भारत में अरबी साहित्य	24,120.00	--	0.00	25,000.00	--	880.00
अबु रेहान अलबरूनी पर अंतराष्ट्रीय संगोष्ठी	25,000.00	--	0.00	25,000.00	--	--
उप अनुसूची योग	78,989.00	18,750.00	42,320.00	98,619.00	4,820.00	880.00
राष्ट्रीय महिला आयोग						
राष्ट्रीय कार्यशाला : 'तकनीकी एवं सामाजिक : मुस्लिम महिलाएं'	--	6,017.00	0.00	0.00	--	6,017.00
कार्यक्रम : लोक सुवासी (सरोजनी नायडू महिला अध्ययन केन्द्र)	--	1,932.00	0.00	0.00	--	1,932.00
दो दिवसीय विधि जागरूकता कार्यक्रम, मदतपुर खारर दिल्ली (ए एस एसी)	1--	15,000.00	0.00	0.00	--	15,000.00
संगोष्ठी, 'एस स्वाधिक साहसी महिलाओं के जीवन से शिक्षा', प्रो.अजीतुदीन हुसैन	2,335.00	--	0.00	0.00	2,335.00	--
उप अनुसूची योग	2,335.00	22,949.00	0.00	0.00	2,335.00	22,949.00
आई ए एस आई						
संगोष्ठी "उच्च शिक्षण संस्थाओं में स्वयत्तता" नैशाद अरली एजाज	--	1,117.00	1,117.00	0.00	--	--
उप अनुसूची योग	0.00	1,117.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार						
पांडुलिपियों का लेभिन्गेशन : डॉ. जाकिर हुसैन पुस्तकालय	--	358.00	0.00	0.00	--	358.00
पांडुलिपियों का संरक्षण एवं विवरण सूची: जाकिर हुसैन अभिलेखागार प्रकोष्ठ	--	83,349.00	49,507.00	0.00	--	33,842.00
उप अनुसूची योग	0.00	83,707.00	49,507.00	0.00	0.00	34,200.00
एजुकेशन कंस्ट्रेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड का तकनीकी सहायता समूह						
सर्वशिक्षा अभियान (अनुवीक्षण)	--	3,66,050.00	3,66,050.00	15,94,675.00	--	15,94,675.00
उप अनुसूची योग	0.00	3,66,050.00	3,66,050.00	15,94,675.00	0.00	15,94,675.00
यूनेस्को : एस आर सी: तकनीकें... व्यासक जगतसंख्या पर एक परिक्षण विवरणीका						
प्रपत्र को अंतिम रूप देने हेतु कार्यशाला: भारत में अध्यापक शिक्षा स्थिति एवं परिणतियाँ (सी डी ओ एल)	--	57,809.00	0.00	0.00	--	57,809.00
परियोजना विकास सामग्री..... 'आपदा प्रबंधन शिक्षा एवं जागरूकता (एसआरसी)	--	51,253.00	0.00	0.00	--	51,253.00
उप अनुसूची योग	0.00	1,09,062.00	0.00	0.00	0.00	1,09,062.00

हस्ताक्षर
(अमरकुमार खान)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर
(अमरकुमार खान)

उप वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो.शाकिर अकरफ)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो.एस एम साजिद)

कुलसचिव

लेखा मद	01-04-2010 को अग्रशेष			समयावधि के दौरान लेनदेन			31-03-2011 को अंतशेष		
	निकासी	जमा		निकासी	जमा		निकासी	जमा	
राष्ट्रिय विद्यालय केंद्र (अंतर विश्वविद्यालय तवरण केंद्र)									
स्टडीज ऑन लाइन ट्रेक प्रॉफिट... नैतिकपोजीटर्स - डॉ.शरीफ अहमद	-	7,597.00		0.00	0.00		-		7,597.00
उप अनुसूची योग	0.00	7,597.00		0.00	0.00		0.00		7,597.00
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग									
अकाल, गरीबी और भूमंडलीकरण का प्रभाव, दिल्ली उत्तर प्रदेश, हरियाणा में मुस्लिम महिला मजदूरों का एक अध्ययन	-	28,155.00		0.00	0.00		-		28,155.00
मानवाधिकार शिक्षा एवं संवेदीकरण केंद्र में	3,050.00	-		0.00	3,050.00		-		-
उप अनुसूची योग	3,050.00	28,155.00		0.00	3,050.00		0.00		28,155.00
अमेरिका उच्चायोग									
सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंग्रेजी भाषा शिक्षण कार्यक्रम (डॉ.अमीना काजी अंसारी)	-	1,781.00		1,781.00	0.00		-		-
अंग्रेजी भाषा शिक्षण कार्यक्रम (एक्सेस-2: 2006-08 अमीना काजी अंसारी)	-	5,91,331.00		6,86,239.00	94,908.00		-		-
अंग्रेजी भाषा शिक्षण कार्यक्रम (एक्सेस 4 या 2009-11) अमीना काजी अंसारी	-	-		9,00,666.00	11,63,550.00		-		2,62,884.00
उप अनुसूची योग	0.00	5,93,112.00		15,88,688.00	12,58,458.00		0.00		2,62,884.00
जल संसाधन शोध एवं विकास मंत्रालय (आर एंड डी)									
सीटिक टैकनी उपस्थिति का मूजल पर प्रभाव: झांगहर महमूद	-	1,707.00		0.00	0.00		-		1,707.00
उप अनुसूची योग	0.00	1,707.00		0.00	0.00		0.00		1,707.00
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डी एंड टी)									
परियोजना 'उद्देश्यपरक सॉफ्टवेयर हेतु सिक्वोरिटी एसेसमेंट प्रेमचक का विकास... एस आई एरसान	-	5,927.00		5,500.00	0.00		-		427.00
'रसन एंड फोटोल्फेमेसेन इन्वेस्टिगेशन ऑफ नैरोस्ट्रक्चर्ड ... बायोलॉजिकल स्पीसीज' एस एस इस्लाम	-	58,921.00		8,60,921.00	8,02,000.00		-		-
डेवलपमेंट ऑफ कार्बन नैरोस्ट्रक्चर्ड बेस्ड गैस सेन्सर, प्रो. एस. एस. इस्लाम	-	-		26,59,238.00	4,32,03,014.00		-		4,05,43,776.00
ग्रोथ ऑफ सिंगल वाल कार्बन नैरोस्ट्रक्चर्ड फॉर सेमीकंडक्टिंग एप्लीकेशनस प्रो.मुशाफिर हुसैन	-	-		7,23,522.00	2,98,18,342.00		-		2,90,94,820.00
उप अनुसूची योग	0.00	64,848.00		42,49,181.00	7,38,23,356.00		0.00		6,96,39,023.00

हस्ताक्षर
(अयायुल्लाह)

सहायक कुलसचिव (सेवा)

हस्ताक्षर
(अयायुल्लाह खान)

उप कुलसचिव

हस्ताक्षर
(प्रो.शरीफ अहमद)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो.एस एस साकिर)

कुलसचिव

लेखा मद	01-04-2010 को अवशेष		समावधि के दौरान लेनदेन		31-03-2011 को अंतशेष	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
दिल्ली कल्याण समिति (डी के एस)						
भक्तने निषर्वा	--	2,61,178.00	0.00	0.00	--	2,61,178.00
उप अनुसूची योग	0.00	2,61,178.00	0.00	0.00	0.00	2,61,178.00
बचपन बचावों, स्वीडन, नेपाल						
बाल अधिकार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम	--	650.00	0.00	0.00	--	650.00
उप अनुसूची योग	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
उर्दू अकादमी दिल्ली						
अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता कार्यक्रम, दिल्ली उर्दू अकादमी	--	8,000.00	0.00	0.00	--	8,000.00
फिरक स्मृति लेखर (उर्दू अकादमी)	--	--	10,000.00	10,000.00	--	--
अनुसूची योग	0.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय						
शिक्षा प्रणाली में मुसलमानों को मुख्यधारा में लाने के लिये मदरसा शिक्षा की भूमिका : एस एम साजिद	7,247.00	--	0.00	0.00	7,247.00	--
मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिये प्रधानमंत्री का 15 सुत्रीय कार्यक्रम (निशुल्क कोविंग एवं सहायगीत योजना)	--	60,582.00	3,600.00	0.00	--	56,982.00
उप अनुसूची योग	7,247.00	60,582.00	3,600.00	0.00	7,247.00	56,982.00
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय						
मुग़ी प्रेमचंद अभिलेखागार	2,76,061.00	--	0.00	0.00	2,76,061.00	--
में आतिय पादयक्रम की शुरूआत हेतु पूंजी अनुदान	--	9,54,668.00	79,86,254.00	90,00,000.00	--	19,68,414.00
'अर्नो व्हाइल यू लर्न' कॉमनवैलथ : ए टी डब्ल्यू एस	--	7,61,475.00	4,16,943.00	1,28,304.00	--	4,72,836.00
उप अनुसूची योग	2,76,061.00	17,16,143.00	84,03,197.00	91,28,304.00	2,76,061.00	24,41,250.00
भारतीय परिवहन विकास संघ (ए टी डी आई)						
परिवहन नीति पर राष्ट्रीय कार्यशाला : ए टी डब्ल्यू एस	--	12,543.00	0.00	0.00	--	12,543.00
उप अनुसूची योग	0.00	12,543.00	0.00	0.00	0.00	12,543.00
पंचायती राज मंत्रालय						
शोध परियोजना : 'निर्वाचित महिलाएं... उत्तरदायित्व' प्रो. हाजिरा कुमार (पंचायती राज मंत्रालय)	5,627.00	--	0.00	5,627.00	--	--
उप अनुसूची योग	5,627.00	0.00	0.00	5,627.00	0.00	0.00

हस्ताक्षर
(अय्युल्लाह)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर
(अफ़जल्लाह खान)

उप वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो. शहिद अशरफ)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो. एस एम साजिद)

कुलसचिव

लेखा मद	01-04-2010 को अवशेष		समयावधि के दौरान लेनदेन		31-03-2011 को अंशेष	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय						
वृद्ध महिलाओं की समस्याओं के प्रति समाज का तैय्य और वृद्धावस्था : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अध्ययन	10,699.00	—	1,22,637.00	1,22,424.00	10,912.00	—
उप अनुसूची योग	10,699.00	0.00	1,22,637.00	1,22,424.00	10,912.00	0.00
भारतीय दार्शनिक शोध परिषद						
संगोष्ठी "विश्व के धर्मों पर ग्लोबल कॉग्रेस-जनवरी 2009", प्रो.मुशीरुल हसन	—	12,065.00	0.00	0.00	—	12,065.00
उप अनुसूची योग	0.00	12,065.00	0.00	0.00	0.00	12,065.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार						
ई एम आर परियोजना डॉ. एजाज़ हुसैन, केन्द्रीय यूनानी औषधि शोध परिषद	—	9,04,821.00	8,61,940.00	0.00	—	42,881.00
ई एम आर परियोजना डॉ.तनीम फातिमा, केन्द्रीय यूनानी औषधी शोध परिषद	—	1,01,111.00	2,41,930.00	11,00,000.00	—	9,59,181.00
डॉ मोहम्मद हुसैन (सी सी आर यू एम)	—	9,00,000.00	7,78,642.00	0.00	—	1,21,358.00
प्रो. सहैद अख्तर हुसैन (सी सी आर यू एम, ईएमआर)	—	13,00,000.00	9,74,023.00	6,50,000.00	—	9,75,977.00
उप अनुसूची योग	0.00	32,06,932.00	28,56,535.00	17,50,000.00	0.00	20,99,397.00
बाल रक्षा बालक सेवा दी चिल्ड्रेन						
प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास एवं अनुसंधान	—	36,66,050.00	7,02,484.00	0.00	—	29,63,566.00
उप अनुसूची योग	0.00	36,66,050.00	7,02,484.00	0.00	0.00	29,63,566.00
अनुसूची योग	29,64,017.00	21,43,44,807.00	16,81,64,208.00	11,84,91,881.00	16,73,551.00	16,32,82,014.00
सफल योग	19,27,942.00	251,182,644.00	233,394,463.00	187,189,989.00	22,875,414.00	208,575,642.00

हस्ताक्षर

(अयातुल्लाह)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर

(जफरउल्लाह खान)

उप वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो.शहिद अशरफ)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो.एस एम साजिद)

कुलसचिव

परिशिष्ट (ii) : अनुसूची : ३ (v)(c)

चालू देयताएं-अन्य देयताएं-प्राप्तियां
चालू प्रायोजित शोधवृत्तियों एवं छात्रवृत्तियों के अंतर्गत

लेखा मद	01-04-2010 अथ शेष		समयावधि के दौरान लेमदेन		31-03-2011 को अंतःशेष	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग						
जुनियर / सीनियर रिसर्च फेलोशिप	--	40,75,283.00	1,36,59,557.00	0.00	95,84,274.00	--
मूजहां बेगम	--	24,383.00	0.00	0.00	--	24,383.00
एम.फिल/पी.एच.डी कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राजीवगांधी राष्ट्रीय शोधवृत्ति	--	27,21,473.00	33,43,296.00	78,50,000.00	--	72,28,177.00
एम.फिल पी.एच.डी कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राजीवगांधी राष्ट्रीय शोधवृत्ति	--	10,37,939.00	80,92,169.00	1,64,50,000.00	--	93,95,770.00
अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट डॉक्टल फेलोशिप (असर प्रकाश)	--	35,301.00	2,84,862.00	3,01,662.00	--	52,101.00
व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	--	7,46,836.00	9,92,513.00	6,10,000.00	--	3,64,323.00
एकमात्र बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (2006-08)	--	1,80,000.00	1,80,000.00	0.00	--	--
विश्वविद्यालय रैंक धारकों (2006-08), (2007-09) के लिये स्नातकोत्तर मैरिट छात्रवृत्ति	--	40,000.00	40,000.00	0.00	--	--
डा. डी एस कोठारी पोस्टडॉक्टल फेलोशिप- श्री सोमश्री सेन	--	3,126.00	0.00	0.00	--	3,126.00
प्रो. आर डी सिंह एमरिटस फेलो	--	75,137.00	3,14,872.00	2,90,000.00	--	50,265.00
डा. डी एस कोठारी पोस्टडॉक्टल फेलोशिप- डॉ हेमवती नंदन	--	1,79,378.00	5,22,240.00	5,59,945.00	--	2,17,083.00
डा. डी एस कोठारी पोस्टडॉक्टल फेलोशिप- डॉ सुभाष चंद्र मोहापात्रा	--	2,40,960.00	4,66,703.00	5,71,733.00	--	3,45,990.00
डा. (श्रीमती) मनजीत राठी, शोध संपन्न, अंग्रेजी विभाग	--	9,25,000.00	10,49,181.00	0.00	1,24,181.00	--
डा. डी एस कोठारी पोस्टडॉक्टल फेलोशिप- डॉ अमित सक्सेना, भौतिकी विभाग	--	--	3,71,604.00	4,70,695.00	--	99,091.00
अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप	--	--	53,07,319.00	78,00,000.00	--	24,92,681.00
अ.जा/अ.ज.जा हेतु पोस्टडॉक्टल फेलोशिप- (हेमलता)	--	--	37,574.00	2,79,600.00	--	2,42,026.00
राष्ट्रीय महत्व की दो विज्ञान अकादमियों में फेला के रूप में सम्मान (प्रो.फैजान अमहद)	3,45,000.00	--	1,80,000.00	0.00	5,25,000.00	--
राष्ट्रीय महत्व की दो विज्ञान अकादमियों में फेला के रूप में सम्मान (प्रो. एस सामी)	30,000.00	--	1,80,000.00	0.00	2,10,000.00	--
अनुसूची योग	3,75,000.00	1,02,84,816.00	3,50,21,890.00	3,51,83,635.00	1,04,43,455.00	2,05,15,016.00
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डी. एस. टी.)						
एसयॉड ऑपेनूनिटी फॉर रिसर्च कैरियर" के अंतर्गत एस्यार फेलोशिप	--	--	4,94,650.00	5,78,400.00	--	83,750.00
अनुसूची योग	0.00	-	4,94,650.00	5,78,400.00	0.00	83,750.00

हस्ताक्षर
(अय्युल्लाह)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

हस्ताक्षर
(जफरउल्लाह खान)

उप वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो.शहिद अशरफ)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो.एस एम साजिद)

कुलसचिव

लेखा मद	01.04.2010 अथ शेष		समयावधि के दौरान लेनदेन		31.03.2011 को अंतर्शेष	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
आई. सी. एस. एस. आर.						
रचिका सोढी	--	20,000.00	20,000.00	0.00	--	--
नसीब अहमद	--	--	94,404.00	94,404.00	--	--
भास्कर कानुंगो	--	9,003.00	0.00	34,000.00	--	43,003.00
प्रदीप नाथ	7,663.00	--	0.00	7,663.00	--	--
सुश्री गौरी रायबादा को डॉक्टरल फेलोशिप	--	36,000.00	0.00	0.00	--	36,000.00
प्रो. आई. एस. मारवाह को सीनियर फेलोशिप	--	414.00	56,000.00	84,480.00	--	28,894.00
प्रगतिशील लेखक आन्दोलन: विशेषतः ठरू साहित्य के संदर्भ में - रसदा जलील	--	--	3,23,525.00	3,43,838.00	--	20,313.00
श्री सैयद अब्दुल समद को डॉक्टरल फेलोशिप	--	--	0.00	40,000.00	--	40,000.00
अनुसूची योग	7,663.00	65,417.00	4,93,929.00	6,04,385.00	0.00	1,68,210.00
आई. सी. एच. आर.						
मेहदी बाकर	--	44,548.00	44,548.00	0.00	--	--
डॉ. अमित कुमार गुप्ता	--	15,000.00	6,847.00	0.00	--	8,153.00
अनुसूची योग	0.00	59,548.00	51,395.00	0.00	0.00	8,153.00
आई. सी. सी. आर.						
श्री दत्तगं पी. जटोमिको	--	--	3,870.00	3,870.00	--	--
अनुसूची योग	0.00	--	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00
सी. एस. आई. आर.						
अजित कुमार शुक्ला	--	20,000.00	20,000.00	0.00	--	--
नरेश सिंह	--	56,400.00	0.00	0.00	--	56,400.00
हरम शर्मिन	--	20,800.00	2,69,600.00	2,69,600.00	--	20,800.00
फहमिना जफर	--	16,000.00	16,000.00	0.00	--	--
अफसर राजा नकुबी	--	62,467.00	1,56,217.00	96,267.00	--	2,517.00
गुमा पाण्डेय	--	62,000.00	62,000.00	0.00	--	--
श्री सफिकुर रहमान	--	--	2,36,639.00	2,38,400.00	--	1,761.00
तबीश रहमान	--	--	2,38,400.00	2,38,400.00	--	--
सुनील हंस	--	22,128.00	0.00	0.00	--	22,128.00
पद्मा परवीन	--	1,19,200.00	0.00	0.00	--	1,19,200.00
सरवत जफर	--	19,502.00	19,502.00	0.00	--	--
सवेता शैली	--	15,643.00	2,53,997.00	2,38,357.00	--	3.00
हस्ताक्षर						
(अयातुल्लाह खान)						
सहायक कुलसचिव (लेखा)						
हस्ताक्षर						
(जमरउल्लाह खान)						
उप वित्त अधिकारी						
हस्ताक्षर						
(प्रो. एस. एस. साजिद)						
कुलसचिव						

लेखा मद	01.04.2010 अथ शेष		समावधि के दौरान लेनेदेन		31.03.2011 को अंशेष	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
जी. बी. बी. एम.	--	14,000.00	14,000.00	0.00	--	--
गुफला नाहिद	--	98,000.00	2,07,317.00	2,29,406.00	--	1,20,089.00
डॉ. फिरोज़ा नबी	--	20,800.00	20,800.00	0.00	--	--
वेता ध्यान	--	14,000.00	68,600.00	1,19,200.00	--	64,600.00
एस. इशराक अहमद	--	18,377.00	1,27,400.00	1,19,023.00	--	10,000.00
हरीश चन्द्र	--	18,200.00	2,16,866.00	2,38,400.00	--	39,734.00
मीर इफ्तुल्लाह	--	14,013.00	1,83,826.00	1,87,987.00	--	18,174.00
विपुल शुक्ला	--	15,600.00	1,87,200.00	2,07,200.00	--	35,600.00
सुश्री शिखा गुप्ता, जे.आर.एफ.-नेट	--	--	1,66,340.00	1,66,340.00	--	--
सुश्री शीजा खान	--	--	2,07,132.00	2,07,132.00	--	--
फहमीना जफर सरा	--	--	2,10,226.00	4,16,278.00	--	2,06,052.00
अरनब दास गुप्ता	--	--	1,91,374.00	2,12,213.00	--	20,839.00
एडविना थॉम्स	--	--	2,25,030.00	2,76,230.00	--	51,200.00
डॉ. शमीना हुसैन	--	--	2,48,800.00	2,69,600.00	--	20,800.00
आदम अब्दुल्लाह बहीरती	--	--	2,20,200.00	2,38,400.00	--	18,200.00
आरिफ तसलीम जान	--	--	2,20,200.00	2,38,400.00	--	18,200.00
सुनैना जुतशी	--	--	1,95,304.00	2,69,600.00	--	74,296.00
जैनुल आबिद सी.के.बी.	--	--	72,800.00	2,38,400.00	--	1,65,600.00
दीवान अकरम	-	--	78,310.00	1,88,000.00	--	1,09,690.00
सुमैया हुसैन	--	--	1,74,000.00	1,88,000.00	--	14,000.00
अर्पना गांगुली	--	--	2,18,701.00	2,83,689.00	--	64,988.00
दीपक कुमार	--	--	3,98,800.00	4,14,400.00	--	15,600.00
रेमया नैयर	--	--	1,35,639.00	1,55,400.00	--	19,761.00
अनुसूची योग	0.00	6,27,130.00	52,61,220.00	59,44,322.00	0.00	13,10,232.00
विविध एजेंसियां						
शिक्षा निदेशालय						
अनुजाति/अ.जनजाति को छात्रवृत्ति	--	10,660.00	9,53,960.00	9,79,470.00	--	36,170.00
उप अनुसूची योग	0.00	10,660.00	9,53,960.00	9,79,470.00	0.00	36,170.00
अखिल भारतीय तकनीकी विज्ञान परिषद						
परा स्नातक छात्रवृत्ति (गेट - एम.टेक)	--	4,80,000.00	4,74,323.00	0.00	--	5,677.00
उप अनुसूची योग	0.00	4,80,000.00	4,74,323.00	0.00	0.00	5,677.00

हस्ताक्षर
(अयातुल्लाह)हस्ताक्षर
(जफरउल्लाह खान)

उप वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रो.शहिद अशरफ)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो.एस एम साजिद)

कुलसचिव

सहायक कुलसचिव (लेखा)

लेखा मद	01.04.2010 अथ शेष		समयावधि के दौरान लेनदेन		31.03.2011 को अंतर्शेष	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च						
अब्दुल मलिक को सैलरी (एस आर एफ) डॉ. एस अख्तर हुसैन	--	1,875.00	0.00	0.00	--	1,875.00
मो. वाहिद को जे आर एफ	--	3,774.00	3,774.00	0.00	--	--
रज्दान सरिम रहमान	--	4,054.00	4,054.00	0.00	--	--
मीन रहमान	--	19,541.00	19,541.00	0.00	--	--
सुश्री रुचि जैन	--	5,000.00	0.00	0.00	--	5,000.00
पुनम गुप्ता	--	35,080.00	2,97,385.00	2,85,893.00	--	23,588.00
दिलशान मंजर	--	23,960.00	2,63,949.00	2,82,600.00	--	42,611.00
श्री जितेन्द्र सिंह वर्मा, एस आर एफ	--	47,200.00	2,66,507.00	2,29,800.00	--	10,493.00
श्री अभिजीत मिश्रा, एस आर एफ	--	24,003.00	2,80,000.00	2,76,800.00	--	20,803.00
गजिव्या नफीस	--	--	1,03,600.00	1,50,400.00	--	46,800.00
सोबिया चौधरी	--	--	91,766.00	1,07,766.00	--	16,000.00
विविध एजेंसी (खर्च)	--	--	1,32,033.00	1,55,768.00	--	23,735.00
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च	--	--	0.00	1,18,000.00	--	1,18,000.00
पुजा लिंगा	--	--	0.00	73,291.00	--	73,291.00
उप अनुसूची योग	0.00	1,64,487.00	14,62,609.00	16,80,318.00	0.00	3,82,196.00
विविध						
विविध छात्रवृत्ति						
हरिजन एवं समाज कल्याण, ड. प्र.	--	47,460.00	33,730.00	0.00	--	13,730.00
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अ.जा./अ.ज.जा.)	--	4,200.00	27,945.00	27,945.00	--	4,200.00
हरियाणा से छात्रवृत्ति- अ.जा./अ.ज.जा. एवं अन्य - फरीदाबाद / चंडीगढ़	--	5,010.00	45,790.00	49,630.00	--	8,850.00
जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास निदेशालय, मणिपुर छात्रवृत्ति	--	--	6,550.00	18,090.00	--	11,540.00
महाविद्यालय शिक्षा निदेशालय, राजस्थान	--	21,910.00	13,130.00	0.00	--	8,780.00
मेरिट कम मित्स छात्रवृत्ति(जवाहर भवन ट्रस्ट	--	--	90,000.00	90,000.00	--	--
एन. सी. ई. आर. टी. छात्रवृत्ति	--	--	6,000.00	12,000.00	--	6,000.00
नागालैंड शिक्षा निदेशालय - छात्रवृत्ति	--	14,055.00	45,465.00	36,030.00	--	4,620.00
शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद - छात्रवृत्ति	--	--	30,360.00	30,360.00	--	--
जनजाति / पिछड़ी जाति कल्याण निदेशालय, असम	--	13,960.00	82,580.00	76,580.00	--	7,960.00
उप-निदेशक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, मेघालय	--	--	0.00	4,275.00	--	4,275.00
गुरु हरिकृष्ण एजुकेशन सोसाइटी - छात्रवृत्ति	--	1,200.00	1,200.00	6,000.00	--	6,000.00
जनजाति विकास निदेशालय, उ. प्र.- छात्रवृत्ति	--	49,180.00	0.00	0.00	--	49,180.00

हस्ताक्षर

(अयातुल्लाह)

हस्ताक्षर

(जफरउल्लाह खान)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो. शाहिद अशरफ)

हस्ताक्षर

(प्रो. एस एम साजिद)

वित्त अधिकारी

कुलसचिव

लेखा मद	01.04.2010 अथ शेष		समयावधि के दौरान लेनदेन		31.03.2011 को अंतर्शेष	
	निकासी	जमा	निकासी	जमा	निकासी	जमा
जिला अधिकारी, समाजकल्याण, रा.रा.क्षे. दिल्ली	--	1,87,340.00	1,53,330.00	79,585.00	--	1,13,595.00
लक्षद्वीप छात्र को शिक्षा रियायत	--	--	30,550.00	30,550.00	--	--
उच्च शिक्षा निदेशालय-त्रिपुरा-थनसांगा डालोंग, एम. ए. एक्सटेंशन	--	--	910.00	910.00	--	--
समाज कल्याण निदेशालय, गया : सुश्री एम. की पोस्ट मैट्रिक एस. सी. छात्रवृत्ति	--	--	19,155.00	19,155.00	--	--
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, अरुणाचल प्रदेश सरकार	--	--	14,540.00	20,280.00	--	5,740.00
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति झारखण्ड सरकार	--	15,360.00	1,02,800.00	1,19,050.00	--	31,610.00
अ.जा./अ.ज.जा. को छात्रवृत्ति, उत्तराखण्ड देहरादून	--	--	3,210.00	3,210.00	--	--
जिला कल्याण पदाधिकारी, बिहार	--	63,975.00	1,30,370.00	86,570.00	--	20,175.00
जिला कल्याण पदाधिकारी, हरियाणा	2,24,970.00	--	81,970.00	3,06,940.00	--	--
विदर्भ निदेशालय, अमरावती	--	760.00	0.00	0.00	--	760.00
आई उर्बेद उल्लाह (डी. बी. टी.-जे.आर.एफ.) पूर्ण विश्वविद्यालय	--	15,602.00	2,49,238.00	2,51,836.00	--	18,200.00
समाज कल्याण निदेशालय (उ.प्र.) लखनऊ	--	1,78,180.00	1,66,445.00	2,11,870.00	--	2,23,605.00
मेरिट-कम-मींस छात्रवृत्ति (पश्चिम बंगाल सरकार)	--	17,210.00	1,50,230.00	1,47,920.00	--	14,900.00
मेरिट-कम-मींस छात्रवृत्ति, बिहार राज्य सुनी वक्फ बोर्ड	--	1,55,850.00	12,45,780.00	12,00,350.00	--	1,10,420.00
बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त कॉर्पोरेशन, पटना	--	13,150.00	6,69,920.00	9,34,055.00	--	2,77,285.00
तौहीदुल मुस्लीमीन ट्रस्ट	--	20,000.00	30,000.00	10,000.00	--	--
मेरिट-कम-मींस छात्रवृत्ति, मोपाल (उ. प्र.)	--	--	20,000.00	40,000.00	--	20,000.00
अमरोहा अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी छात्रवृत्ति, रानीस इंदौर, मो. आसीम सिद्दीकी	--	--	4,010.00	8,420.00	--	4,410.00
मेरिट-कम-मींस छात्रवृत्ति, मुपादाबाद, उ.प्र.	--	--	43,760.00	43,760.00	--	--
मेरिट-कम-मींस छात्रवृत्ति, मुपादाबाद, अल्पसंख्यक कल्याण सुल्तानपुर, उ.प्र.	--	--	7,260.00	39,570.00	--	32,310.00
मेरिट-कम-मींस छात्रवृत्ति, समाज कल्याण निदेशालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल	--	--	4,000.00	4,000.00	--	--
मेरिट-कम-मींस छात्रवृत्ति, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, कानपुर, उ.प्र.	--	--	26,920.00	26,920.00	--	--
मेरिट-कम-मींस छात्रवृत्ति, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, रायबरेली उ.प्र.	--	--	15,510.00	15,510.00	--	--
मेरिट-कम-मींस छात्रवृत्ति, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, गाजियाबाद उ.प्र.	--	--	67,010.00	67,010.00	--	--
मेरिट-कम-मींस छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक कल्याण, फैजाबाद उ.प्र.	--	--	0.00	28,695.00	--	28,695.00
मेरिट-कम-मींस छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक कल्याण, मऊ.	--	--	0.00	11,040.00	--	11,040.00
उप अनुसूची योग	2,24,970.00	8,24,402.00	36,19,668.00	40,58,116.00	0.00	10,37,880.00
अनुसूची योग	2,24,970.00	14,79,549.00	65,10,560.00	67,17,904.00	0.00	14,61,923.00
सकल योग	607,633.00	12,516,460.00	47,837,514.00	49,032,516.00	10,443,455.00	23,547,284.00

हस्ताक्षर

(अयातुल्लाह)

हस्ताक्षर

(जफरउल्लाह खान)

सहायक कुलसचिव (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो. शाहिद अशरफ)

वित्त अधिकारी

हस्ताक्षर

(प्रो. एस. एम. साजिद)

कुलसचिव

वर्षात 31 मार्च 2011 के लिये जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

हमने नियंत्रक और महालेखापरीक्षक अधिनियम 1971 के अनुच्छेद 19(2) (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा शर्तों) के साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 के अनुच्छेद 28, के अंतर्गत समापन वर्ष के लिए 31 मार्च 2011 के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के संलग्न तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा संपन्न कर ली है। हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर आधारित इन वित्तीय विवरणों के लिये विश्वविद्यालय प्रबंधन उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

1. इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखाकरण परिपाटियों के साथ सुनिश्चिता लेखाकरण मानक एवं प्रतिमान आदि के संदर्भ में लेखाकरण व्यवहार पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत सरकार (सी ए जी) की टिप्पणियाँ दर्ज की गयी हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (संपत्ति एवं विनियमितता) एवं दक्षता-सह-कार्य प्रदर्शन आदि के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेनदेन पर महालेखा परीक्षा प्रेक्षकों को संवीक्षा प्रतिवेदनों/सी ए जी के पृथक लेखापरीक्षक प्रतिवेदन के जरिये प्रस्तुत कर दिया गया है।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों की जरूरत के अनुरूप यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह वित्तीय भूलों संबंधी भूलों से मुक्त है अथवा नहीं, लेखा परीक्षा को कार्यान्वित किया। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर निरीक्षण, वित्तीय विवरणों में प्रकटन एवं राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों को समावेश किया जाता है। एक लेखापरीक्षा में, उपयोग में लाये गये लेखकृत मूलधन तथा प्रबंधन द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण प्राक्कलन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समय प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा से हमारे मत को एक विश्वसनीय आधार प्राप्त होगा।

3. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं कि :

- (i) हमने समस्त स्पष्टीकरण एवं सूचनाएँ जो कि हमारी सर्वाधिक जानकारी एवं अनुमान के अनुसार लेखापरीक्षा के लिये आवश्यक थीं, प्राप्त कर ली हैं।
- (ii) इस प्रतिवेदन में, तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है।
- (iii) हमारे मतानुसार जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा लेखाओं की समुचित पुस्तिकाएँ एवं अन्य संबंधित रिकार्ड तैयार किये जाते रहे हैं जो कि ऐसी पुस्तिकाओं के हमारे मूल्यांकन से भी स्पष्ट हैं।
- (iv) हमारे प्रतिवेदन में आगे हैं।

A. तुलन-पत्र

A-1 परिसंपत्तियाँ

A.1.1 स्थिर परिसंपत्तियाँ (अनुसूची 4)

- (i) वर्ष के दौरान प्रायोजित परियोजनाओं से निर्मित परिसंपत्तियाँ 1462.24 लाख की थीं जिन्हें विश्वविद्यालय की परिसंपत्ति में शामिल कर लिया गया तथापि इन्हें विश्वविद्यालय की परिसंपत्ति तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि संबंधित प्रायोजित प्राधिकरण परियोजना को समाप्त कर के उसे विश्वविद्यालय को नहीं सौंप देता इसके अतिरिक्त सिगनिफिकेंट लेखा नीतियों (अनुसूचि - 19) के कम संख्या-9 के अनुसार विश्वविद्यालय ने स्वयं घोषणा किया था कि प्रयोजनों द्वारा परियोजनाओं हेतु प्राप्त होने वाली राशि को देयता माना जाएगा। अतः इस प्रकार की निधियों से निर्मित परिसंपत्तियों का विश्वविद्यालय की परिसंपत्तियों के साथ शामिल किया जाना गलत है इस परिणाम यह हुआ है कि परिसंपत्तियों एवं पूंजी दोनों की एक जैसी राशि का ओवरस्टेटमेंट हुआ है।

- (ii) स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री पर लेखा मानक संख्या : 10 के अनुसार वित्तीय स्टेटमेंट में से परिसंपत्तियों को निकाल देना चाहिए तथा स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि को आई एण्ड ई लेखा में क्रेडिट या चार्ज करना चाहिए। विश्वविद्यालय ने उपरोक्त लेखा मानकों को नहीं अपनाया है तथा इन परिसंपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ या हानि की गणना बगैर बिके हुए परिसंपत्ति के डबल्यू. डी. वी. को कम करने के स्थान पर स्थिर परिसंपत्ति की अनुसूची में से 2.12 लाख की स्थिर परिसंपत्ति की राशि को बिक्री आय को ही कम कर दिया है।

A.1.2 चालू परिसंपत्ति लेन एवं अग्रिम (अनुसूचि-७)

- (i) ₹.168.67 लाख की प्रोद्भूत ब्याज राशि (यू. डी. एफ. ₹.13.71 लाख, उद्दिष्ट ₹.51.87 लाख, जमा ₹.91 लाख, राजस्व ₹.1.60 लाख, छात्रावास एवं रसोई ₹.1.47 लाख एवं प्लान ₹.09.02 लाख की गणना नहीं की गई है परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों को कम आंका गया है तथा घाटा जैसी राशि का ओवर स्टेटमेंट हुआ है।

- (ii) राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं / सामयिकी हेतु वर्ष के दौरान ₹.83.82 लाख का अभिदान कैपिटलाइज्ड हुआ जिसमें वित्तीय वर्ष 2011-12 में ही ₹.62.90 लाख की अग्रिम अभिदान शामिल है जिससे चालू परिसंपत्ति का अंडरस्टेटमेंट हुआ है तथा स्थिर परिसंपत्ति में ₹.62.90 लाख की राशि का ओवरस्टेटमेंट हुआ है।

इसके अतिरिक्त इन पत्रिकाओं / सामयिकी पर 10 प्रतिशत की दर से मूल्यवृद्धि हुआ है जिससे परिणामस्वरूप मूल्यवृद्धि में ₹.6.30 लाख की राशि का ओवर स्टेटमेंट हुआ है।

- (iii) विश्वविद्यालय परिसर में एम.टी.एन.एल. के रिमोट सेंसिंग यूनिट हेतु एम टी एन एल से ₹.18.41 लाख की लाइसेंस फीस की राशि वसूलीयोग्य है जिसकी गणना नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्ति का अंडर स्टेटमेंट हुआ है तथा मूल्यवृद्धि की समान राशि का ओवर स्टेटमेंट हुआ है।

- (iv) “भरमत्त एवं रख-रखाव” के अंतर्गत वेप पॉर्टल के विकास हेतु ₹.5.96 लाख के अग्रिम मुगतान को खर्च के रूप में दर्शाया गया है जिसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्ति (अग्रिम) को अंडरस्टेटमेंट हुआ है तथा खर्च की समान राशि का ओवर स्टेटमेंट हुआ है।

B. आय एवं व्यय लेखा

B.1 व्यय

B.1.1 प्रशासनिक व्यय (अनुसूची - १६)

- (i) पहले की अवधि के ₹.160.77 लाख के खर्च की गणना वित्तीय वर्ष के दौरान की गई है जिसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक व्यय का ओवरस्टेटमेंट हुआ है तथा पहले की अवधि के समान राशि का अंडर स्टेटमेंट हुआ है।

- (ii) ₹.79.27 लाख के बकाया खर्च हेतु कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है जिसके परिणाम स्वरूप खर्च एवं प्रावधान की समानराशि का अंडरस्टेटमेंट हुआ है।

C. तुलन-पत्र (जी. पी एफ.)

C.1 परिसंपत्ति

- C.1.1 सरकारी सिक्करिटिज़ में ₹.40.31 करोड़ के निवेश पर ₹.74.92 लाख के प्रोद्भूत ब्याज की गणना नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्ति एवं समान राशि के ब्याज रिजर्व का अंडरस्टेटमेंट हुआ है।

C.1.2 रु.134.07 लाख की सही राशि के स्थान पर आर. बी. आई. बॉन्ड पर प्रोद्भूत ब्याज की रु.129.30 लाख दर्शाया गया है जिसके परिणामस्वरूप व्यस्क रु.4.77 लाख की परिसंपत्ति और ब्याज रिजर्व का अंडर स्टेटमेंट हुआ है।

C.1.3 एफ डी पर प्रोद्भूत ब्याज को रु.41.16 लाख ज्यादा दर्शाया गया है जिसके परिणामस्वरूप रु.41.16 लाख के प्रोद्भूत ब्याज एवं प्रोद्भूत रिजर्व का ओवरस्टेटमेंट हुआ है।

D. सहायता अनुदान

वर्ष 2009-10 के दौरान जामिया मिल्लिया इस्लामिया को 22424.50 लाख रु. के अनुदान प्राप्त हुए (प्लान रु.7585.00 गैर प्लान रु.13513.50 लाख तथा अन्य रु.1326.00 लाख)। इस अनुदान से जामिया ने रु.1625.51 लाख की प्राप्तियां अर्जित कीं (प्लान रु.122.08 लाख गैर प्लान रु.1.37 लाख)। कुल उपलब्ध निधियों में से रु.21363.65 लाख की राशि का उपयोग किया गया (प्लान रु. 4272.05 लाख, गैर प्लान रु.16113.43 लाख तथा अन्य रु.978.17 लाख) जिससे शेष रु.3794.23 लाख (प्लान रु.3445.03 लाख और अन्य रु.349.20 लाख रह गया) रु.1107.87 लाख के अतिरिक्त व्यय जो गैर प्लान के अंतर्गत था उसकी पूर्ति जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने अपनी पूंजी निधि से की।

V-

विगत चैतों में हमारे निरीक्षणों के अनुसार हम यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं कि इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा /प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा पुस्तकों के अनुसार है। हमारे मतानुसार एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण, लेखा नीतियों एवं लेखा-विवरणों से मिलान किये जाने पर तथा उस पर दर्शाए गए महत्वपूर्ण मामलों एवं इस प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट में दर्ज अन्य मामलों के संदर्भ अनुसार एक वास्तविक एवं निष्पक्ष स्थिति को दर्शाते हैं जो कि भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है :

- a. जहाँ तक कि कवे 31 मार्च 2011 को जामिया मिल्लिया की कार्य-स्थिति के तुलन-पत्र से संबंध है।
- b. जहाँ तक कि वे समापन वर्ष के लिये उस तिथि को आय एवं व्यय लेखा के घाटे से संबंध है।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 8.11.2011

अस्वीकरण :

कृते नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, भारत

हस्ताक्षर

महानिदेशक, लेखापरीक्षा

केंद्रीय व्यय

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

सलग्नक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1- आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

- विश्वविद्यालय अपना आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग स्थापित कर चुका है।
- अप्रैल 2005 मार्च 2011 की अवधि के दौरान 197 में निबंध अपत्तियों को सुलझाने के क्रम में समुचित फोलो-अप कार्यवाही नहीं की गयी है। वे अपत्तियां अभी भी लंबित हैं।

2- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :

मामलों पर नियंत्रण

- 01.08.2011 तक 10 मामले अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये लंबित पड़े थे

अनुवीक्षण

- लेखापरीक्षा अपत्तियों पर प्रबंधन का उत्तर प्रभावी नहीं पाया गया। क्योंकि वर्ष 2000-01 से 2010-11 की अवधि से संबंध 10 परे अभी भी बकाया है।

3- परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन हेतु प्रणाली

- वर्ष 2005-06 से नियत परिसंपत्तियों (गाड़ियों को छोड़कर) का वास्तविक सत्यापन नहीं किया गया है। अतः लेखाओं में समावेशित नियत परिसंपत्तियों के वास्तविक अस्तित्व को सत्यापित नहीं किया जा सका।
- विश्वविद्यालय द्वारा प्लान फंड/प्रायोजित परियोजना/डिप्ट/इंडोमेंट फंड से निर्मित परिसंपत्तियों से संबंधित परिसंति राजिस्ट्रों का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

4. इनवेंटरी के लिये वास्तविक सत्यापन प्रणाली

- प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात् पुस्तकों और प्रकाशनों की वास्तविक सत्यापन किया जाता है। पिछला वास्तविक सत्यापन वर्ष 2010-11 के दौरान किया गया था। रिपोर्ट कार्य प्रगति पर है तथा उसे प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा।
- वर्ष 2010-11 के लिये स्टेशनरी के स्टॉक एवं अन्य उपभोग्य वस्तुओं का वास्तविक सत्यापन किया गया था और कोई विसंगति नहीं पायी गयी।

5. वैधानिक देयों के भुगतान की नियमितता

- वैधानिक देयों के संदर्भ में 31.03.2011 तक 6 महीने से अधिक का भुगतान बकाया नहीं था।

वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखा के लेखापरीक्षा प्रेक्षण पर टिप्पणी।

पैरा संख्या	प्रेक्षण का संक्षिप्त विवरण	टिप्पणी
A.	तुलन पत्र	
A.1	परिसंपत्तियाँ	
A.1.1	स्थिर परिसंपत्तियाँ (अनुसूची-४)	
(i)	प्रयोजित परियोजनाओं से निर्मित रु.1462.24 लाख की राशि की परिसंपत्तियों को विश्वविद्यालय परिसंपत्तियों के साथ शामिल कर लिया गया है	शामिल परिसंपत्तियाँ वह हैं जिनका प्रायोजक द्वारा परिसंपत्ति के स्वामित्व के बारे में कोई अनुबंध नहीं था।
		स्थिर परिसंपत्तियों संबंधी लेखा-नीति के अनुसार प्रतिपादन किया गया है जिसकी चर्चा अनुसूची 19 के पैरा 3.5 में की गई है जिसे यह कहा गया है कि "उद्दिष्ट निधियों एवं प्रायोजित परियोजनाओं द्वारा निर्मित परिसंपत्तियाँ जिनपर विश्वविद्यालय का स्वामित्व होता है, को पूंजीगत निधि में क्रेडिट करके व्यवस्थित किया जाता है तथा इनको विश्वविद्यालय के स्थिर परिसंपत्ति में शामिल किया जाता है
(ii)	रु.2.12 लाख के बिक्री आगम के प्रतिपादन, जो स्थिर परिसंपत्ति की बिक्री पर है, के लिए विश्वविद्यालय द्वारा ए.एस-10 का पालन नहीं किया जाता है।	लेखा परीक्षा ने अपने प्रेक्षण में लेखा नीति के पैरा संख्या 9 को उल्लेख गलती से किया है जिसका संबंध प्रायोजित परियोजनाओं के लेखा से है न कि उनसे निर्मित स्थिर परिसंपत्तियों से।
A.1.2	चलू परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची 7)	अनुपालन हेतु नोट किया गया है।
(i)	रु.168.67 लाख के प्रोद्भूत ब्याज राशि की गणना नहीं की गई है	अनुपालन हेतु नोट किया गया है।
(ii)	वर्ष के दौरान पत्रिकाओं पर रु.83.82 का अभिदान खर्च हुआ है जिसमें वर्ष 2010-11 में रु.62.90 लाख का अग्रिम शामिल है	अनुपालन हेतु नोट किया गया है।
(iii)	एम टी एन एल से रु.18.41 लाख की वसूली योग्य राशि की गणना नहीं की गई है।	अनुपालन हेतु नोट किया गया है।
(iv)	वर्ष पोर्टल के विकास है रु.5.96 लाख के अग्रिम भुगतान को व्यय के रूप में दर्शाया गया है।	यह अंतिम भुगतान का मामला है, अतः लेखा में व्यय के अंतर्गत ठीक ही दर्शाया गया है

B.	आय एवं व्यय लेखा		
B.1	व्यय		
B.1.1	प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-16)		
(i)	पूर्व अवधि के रु.160.77 लाख के खर्च को चालू वित्तिय वर्ष के दौरान गणना किया गया है।	अनुपालन हेतु नोट किया गया है।	
(ii)	रु.79.27 लाख के बकाया खर्च हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।	अनुपालन हेतु नोट किया गया है।	
C.	तुलन - पत्र (जी. पी. एफ.)		
C.1	परिसंपत्तियाँ		
C.1.1	सरकारी सिक्करीटीज में रु.40.31 करोड़ के निवेश पर रु.74.92 लाख के प्रोद्भूत ब्याज की गणना नहीं की गई है।	अनुपालन हेतु नोट किया गया है।	
C.1.2	रु.134.07 लाख की सही राशि के स्थान पर आर. बी. आई. बांच पर प्रोद्भूत ब्याज को रु.129.30 लाख दर्शाया गया है।	अनुपालन हेतु नोट किया गया है।	
C.1.3	फिक्स्ड डिपोजिट्स पर प्रोद्भूत ब्याज की रु.41.16 लाख ज्यादा दर्शाया गया है।	अनुपालन हेतु नोट किया गया है।	
D.	सहायता अनुदान		
	रु.1107.87 लाख के अतिरिक्त व्यय जो गैर-प्लान के अंतर्गत या उसकी पूर्ति जाँचिया मिल्लिया इस्लामिया ने अपनी पूंजीगत निधि से की।	वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति लाभ एवं स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास आदि से संबंधित बनाए गए प्रावधानों से अधिक व्यय हुआ जिसके लिए कोई सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई जिसकी वजह से पूंजीगत निधि प्रभावित हुई।	

हस्ताक्षर

(प्रो.शाहिद अशरफ)

वित्त अधिकारी

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai, the 24th January 2012

DBOD. No. Ret.BC.73/12.01.001/2011-12—In exercise of the powers conferred under the sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 and in partial modification of the earlier notification DBOD. No. Ret.BC.89/12.01.001/2009-10 dated April 20, 2010, the Reserve Bank of India hereby notifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by every Scheduled Commercial Bank shall be 5.50 per cent of its net demand and time liabilities from the fortnight beginning January 28, 2012.

B. MAHAPATRA
Executive Dir.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi, the 9th January 2012

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 1-CA(7)/143/2012—In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a Branch of Southern India Regional Council at Sivakasi in Virudhunagar District, Tamil Nadu with effect from November 9th, 2011.

The Branch shall be known as Sivakasi Branch of the Southern India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall, besides Sivakasi City, include following the taluka falling in Virudhunagar District

1. Rajapalayam
2. Virudhunagar
3. Srivilliputhur
4. Sattur
5. Aruppukaottai

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Southern India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

T. KARTHIKEYAN
Secy.

No. 1-CA(7)/144/2012—In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a Branch of Southern India Regional Council at Kannur in Kannur District, Kerala with effect from December 27, 2011.

The Branch shall be known as Kannur Branch of the Southern India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall, besides Kannur City, include following the cities/towns falling in Kannur District, Kerala

1. Chemperi
2. Chendayad P.O.
3. Edavaramba P.O.
4. Errity
5. Kadchira
6. Kadirur
7. Mattanur
8. Morazha P.O.
9. Palavayal
10. Payyanur
11. Peringathur
12. Taliparamba
13. Tellicherry
14. Udayagiri

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Southern India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

T. KARTHIKEYAN
Secy.

16 NOV 2011

3NCA(5) / 1 / 2010-2011 : With reference to this Institute's Notification Nos. 3NCA(4)/1/2010-2011 dated 05 September, 2011

It is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored retrospectively to the Register of Members with effect from 01/10/2010 the names of the following members :-

S.No.	Roll No.	Member's Name	S.No.	Roll No.	Member's Name
1	004823	CA. KAPOOR KEWAL KRISHAN	43	071737	CA. CHORDIA ASHOK KUMAR
2	005121	CA. BAKSHI PREM NATH	44	072872	CA. AGARWAL ALOK KUMAR
3	007935	CA. SETH INDRAJIT	45	072917	CA. ANIL KUMAR
4	008224	CA. JITENDAR NATH	46	073234	CA. PADMANABHAN R
5	009152	CA. GROVER PRAMOD	47	074973	CA. GUPTA ANUP KUMAR
6	009549	CA. KAPOOR RAMESH CHANDER	48	075076	CA. GUPTA SANDEEP KUMAR
7	010474	CA. SUREKA GHANSHYAM PRASAD	49	076188	CA. MITTAL NEETU
8	011742	CA. SARDANA DHARAM VIR	50	076667	CA. VERMA SANJAY
9	013067	CA. KAILASAM Y	51	077423	CA. JAIN RAKESH KUMAR
10	013118	CA. JAIN SHRI CHAND	52	077796	CA. AGARWAL ANURAG
11	016485	CA. NARANG JARNAIL SINGH	53	077804	CA. KOUL RAMESH
12	016543	CA. TAKHTANI LACHMAN DASS	54	077916	CA. SETHI VINEY
13	016914	CA. KOCHHAR DEEPAK	55	078067	CA. SINGHAL ROHIT
14	017554	CA. SANTOSH KUMAR VAID	56	078075	CA. SINGHVI MAHAVEER
15	017563	CA. GULATI RAJINDER KUMAR	57	079140	CA. PRAVEEN VERMA
16	018907	CA. VIJAYA KUMAR S	58	079162	CA. SETH SANJAY
17	028106	CA. SUJATHA R	59	079428	CA. GARG VISHAL
18	039219	CA. AGARWAL ASHOK KUMAR	60	079801	CA. NAGAR PUJA
19	041580	CA. AYALUR SUBRAMANIAN NARAYAN	61	079832	CA. POTDAR ANURAG
20	049080	CA. CHORAWALA DAXA CHANDRAKANT	62	080062	CA. PASRIJA MULKH RAJ
21	051616	CA. SAHA JAGADISH PRASAD	63	080161	CA. MEHRA ASHOK KUMAR
22	052650	CA. BARUA SAURINDRA KUMAR	64	080179	CA. SUMAT PRAKASH
23	054008	CA. TEKRIWAL ASHISH KUMAR	65	080296	CA. DHINGRA KRISHAN KUMAR
24	054214	CA. ADITI DEY	66	080768	CA. AHUJA ARUN KUMAR
25	054289	CA. ABID HUSSAIN	67	080892	CA. PEER ROSHAN LAL
26	058035	CA. JAIN DHRUV	68	081129	CA. GUPTA VIR CHAND
27	058148	CA. DALMIA RAJESH KUMAR	69	081253	CA. RAM GOPAL
28	058363	CA. SARCAR SANGHAMITRA	70	081581	CA. MALHOTRA MAN MOHAN
29	058659	CA. T R SURESH	71	081738	CA. GARG RAM BILAS
30	059784	CA. BAGARIA RAHUL	72	081834	CA. SHARMA SIDDHANTA
31	060137	CA. JOSHI SARITA	73	081850	CA. CHUGH ANIL KUMAR
32	060448	CA. VYAS SANT KUMAR	74	081855	CA. JAIN RAMESH CHAND
33	060603	CA. RAY SAURAV	75	082010	CA. DHUPAR SUNIL
34	061164	CA. LODHA NARAYAN	76	082046	CA. MUNISH KUMAR
35	061341	CA. PILANIWALA MINU KUMAR	77	082071	CA. LUXMI NARAIN
36	061689	CA. AGARWAL VIRENDRA	78	082155	CA. NARAIN PREM
37	062909	CA. JHA VIJAYA NAND	79	082169	CA. KRISHAN KUMAR GARG
38	064394	CA. RAPTI BASU	80	082320	CA. GUPTA ANIL KUMAR
39	066269	CA. ASHUTOSH MISHRA	81	082331	CA. JAIN ANIL KUMAR
40	066892	CA. RAKSHIT KAPOOR	82	082564	CA. GUPTA RAJIV
41	070923	CA. AGARWAL DINESH	83	082903	CA. AGARWAL BRIJESH KUMAR
42	071486	CA. ASHWANI KUMAR	84	082915	CA. SUNIL KUMAR

85	082944	CA. SAWHNEY ASHWANY KUMAR	137	086947	CA. NANDA MANOJ KUMAR
86	083037	CA. NARINDER KUMAR	138	086979	CA. SETH SANDEEP
87	083334	CA. KAPOOR ARUN KUMAR	139	087104	CA. AGARWAL JITENDRA
88	083377	CA. SADDY SANJIV	140	087266	CA. JAIN PANKAJ
89	083635	CA. TIBREWALA PRAMOD KUMAR	141	087315	CA. AGGARWAL SUNIL KUMAR
90	083716	CA. GUPTA KRISHAN KUMAR	142	087399	CA. JAIN SANJAY
91	083768	CA. ROHTASH KUMAR	143	087619	CA. JOHRI RAM MOHAN
92	084027	CA. KASHYAP VINOD	144	087676	CA. GUPTA VIJAY KUMAR
93	084118	CA. GUPTA SANJIV	145	087757	CA. KAPOOR RAJEEV
94	084218	CA. JOSHI RAVINDER KUMAR	146	087771	CA. SARVADAMAN
95	084224	CA. GUPTA RAJEEV KUMAR	147	087828	CA. SACHAR PANKAJ
96	084246	CA. BANSAL SHIV RAJ	148	087845	CA. SUNIL KUMAR
97	084275	CA. RAMESH CHAND	149	087907	CA. SHARMA DHIRENDRA
98	084277	CA. ANAND AJAY KUMAR	150	087994	CA. GUPTA VINOD KUMAR
99	084342	CA. KHOSLA GAGAN	151	088030	CA. ANEJA HARVINDER SINGH
100	084352	CA. SACHDEVA MAN MOHAN	152	088050	CA. MAGHAN YOGESH KUMAR
101	084375	CA. KALRA PRAHLAD NARAYAN	153	088188	CA. SETHI ANIL
102	084425	CA. VADEHRA SUHARSH MOHAN	154	088207	CA. HASIJA SANJAY
103	084460	CA. VERMANI DINESH	155	088290	CA. SHYAM SUNDER
104	084545	CA. LEKH RAJ	156	088295	CA. RAMA R
105	084579	CA. NARANG VINOD	157	088459	CA. BHANDARI NEERAJ
106	084668	CA. UJJAL DIDAR SINGH	158	088521	CA. AHUJA AJOY
107	084680	CA. SHARMA ANAND PARKASH	159	088601	CA. GUPTA MADHU SUDAN
108	084758	CA. RAVI KUMAR V	160	088607	CA. GUPTA HIMANSHU
109	084811	CA. MEHTA SANJAY	161	089023	CA. JAIN PARVEEN KUMAR
110	084998	CA. RAHEJA ANAND	162	089025	CA. MALHOTRA SANJIV
111	085303	CA. GUPTA JAI PARKASH	163	089026	CA. AGGARWAL ANIL KUMAR
112	085428	CA. DUA VIJAY KUMAR	164	089099	CA. VIRK PRABHJIT SINGH
113	085476	CA. LORKAR CHANDRA SHEKHAR BHASKAR	165	089153	CA. JAIN RAKESH KUMAR
114	085483	CA. MEHROTRA SUSHEEL KUMAR	166	089186	CA. GHATGE INDERJIT SINGH
115	085533	CA. GUPTA RATNESH KUMAR	167	089286	CA. BHAT AJAY KUMAR
116	085585	CA. KHOSLA ARUN KUMAR	168	089584	CA. AGARWAL RAJEEV
117	085605	CA. SUSHIL KUMAR	169	089704	CA. HARIHARAN V S
118	085643	CA. GUPTA RAJIV	170	089887	CA. GOEL NITIN K
119	085652	CA. SUNIL KUMAR	171	089904	CA. SHARMA SURESH
120	085964	CA. SOOD RAJEEVE	172	089946	CA. GUPTA DEEPAK
121	086057	CA. LOONA UMESH KUMAR	173	089990	CA. AGGARWAL ROHINI
122	086217	CA. JAISINGH MUKESH KUMAR	174	090026	CA. MITTAL RAKESH KUMAR
123	086247	CA. MARWAHA RAMAN	175	090243	CA. SOOD RAJIV
124	086283	CA. CHADHA ARUN	176	090395	CA. SHARMA AJAY
125	086295	CA. SURESH KUMAR	177	090450	CA. GOYAL AJAY
126	086350	CA. AGARWALA PEEYUSH KUMAR	178	090512	CA. JAIN PANKAJ
127	086391	CA. SAWHNEY AJAY	179	090513	CA. GUPTA AVINASH
128	086436	CA. SAINI GANGA DHAR	180	090587	CA. RAJIV KUMAR
129	086458	CA. AJAY RELAN	181	090590	CA. CHUGH ALOK
130	086629	CA. SHARMA NARESH	182	090618	CA. MANISH CHANDRA
131	086748	CA. SHEKHAR BABOO	183	090685	CA. MALHOTRA SANJAY
132	086843	CA. CHOPRA SUNIL	184	090694	CA. REKHI SUNIL
133	086863	CA. DUDHA SHIBAN KRISHEN	185	090843	CA. SHYAM LAL
134	086871	CA. PLAHA RAJEEV	186	090965	CA. DUA GULSHAN
135	086902	CA. MATHUR DILIP NATH	187	091048	CA. GUPTA VIVEK
136	086944	CA. MIGLANI CHANDER KANT	188	091087	CA. BHALLA MANISH
			189	091187	CA. AGARWAL LALIT KUMAR

190	091290	CA. PANDEY GHAN SHYAM	243	094485	CA. BATRA SUNIL
191	091346	CA. KHANNA DEEPAK	244	094488	CA. GUPTA PAWAN
192	091363	CA. BAHL SANJAY	245	094575	CA. CHAUDHARY RAKESH KUMAR
193	091366	CA. SALIL KUMAR	246	094623	CA. AGRAWAL MAHENDRA KUMAR
194	091600	CA. BEHL ADESH CHANDER	247	094861	CA. GUPTA SAMEER
195	091502	CA. ASHOK KUMAR	248	094897	CA. NARESH KUMAR
196	091530	CA. DEEPAK KUMAR MAHAJAN	249	095010	CA. SUSHIL KUMAR
197	091562	CA. MITTAL AJAY KUMAR	250	095059	CA. SINGH GURVINDER
198	091593	CA. ANIL KUMAR	251	095068	CA. MAHAJAN RENU
199	091679	CA. RAJESH KUMAR GUPTA	252	095095	CA. MOHAN AMIT
200	091764	CA. SUNIL KUMAR	253	095204	CA. PAHWA PUNEET
201	091838	CA. SACHDEVA BHUPESH CHANDRA	254	095219	CA. BATRA NEERAJ
202	091848	CA. GUPTA MANISH	255	095319	CA. TARUN KUMAR
203	091895	CA. SETH JAGMOHAN SINGH	256	095475	CA. JAIN NAVEEN KUMAR
204	092049	CA. KAPOOR RAJESH	257	095489	CA. MAGANDEEP
205	092150	CA. GUPTA RISHI PRAKASH	258	095491	CA. VIJAY KUMAR
206	092158	CA. BANSAL GOVIND	259	095506	CA. GUPTA SANJAY
207	092223	CA. SHARMA ANUP	260	095529	CA. GULATI AMAN
208	092265	CA. SINGH DHARMVEER BRIJANAND	261	095535	CA. KAPOOR NITIN
209	092392	CA. SAMIR SINGH	262	095562	CA. MANISH KUMAR
210	092506	CA. MITTAL SUSHIL KUMAR	263	095565	CA. SUNIL KUMAR
211	092562	CA. GUPTA ASHWANI	264	095578	CA. BHAT SUNIL KUMAR
212	092594	CA. GAUR ABNISH BABU	265	095612	CA. BHALLA AMIT
213	092675	CA. JAIN POORNIMA	266	095633	CA. KASHMIR SINGH SOKHAL
214	092741	CA. MALIK SANJAY			
215	092742	CA. BHATIA RAJEEV	267	095655	CA. KOHLI GAGAN
216	092802	CA. SINHA RACHANA	268	095679	CA. GAURAV KUMAR
217	092828	CA. OBEROI JAGDEEP SINGH	269	095761	CA. GARG PRITI
218	092855	CA. JAIN SOMESH KUMAR	270	095810	CA. KAVITA RANI
219	092866	CA. BAHRI SAMEER	271	095861	CA. VERMA SANJAYA KUMAR
220	092944	CA. YADAV RAJESH	272	095895	CA. INDERDEEP SINGH
221	092953	CA. SANGHI RUCHI	273	095898	CA. KANSAL DEEPAK
222	093038	CA. ASHWANI KUMAR	274	095909	CA. JAIN AJAY
223	093099	CA. BHATIA RAMESH	275	095946	CA. KHURANA RAJESH KUMAR
224	093121	CA. JAIN RAJEEV	276	096006	CA. GAGAN KUMAR
225	093135	CA. GULATI PAWAN	277	096011	CA. SUSHIL KUMAR
226	093208	CA. KHETAN DINESH	278	096028	CA. CHADHA ROHIT
227	093267	CA. NAYYAR RISHI	279	096048	CA. BANSAL BHAVNA
228	093342	CA. RASTOGI RITU	280	096056	CA. JITENDER KUMAR
229	093379	CA. SUBHASH CHANDRA	281	096089	CA. GARG JAI PRAKASH
230	093386	CA. RAKESH KUMAR	282	096213	CA. GUPTA NIDHI
231	093398	CA. SHARMA NEERAJ	283	096299	CA. VERMA VIKAS
232	093523	CA. J ANAND	284	096314	CA. PAUL SUJAY
233	093540	CA. TIWARI ASHUTOSH	285	096383	CA. MAHAJAN VIPIN
234	093861	CA. SUDHIR KUMAR	286	096424	CA. AGRAWAL RAKESH
235	093916	CA. AGRAWAL AKHILESH	287	096517	CA. BATRA YOGESH KUMAR
236	093924	CA. INDU BALA	288	096563	CA. DHAWAN DEEPAK
237	094019	CA. JOGINDER SINGH	289	096651	CA. GUPTA ARUN KUMAR
238	094067	CA. CHAUDHARY SANDEEP	290	096813	CA. SETIA ANIL KUMAR
239	094183	CA. SANDEEP KUMAR	291	096815	CA. KAKKAR RAJEEV
240	094276	CA. RAJA ICHPLANI	292	096902	CA. RAJIV KUMAR
241	094360	CA. GUPTA ARUN	293	097007	CA. SINGHAL RUCHIKA
242	094427	CA. SANDEEP KUMAR	294	097099	CA. GUPTA POOJA

295	097207	CA. VERMA DINESH	347	099885	CA. SAMYAL VIKAS
296	097281	CA. SINGH INDERJEET	348	099886	CA. GUGNANI SHWETA MOHAN
297	097301	CA. RAJEEV KUMAR	349	099872	CA. VERMA NAMRATA
298	097378	CA. BHOMIA VEENA	350	099978	CA. SHARMA SACHIN
299	097425	CA. AGGARWAL LALIT	351	108857	CA. SHARMA ARCHANA PARASHRAM
300	097463	CA. KAPOOR MANPREET SINGH	352	109767	CA. VIJAY BAXIRAM PALIWAL
301	097484	CA. SINGH HARJINDER	353	111605	CA. PALIWAL SHASHANK SHIV DUTT
302	097499	CA. NANDA MANINDERJEET SINGH	354	113098	CA. YADAVENDRA SINGH
303	097605	CA. SUNIL KUMAR	355	121089	CA. RAJIV BANSAL
304	097640	CA. KAUR GAGANDEEP	356	123424	CA. DEEPAK KUMAR GHANSHYAMDAS ARORA
305	097644	CA. BANSAL HARI KRISHAN	357	123733	CA. MANJIT SOMNATH PRAKASH CHAUDHARY
306	097686	CA. SINGH YOGINDER	358	124358	CA. MAHAK JAIN
307	097740	CA. KHOSLA SHEONALLI	359	125336	CA. VIVEK SHARMA
308	097747	CA. GULATI SIMPLE	360	204898	CA. ADITYAN R
309	097759	CA. AGARWAL ASHISH	361	210520	CA. KRISHNAN T R
310	097822	CA. KOTHARI VIKASH KUMAR	362	213528	CA. KIRAN KUMAR T
311	097874	CA. GUPTA PUNEET	363	214760	CA. GOPAL KUMAR AGARWAL
312	097896	CA. ARORA AMIT	364	218754	CA. SUDHANSHU SETIA
313	097899	CA. SEIN BHEEM	365	218793	CA. NITESH CHOUDHARY
314	097918	CA. RAJPAL AJAY	366	220324	CA. AJAY DALMIA
315	097951	CA. AGARWAL JYOTI	367	221605	CA. TUNUGUNTALA JAGADEESH
316	098111	CA. SINGH GAGAN DEEP	368	400582	CA. SHARMA PRASHANT
317	098184	CA. GARG VISHAL	369	401030	CA. GUPTA DINESH KUMAR
318	098215	CA. GUPTA NITIN	370	401394	CA. BHARGAVA ABHISHEK
319	098223	CA. ASHISH KUMAR	371	401618	CA. RUNGTA JAYA
320	098379	CA. JHAWAR ACHIN	372	401657	CA. AGRAWAL SUFAL
321	098500	CA. CHHILLAR KULDEEP	373	402482	CA. AGARWAL RAJAT
322	098525	CA. DEEPAK KHULLAR	374	402947	CA. AHUJA USHA
323	098541	CA. KALANI GAUTAM	375	403141	CA. GOYAL MUKUL
324	098547	CA. NARESH KUMAR	376	403340	CA. PUNIA VINOD
325	098667	CA. SINGAL SUMAN	377	403647	CA. JAIN SHILPI
326	098688	CA. VISHWAKARMA AJAY KUMAR	378	404229	CA. SHALINI SULTANIA
327	098692	CA. GARG AMIT	379	404241	CA. GARHWAL RAVI
328	098751	CA. ARORA MONIKA	380	404255	CA. GURSHARAN KAUR
329	098831	CA. JAIN SIDHARTH	381	404923	CA. BHATTER SHILPA
330	098931	CA. GHIRIA PRAVEEN KUMAR	382	404954	CA. PAREEK AMIT
331	098991	CA. SHARMA AKHIL KUMAR	383	405018	CA. GOEL MANISH KUMAR
332	099004	CA. GUPTA MADHUR	384	405735	CA. RASHMI BHATIA
333	099048	CA. MATHUR SUMIT	385	406850	CA. NITESH JAIN
334	099052	CA. GOEL AMIT	386	407029	CA. JITENDRA KUMAR MISHRA
335	099169	CA. AGRAWAL NARAYAN KUMAR	387	407165	CA. HEMANT ARORA
336	099206	CA. JAIN RAJEEV	388	407467	CA. HIMANSHU SRIVASTAVA
337	099286	CA. KHANDELWAL NITIN KUMAR	389	407794	CA. ABHISHEK SAXENA
338	099389	CA. GUPTA SANDEEP	390	407844	CA. ABHINAV GARG
339	099391	CA. JAIN PARDEEP	391	407871	CA. ROHINI GUPTA
340	099464	CA. VISHAL	392	408482	CA. NITIN SHARMA
341	099521	CA. LOHIA PAWAN	393	408892	CA. PANKAJ KUMAR
342	099596	CA. GOYAL GEETIKA	394	411422	CA. ABHISHEK THAWARIA
343	099751	CA. SINGH GYAN SHANKER PRASAD	395	500014	CA. JAIN MEENU
344	099779	CA. GARG SHOBHIT	396	500020	CA. GUPTA MANOJ
345	099807	CA. BAGHLA PUNEET KUMAR	397	500035	CA. CHAWLA ANIL
346	099828	CA. MINAKSHI			

398	500055	CA. SINGHAL ANIRUDH	451	502228	CA. KHANNA SUVEER
399	500115	CA. KAPOOR SUMIT	452	502233	CA. GUPTA SUNJAY KUMAR
400	500116	CA. KHANNA SACHIN	453	502314	CA. CHANEY GURPREET SINGH
401	500173	CA. JALAN AMIT	454	502344	CA. YADAV APARAJITA
402	500269	CA. KRISHAN KUMAR	455	502608	CA. KANCHAN SAURABH
403	500336	CA. AGRAWAL PRAMOD KUMAR	456	502618	CA. KHAMESH KUMAR
404	500341	CA. BANSAL RAJESH KUMAR	457	502653	CA. SEHDEV AMIT
405	500416	CA. BINDAL SANJAY KUMAR	458	502706	CA. GURNANI GIRISH
406	500524	CA. JAIN VINEET	459	502712	CA. RANA AMIT
407	500527	CA. SINGHAL SUSHIL KUMAR	460	502727	CA. VARINDER SINGH
408	500565	CA. SUMAN	461	502736	CA. KARWAL DEEPAK
409	500577	CA. KAPOOR HARSH	462	502771	CA. SUHRIDH KUMAR
410	500605	CA. NAVRAJ SINGH	463	502772	CA. GILHOTRA AMIT
411	500622	CA. SENGUPTA RAJARSHI	464	502805	CA. MANOJ KUMAR
412	500637	CA. CHAWLA SURENDRA	465	502872	CA. DEWA NAND
413	500876	CA. MAHAJAN AMIT	466	502873	CA. AGGRWAL VINAY
414	500916	CA. MEHRA LALIT	467	502888	CA. BHATIA GARY
415	500989	CA. SETHI RAJIV	468	503084	CA. AMIT KUMAR
416	500999	CA. SABARWAL VINEET	469	503085	CA. JAIN SANJEEV
417	501012	CA. GUPTA VIKAS	470	503181	CA. ASWAL ANURAG SINGH
418	501049	CA. GUPTA MEENAKSHI	471	503182	CA. SARIN GAURAV
419	501051	CA. SINGLA HEENA	472	503200	CA. AMRITA KAUR
420	501054	CA. SAKET KUMAR	473	503378	CA. MITTAL KAPIL
421	501109	CA. ARORA ANSHUL	474	503399	CA. GAURAV KUMAR
422	501173	CA. GEETA GUPTA	475	503405	CA. PLAHA VIKRAM
423	501203	CA. BATRA PAWAN KUMAR	476	503406	CA. SHARMA PRADEEP
424	501209	CA. SAXENA AMIT	477	503423	CA. SINGH ATUL KUMAR
425	501229	CA. CHANDER SHAKHER	478	503587	CA. ARNISH KUMAR
426	501263	CA. PRASHANT KUMAR	479	503590	CA. GAUR RAJESH
427	501366	CA. BANSAL MANOJ KUMAR	480	503606	CA. SRIVASTVA SEEMA
428	501402	CA. GARG VIKAS	481	503625	CA. ARORA AAKASH
429	501524	CA. TAKIAR AMIT	482	503661	CA. BEMBAY RAKESH
430	501530	CA. GARG SANDEEP	483	503697	CA. GUPTA PARESH
431	501563	CA. KHURANA SUNIL	484	503717	CA. KHAN FARMAN AHMED
432	501584	CA. SATAPATHY RUPESH KUMAR	485	503941	CA. BHAN SAMEER
433	501627	CA. NAHATA DIVYA	486	503945	CA. RAJ KUMAR ARYA
434	501628	CA. NAHATA DIPTI	487	503952	CA. CHAUDHARY ASHOK KUMAR
435	501630	CA. SHARMA SANJU	488	504044	CA. GROVER MANISH
436	501666	CA. GAMBHIR RAJ KUMAR	489	504114	CA. TIBREWAL RANJEET KUMAR
437	501690	CA. JAIN ALOK	490	504213	CA. SHAH SUNIL KUMAR
438	501715	CA. PANWAR SANJEEV	491	504240	CA. ARUN KUMAR
439	501788	CA. GAKHAR VIKAS	492	504272	CA. MITTAL PUNESH
440	501796	CA. GUPTA ABHISHEK	493	504449	CA. NAUTIYAL JAGDAMBA
441	501895	CA. BAGLA VIKAS	494	504484	CA. JASWANI RAJESH KUMAR
442	501931	CA. MINOCHA PANKAJ KUMAR	495	504547	CA. SHARMA RAHUL
443	502057	CA. TULI KARAN	496	504586	CA. DUA KAPIL
444	502105	CA. ARORA NARESH	497	504617	CA. BANSAL PANKAJ
445	502142	CA. DALMIA VINAY KUMAR	498	504627	CA. SHASHANK NIWAS
446	502153	CA. MITTAL KAPIL	499	504648	CA. BARNWAL-RAJNI
447	502154	CA. K LAKSHMI	500	504674	CA. SINGLA GAGAN
448	502160	CA. JAIN GAURAV	501	504691	CA. VERMA KAMAL
449	502187	CA. JAIN RATI	502	504786	CA. KHANDLWAL
450	502217	CA. JAIN KIRTI			SANTOSH KUMAR

503	504916	CA. TANGRI VISHAL	556	507171	CA. RAGHAV AGRAWAL
504	504923	CA. LAKHWARA DHEERAJ	557	507209	CA. BIRAJAN PANT
505	504928	CA. PANKAJ KUMAR	558	507223	CA. MANISH SACHDEVA
506	504954	CA. INDERPREET SINGH	559	507278	CA. NEETI MANCHANDA
507	505082	CA. KALIA GAGAN	560	507288	CA. VIPUL JAIN
508	505116	CA. VISWANATHAN ARUN	561	507305	CA. SAREEF AHMED
509	505136	CA. KAPOOR CHANDAN	562	507309	CA. PARAS PURI
510	505159	CA. KUMAR RAJAT SHAIL	563	507318	CA. JITENDRA NARULA
511	505161	CA. MAHESHWARI VISHAL	564	507333	CA. AASHISH GUPTA
512	505170	CA. SINGLA SHIVANI	565	507360	CA. SONIA
513	505178	CA. GOEL AMIT	566	507388	CA. SURENDER KUMAR
514	505186	CA. VIRENDER SINGH	567	507434	CA. DEEPAK GARG
515	505193	CA. SIKKA SIDHI	568	507470	CA. GAURAV KUMAR JETLY
516	505351	CA. RAUTELA SUNIL KUMAR	569	507481	CA. VINITA JAIN
517	505389	CA. AGROYEE VIDHI	570	507483	CA. SADHNA NAYYAR
518	505457	CA. ABHISHEK KUMAR	571	507517	CA. SHARVAN
519	505507	CA. VASHISHTHA AKHILESH	572	507555	CA. SACHIN CHOPRA
520	505549	CA. MATHURIA VINOD KUMAR	573	507586	CA. ABHISHEK SAXENA
521	505610	CA. GUPTA MANUJ	574	507618	CA. NAVEEN KUMAR
522	505644	CA. RAVINDER KUMAR	575	507658	CA. PRASHANT KAMRA
523	505666	CA. GARG SAURABH	576	507705	CA. KIRTI SHANTILAL GANATRA
524	505674	CA. MEHRA KAPIL	577	507786	CA. GAYATRI SETHI
525	505683	CA. RAMVIR	578	507787	CA. MAMTA SAPRA
526	505717	CA. VERMA ANJALI	579	507810	CA. YASHPREET SINGH
527	505780	CA. GUPTA VIVEK	580	507917	CA. TARUN GUPTA
528	505803	CA. PUNEETA	581	507923	CA. NEHA GUPTA
529	505832	CA. INDU NAGAR	582	508011	CA. SILKY KHURANA
530	505836	CA. INDU	583	508022	CA. ANIRUDH GUPTA
531	505877	CA. BARMecha VIKAS	584	508112	CA. RAJESHWAR PRASAD
532	505953	CA. BHATIA AMIT	585	508158	CA. RAKESH KUMAR
533	506086	CA. HARPREET DHIMAN	586	508181	CA. ROHIT MOHAN
534	506202	CA. BHAGAT SINGH SALUJA	587	508224	CA. AMARPREET
535	506205	CA. AMREESH WADHWA	588	508235	CA. SHUBHRA GAMINI
536	506283	CA. RADHIKA BAGLA	589	508251	CA. JATIN NAGPAL
537	506293	CA. ASHOK KUMAR	590	508283	CA. RACHNA AGNIHOTRI
538	506344	CA. PRIYA MALHOTRA	591	508288	CA. KHURSHID ALAM
539	506387	CA. AMAN RISHI	592	508338	CA. ANURODH CHANDRA
540	506394	CA. NIRMAL CHANDRA SAHOO	593	508341	CA. KAMLENDU SHEKHAR
541	506430	CA. DILPREET KAUR	594	508343	CA. RASHID ALI KHAN
542	506447	CA. SHAMMI KUKREJA	595	508390	CA. VISHNU SHANKAR VARSHNEY
543	506494	CA. VINEET MITTAL	596	508414	CA. ARUN RATTAN
544	506525	CA. AMIT AGRAWAL	597	508434	CA. AMIT SACHDEVA
545	508535	CA. ANIL KUMAR	598	508454	CA. SUJEET KUMAR
546	508560	CA. RAJESH BHAGAT	599	508524	CA. MANISH VIJ
547	506730	CA. KRISHANA BADHANI	600	508526	CA. ROHIT MEHROTRA
548	506766	CA. VIMAL PRUTHI	601	508574	CA. KULBHUSHAN SHARMA
549	506783	CA. SAMBHAV JAIN	602	508607	CA. VIKAS BAGGA
550	506817	CA. CHETAN SAINI	603	508628	CA. VIKAS RASTOGI
551	506818	CA. ASHIMA GULATI	604	508709	CA. GAURAV MOHAN
552	506820	CA. SACHIN JAIN	605	508714	CA. DEEPTI GOEL
553	506953	CA. CHETAN ANAND BHATT	606	508729	CA. HANS RAJ TUTEJA
554	507033	CA. ANNU JAIN	607	508752	CA. GOPAL DIXIT
555	507147	CA. SHIVAM KUMAR SHIVESH	608	508808	CA. NITIN SINGHAL

609	508874	CA. ANOOP GUPTA	661	510431	CA. JAYANTI PANDIT
610	508889	CA. NEERAJ BHATIA	662	510458	CA. ROHIT KAPOOR
611	508892	CA. AMIT ARORA	663	510472	CA. RAJESH KUMAR BHARDWAJ
612	508896	CA. GAURAV KHANNA	664	510478	CA. VIKRANT VERMA
613	508939	CA. GAGAN SIDANA	665	510539	CA. RAVINDER KUMAR
614	509058	CA. SHEKHAR KAKAR	666	510566	CA. VIBHOR MAHESHWARY
615	509098	CA. NAVEEN KUMAR JAIN	667	510571	CA. RAJAT CHHABRA
616	509133	CA. VIKAS SETHI	668	510579	CA. DEEPAK BHARDWAJ
617	509143	CA. DIVYA RUSTAGI	669	510584	CA. MOHIT GUPTA
618	509144	CA. SHISHIR CHOUDHRY	670	510602	CA. PRAKASH KUMAR TIWARI
619	509233	CA. MOHIT JAIN	671	510627	CA. HANS RAJ SARASWAT
620	509269	CA. PARAS NATH	672	510701	CA. SAROJ KUMAR
621	509353	CA. JASHODA	673	510747	CA. RAVI SHANKAR
622	509387	CA. TANU KASGAR	674	510794	CA. DINESH KUMAR CHACHAN
623	509429	CA. SANJEET AGRAWAL	675	510808	CA. SHELLY GUPTA
624	509511	CA. ABHISHEK TYAGI	676	510909	CA. SHAMBHU KUMAR MAHTO
625	509523	CA. BIPUL KUMAR DIXIT	677	510967	CA. VIRENDER SINGH
626	509537	CA. SUNIL KUMAR SAKRAL	678	510983	CA. SHASHI SHARMA
627	509553	CA. REKHA GERA	679	511023	CA. ROHIT PURI
628	509559	CA. SHAILESH MAHESHWARI	680	511027	CA. RAJAT KUMAR PRASAD
629	509817	CA. ANAND KUMAR	681	511051	CA. RAJESH CHHABRA
630	509850	CA. RAKESH KUMAR JHA	682	511102	CA. AASHISH MITTAL
631	509886	CA. RAHUL DEEP	683	511125	CA. INDRA JEET AGRAWAL
632	509705	CA. SANJAY VERMA	684	511195	CA. VISHAL BHATIA
633	509725	CA. DOLLY	685	511202	CA. PANKAJ KUMAR
634	509779	CA. DEEPIKA GUPTA	686	511206	CA. JAI DEV PANWAR
635	509808	CA. SUMIT BAHL	687	511217	CA. VISHAL BHARTI
636	509835	CA. VINOD KUMAR PAL	688	511242	CA. POOJA SHARMA
637	509847	CA. HARVEEN SINGH	689	511267	CA. ANUJ SOMANI
638	509850	CA. BHARMIT GABA	690	511269	CA. NIL BAHADUR SARU MAGAR
639	509881	CA. DEVENDRA KUMAR GOYAL	691	511284	CA. AMIT KUMAR
640	509883	CA. PANKAJ KUMAR	692	511290	CA. ABHINAYA VERMA
641	509894	CA. RAKESH KUMAR	693	511295	CA. RAJIV KUMAR SINGH
642	509957	CA. MANISH KUMAR	694	511334	CA. KAVITA GOYAL
643	509969	CA. NAGENDRA GOEL	695	511432	CA. SACHIN GUPTA
644	509993	CA. SACHIN GUPTA	696	511443	CA. RAJESH KUMAR
645	510003	CA. DEEP RUSTAGI	697	511447	CA. KARAN MOUDGIL
646	510007	CA. KSHITIZ ARORA	698	511494	CA. ANKIT KAPOOR
647	510080	CA. CHETNA BHARDWAJ	699	511501	CA. ASHISH KUMAR
648	510084	CA. DIPEN SHARMA	700	511612	CA. VAIBHAV GOYAL
649	510102	CA. AMIT KUMAR	701	511703	CA. AMANDEEP SINGH MAYALL
650	510123	CA. AMIT GUPTA	702	511716	CA. BIJAY KUMAR YADAV
651	510186	CA. NEETU BANSAL	703	511745	CA. RAUSHAN KUMAR KEJRIWAL
652	510193	CA. MUKUL VASHISHATHA	704	511763	CA. SAURABH KUMAR AGARWAL
653	510266	CA. BHAVYA WALIA	705	511908	CA. GAURAV GUPTA
654	510272	CA. GAURAV ARORA	706	511912	CA. RISHI KAPOOR
655	510281	CA. RAHUL GOEL	707	511931	CA. MANDEEP SINGH
656	510282	CA. RAJAN	708	511999	CA. ARUN CHOUDHARY
657	510308	CA. MUKESH VERMA	709	512071	CA. SUKHVINDER SINGH
658	510309	CA. JATIKA ARNEJA	710	512156	CA. DEEPAK SINGLA
659	510312	CA. ANUJ GARG	711	512196	CA. JATIN JINDAL
660	510354	CA. MADHVI BHATIA	712	512208	CA. TRIPTI SHIGHAL

713	512212	CA. JASMEET KAUR	768	513933	CA. ANKUR RASTOGI
714	512219	CA. RANJEET YADAV	769	513938	CA. SUNNY SHARMA
715	512226	CA. SUBHASH KUMAR	770	513947	CA. SONIA AHUJA
716	512255	CA. HIMANSHU ARORA	771	513997	CA. ABHISHEK MATHUR
717	512336	CA. ANUJ SAHNI	772	514153	CA. SHOBIT MEHRA
718	512402	CA. KARAN BANSAL	773	514176	CA. SUMIT CHANDRA AGRAWAL
719	512408	CA. NAVEEN CHANDEL	774	514371	CA. SAKSHI AHUJA
720	512472	CA. FAYAZ AHMAD GANAI	775	514388	CA. SAMBHAV MEHROTRA
721	512486	CA. ANKIT DAGA	776	514396	CA. MANISH AGGARWAL
722	512487	CA. SACHIN GUPTA	777	514421	CA. NEHA BHANDARI
723	512495	CA. MAYANK KUMAR JAIN	778	514517	CA. PASANG DORJI SHERPA
724	512507	CA. MANVI GIRDHAR	779	514543	CA. CHANDRA MOULY MISHRA
725	512580	CA. BHANU PRATAP SINGH	780	514562	CA. KAUSHLENDRA KUMAR JHA
726	512596	CA. ANKUR GARG	781	514587	CA. DEEPAK GUPTA
727	512608	CA. MOHIT AGARWAL	782	514659	CA. MANISH BHATIA
728	512615	CA. PUNEET MITTAL	783	514707	CA. HITENDRA KUMAR
729	512680	CA. ABHINAV SHARMA	784	514721	CA. MANISH SHARMA
730	512667	CA. DEEPAK BANKA	785	514759	CA. YASH PAL
731	512688	CA. DILEEP KUMAR	786	514764	CA. ISHANT JUNEJA
732	512690	CA. SUNIL ARORA	787	514814	CA. ANAND BHUSHAN
733	512704	CA. PREETY SEHGAL	788	514826	CA. SAHIL RAJPOOT
734	512737	CA. ANKIT DAWAR	789	514835	CA. MOHIT KUMAR RASTOGI
735	512782	CA. NARAYAN PRASAD POUDEL	790	514958	CA. VIKRANT KUMAR
736	512786	CA. BISWA VIJAY KUMAR SINGH	791	514962	CA. DEEPAK DAHIYA
737	512861	CA. MOHAN CHAND	792	514965	CA. DHANANJAY JHA
738	512885	CA. AMAR KUMAR	793	514986	CA. MARUT NANDAN
739	512915	CA. MD MANZAR	794	514988	CA. RAJENDRA KUMAR SINGH
740	512918	CA. NUPUR KEDIA	795	515000	CA. ASHISH SHARMA
741	513026	CA. NITIN MAHAJAN	796	515072	CA. KUSUM
742	513035	CA. SUMIT JAIN	797	515113	CA. RAHUL KUMAR AGARWAL
743	513057	CA. ALKA KUMARI AGARWAL	798	515159	CA. TANU PAHUJA
744	513120	CA. AJAY KUMAR	799	515165	CA. SUJEET KUMAR
745	513179	CA. NEERAJ KUMAR SHARMA	800	515202	CA. SAURABH JAIN
746	513199	CA. MAHIMA MANGLA	801	515208	CA. APEKSHA CHOPRA
747	513246	CA. BINOD DHUNGANA	802	515223	CA. GAGANDEEP SINGH
748	513283	CA. SHILPA GARG	803	515229	CA. SHILPI VARMA
749	513284	CA. SAURABH BIYANI	804	515371	CA. JASPAL KUMAR PASSI
750	513287	CA. TAPAN KUMAR BISWAL	805	515372	CA. NISHANK TYAGI
751	513356	CA. RAHUL SHARMA	806	515378	CA. DEEPTI ARORA
752	513479	CA. BHARAT GUPTA	807	515422	CA. DIPANKAR SINGH
753	513512	CA. ABHAY KUMAR DIXIT	808	515436	CA. ADISH JAIN
754	513522	CA. PRAVEEN MIGLANI	809	515461	CA. PRIYANKA VERMA
755	513577	CA. NEHA KUMARI	810	515470	CA. HARI LAMSAL
756	513683	CA. MANDEEP SINGH	811	515506	CA. RICHA WADHWA
757	513745	CA. KARTIK BIST	812	515625	CA. PUNEET GUPTA
758	513785	CA. ARVIND RAJAN	813	515683	CA. RASHMI MITTAL
759	513849	CA. RABINDRA GUPTA	814	515740	CA. SOURABH NAGPAL
760	513852	CA. KOMAL GOEL	815	515745	CA. ABHISHEK JAIN
761	513856	CA. KUNAL DHAWAN	816	515748	CA. ARPITA MATHUR
762	513865	CA. RAVI GUPTA	817	515776	CA. YOGESH GUPTA
763	513868	CA. TARUN KUMAR GUPTA	818	515838	CA. RUCHIKA GUPTA
764	513882	CA. DEVENDRA SHANKAR VISHNOI	819	515839	CA. ASHISH GARG
765	513904	CA. ANKUR KUMAR	820	516328	CA. MONICA BASAK
766	515923	CA. NITESH BASAIWALA	821	516349	CA. SANDEEP BANSAL
767	516028	CA. MAHENDER SINGH			

T. KARTHIKEYAN
(SECRETARY)

Kanpur-208001, the 8th December 2011

3CCA (4)(1)/2010-2011—In pursuance of regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, It is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1)(c) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed the names of the following persons from the Register of Members of this Institute with effect from 1st Oct. 2010 on account of non-payment of prescribed fees :—

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
1	2567	MR SAH GOBIND PRASAD	PATNA	14	31819	MR GOLCHA KAPOORCHAND CHAMPALAL	JODHPUR
2	3856	MR RANJIT BHATIA	LUCKNOW	15	34607	MR MATHUR DEEPAK	NOIDA
3	10651	MR JAIN SATYENDRA KUMAR	JABALPUR	16	41836	MR MICHAEL VINCENT MASCARENHAS	AJMER
4	11980	MR SODANI MOHANLAL	INDORE	17	43117	MR SOMANI SANJAY KUMAR	RAMGARH
5	12101	MR GUPTA AMAR NATH	NOIDA	18	43660	MR MEHTA RAKESH	LUCKNOW
6	14039	MR VARSHNEY JANARDAN PRASAD	HARDWAR	19	44176	MR TOSHNIWAL JAGDISH PRASAD	BEAWARE
7	14097	MR MALHOTRA RAJESH KUMAR	JAGDISHPUR	20	44484	MR JINDAL RAJESH KUMAR	NOIDA
8	15101	MR GUPTA SURENDRA PAL	GHAZIABAD	21	45078	MR KOCHER MAHESH CHAND	JODHPUR
9	15298	MR GUPTA SUDARSHAN PAUL	GHAZIABAD	22	45354	MR SONI ANAND KUMAR	JAIPUR
10	16572	MR JAGDISH MAL LODHA	JODHPUR	23	50038	MR JAIN SHALIN CHANDRA	LUCKNOW
11	16752	MR SANCHETI JAI PRAKASH	JODHPUR	24	50470	MR KRISHNAN KAVASSERI VENKATA SUBRAMANI	SONEBHADRA
12	16826	MR KHAN MOHAMMED WAJID	GHAZIABAD	25	51375	MR MISHRA ASHOK KUMAR	BANGALORE
13	30932	MR KASHI NATH CHATURVEDI	MATHURA				

26	052846	MR THIRANI JAYANT	BHIND	49	060626	MR GOLCHHA MANISH KUMAR	FORBESGANJ
27	053300	MR ROY SOMESH	CHAIBASA	50	060763	MR NATHANY VISHAL	INDORE
28	053487	MR SAXENA ASHOK	DEHRADUN	51	060771	MR DHOOT NISHANT	JAMSHEDPUR
29	053652	MR JAIN VIVEK CHANDRA	LUCKNOW	52	061798	MR KEDIA ANAND	MUMBAI
30	054373	MR SENGUPTA SAIBAL	GHAZIABAD	53	061987	MS DEEPTI MAWANDIA	PUNE
31	054481	MR UMESH KUMAR	KOLKATA	54	062626	MR JAMBU AGRAWAL	RAMGARH
32	054582	MR SHYAM SUNDER GUPTA	BHOPAL	55	062803	MS PRAWAL MANISHA	BAREILLY
33	054681	MR CHAKRABARTI SOMABRATA	GULBARGA	56	064173	MR CHAUHAN VIJAY KUMAR	AZAMGARH
34	054890	MR PATI PROMOD KUMAR	RANCHI	57	064303	MR RAJEEV KUMAR	BOKARO STEEL CITY
35	056254	MR KAMALAKANTA NAYAK	GHAZIABAD	58	064988	MR PAWAN KUMAR PERIWAL	JAMSHEDPUR
36	056460	MR SINGHVI HEMANT KUMAR	RENUKOOT	59	065252	MR SATYA NARAYAN PRASAD	MUMBAI
37	057163	MR KUMAR GHANSHYAM	INDORE	60	065309	MR RAKESH KUMAR AGRAWAL	BOKARO
38	057305	MR PARIK NITIN	INDORE	61	065771	MR BISHWAJEET KUMAR	CHANDAN NAGAR
39	057409	MR DWIVEDI RAM KISHORE	JAMSHEDPUR	62	065896	MR ASHISH AGRAWAL	GURGAON
40	057939	MR BAL PRADEEP KUMAR	JAMSHEDPUR	63	066414	MR NISHANT KUMAR	HAZARIBAGH
41	058022	MR RAKESH KUMAR AGARWAL	RAIPUR	64	066432	MR PANKAJ KUMAR KHETAN	DEOGHAR
42	058062	MR BHAGANIA PRASHANT	JHARIA	65	066527	MR SHAILESH KUMAR	MUZAFFARPUR
43	058308	MR CHAKRABORTY RATUL	NEW DELHI	66	067495	MR ALOK BHAGAT	JABALPUR
44	058659	MS LAHA GHOSH DEBJANI	JAMSHEDPUR	67	070240	MR BATRA UMESH	KANPUR
45	059440	MR SINGH DALJIT	KORBA	68	070261	MR THAKKAR ROHIT KUMAR T	DHANBAD
46	059802	MR CHATURVEDI VIVEK	LUCKNOW	69	070320	MR AGRAWAL MAHESH KUMAR	INDORE
47	060001	MS KAUR HARPAL	NOIDA				
48	060167	MR CHITLANGIA SACHIN	RANCHI				

70	070478	MR SINGH ASHOK KUMAR	RANCHI	89	072025	MR VERMA DINESH KUMAR	AJMER
71	070719	MR BALDI RAJA RAM	UJJAIN	90	072140	MR PRADEEP KUMAR	NOIDA
72	070759	MR GUPTA NAND KISHORE	JAIPUR	91	072179	MR NAGORI VIMAL CHANDRA	UDAIPUR
73	070866	MR JESWANI GURDEV SARAN	GWALIOR	92	072181	MR SINHA BIRENDRA KUMAR	PATNA
74	070953	MR BAKSHI RENU	GHAZIABAD	93	072251	MR BHATI ARVIND KUMAR	JODHPUR
75	071103	MR SATYAVIR SINGH DAGAR	JAIPUR	94	072281	MR SINGHVI PRAKASH KUMAR	JODHPUR
76	071113	MR TALWAR SURENDER KUMAR	GHAZIABAD	95	072385	MR MAHNA SANJEEV	GURGAON
77	071138	MR GROVER RAKESH KUMAR	ALLAHABAD	96	072471	MR AGARWAL AJAY KUMAR	RAMPUR
78	071234	MR SHUKLA AJAY KUMAR	KANPUR	97	072489	MR VYAS MADAN GOPAL	JODHPUR
79	071250	MR SETH SANJAY	KANPUR	98	072763	MR PORWAL RAM KUMAR	GHAZIABAD
80	071285	MR NAGDA MOHAN LAL	UDAIPUR	99	072838	MR SOMANI VIJAY KUMAR	PALI MARWAR
81	071312	MR DUTTA GOPAL	JAIPUR	100	072909	MR MANGAL SANJAY	JAIPUR
82	071343	MR GARG SHELENDRA NATH	HAPUR	101	072991	MR MANMOHAN BANSAL	JODHPUR
83	071417	MR THAKURIA DEEPAK	INDORE	102	073015	MR GARG SHASHI KUMAR	INDORE
84	071561	MR PANKAJ KUMAR	BAREILLY	103	073077	MR BHALLA ROHIT	LUCKNOW
85	071651	MR SACHDEVA SUNIL KUMAR	GREATER NOIDA	104	073156	MR PALRIWALA MURARI	INDORE
86	071802	MR SAKSENA RAVINDRA	KANPUR	105	073241	MR GOYAL DINESH	DEHRADUN
87	071895	MR SAXENA ANIL KUMAR	KANPUR	106	073446	MR TEWARI BALRAM	LUCKNOW
88	071926	MR SHARDA DINESH	JAIPUR	107	073467	MR VINAY RAJ	MEERUT

108	073475	MR GUPTA AMIT KUMAR	RISHIKESH	126	074768	MR PAHADIA JITENDRA	INDORE
109	073676	MR AGRAWAL SANJEEV KUMAR	JAIPUR	127	074801	MR JAIN SWAPNIL	MEERUT
110	073720	MR JAIN MANOJ CHANDRA	LUCKNOW	128	074815	MR GOYAL SANJAY KUMAR	SRIGANGA NAGAR
111	073808	MR IRSHAD UL HAQ	MEERUT	129	074865	MR AGGARWAL VIKAS KUMAR	SAHARANPUR
112	073873	MR JAIN SURESH KUMAR	TONK	130	074876	MR GUPTA ANIL KUMAR	JAIPUR
113	073901	MR BHANDULA PANKAJ	BHOPAL	131	074878	MR GUPTA SNEHANGSHU	NOIDA
114	074078	MR SAXENA DEEPESH	JAIPUR	132	075056	MR LUTHRA SANJEEV	AGRA
115	074143	MR SHATRUGHNA RAI	KHARGONE	133	075104	MR JAIN PRAMOD KUMAR	BEAWAR
116	074228	MR BHANDARI KRISHNA	JODHPUR	134	075130	MR GOYA AADITYA	BULANDSHAHR
117	074243	MR CHAUHAN RAJENDRA SINGH	UDAIPUR	135	075293	MR SHABBIR HUSAIN	BHOPAL
118	074255	MR GUPTA TARUNESH KUMAR	JAIPUR	136	075316	MR VINEET KUMAR	RAIPUR
119	074348	MR RAKESH MOHAN	LUCKNOW	137	075472	MR RUPENDER SINGH	KANPUR
120	074449	MR PRAVIN KUMAR SINGH	VARANASI	138	075567	MR SINGHAL MADHUSUDAN	SUMERPUR
121	074541	MR RAJVANSHI PANKAJ	NOIDA	139	075706	MR JAIN MUKESH KUMAR	JAIPUR
122	074577	MR RAMINDER PAL SINGH	KANPUR	140	075725	MR AJMERA NAVEEN	BHILWARA
123	074595	MR DEVENDRA SINGH	SAHIBABAD	141	075740	MR TIWARI RAMESHWAR NATH	DHANBAD
124	074615	MR KAPUR MADHU SUDAN	NOIDA	142	075758	MR MITTAL RAJESH	BHILAI
125	074732	MR KHAN SHAKAIB MAHMOOD	AGRA	143	075762	MR SHARMA ANIL KUMAR	JAIPUR
				144	075920	MS PUNTAMBEKAR VINITA	INDORE
				145	075964	MR NANDI GAUTAM	KORBA
				146	076017	MR AGARWAL ANOOP KUMAR	AGRA

147	076082	MR BHOOTRA RAMESH	JODHPUR	168	077303	MR SURANA RAJESH	JODHPUR
148	076127	MR AGARWAL ASHEESH	NOIDA	169	077344	MR MEHTA RAVI	JODHPUR
149	076244	MR AGRAWAL MADHO PRASAD	NAGDA	170	077345	MR GANG SUNIL KUMAR	DHAR
150	076266	MR MITTAL MANISH	MEERUT	171	077410	MR RAVI SHANKAR SHARMA	DHANBAD
151	076391	MR CHHATWANI SHAIENDRA	UDAIPUR	172	077413	MR AGRAWAL ANIL KUMAR	JAIPUR
152	076524	MS MODI MEENU	JAIPUR	173	077457	MR AGARWAL ANIL KUMAR	LUCKNOW
153	076566	MR BIIANDARI DEEPAK	JODHPUR	174	077515	MR KHADELWAL DINESH	JAIPUR
154	076575	MR RAJESH ARORA	GHAZIABAD	175	077520	MS JAIN NIVEDITA	GWALIOR
155	076709	MS SABHARWAL JYOTI	BAHRAICH	176	077592	MR PUROHIT SAURABH	INDORE
156	076835	MR BHATRA HEMANT KUMAR	JAIPUR	177	077612	MR JAIN RAVI KANT	KOTA
157	076872	MR SHARMA SANJEEV	UDAIPUR	178	077648	MR ASHISH PUNDHIR	JAIPUR
158	076899	MR CHADHA NAVEEN	LUCKNOW	179	077707	MR BANSAL DEEPAK KUMAR	MUMBAI
159	076901	MR KHADELWAL AJAY KUMAR	BHOPAL	180	077751	MR SAROHA TUSHANKUR	GREATER NOIDA
160	076959	MR JAIN NIRANJAN	UDAIPUR	181	077765	MR BHARGAVA PIYUSH	LUCKNOW
161	077017	MR VYAS VIVEK	JAIPUR	182	077767	MR KHICHA PUSHPENDRA	BEAWAR
162	077105	MR GOSWAMI DEBASIS	NOIDA	183	077778	MR JAIN PANKAJ	UDAIPUR
163	077136	MS SINGHVI SHUCHI	JAIPUR	184	077841	MR MAURYA AJAY KUMAR	LUCKNOW
164	077181	MR VERMA PREM NARAYAN	BHOPAL	185	077952	MR AGARWAL SACHIN	MEERUT
165	077277	MR GARG MUKESH KUMAR	INDORE	186	078049	MR ASAWA SUNIL	BHILWARA
166	077287	MR AGARWAL VIJAY KUMAR	JAIPUR				
167	077301	MR BAJPAI PRAVEEN	JHABUA				

187	078070	MR RAM JI LAL	MAINPURI	208	079274	MR GOENKA RAHUL	MAU
188	078077	MR JAIN KAMAL KUMAR	JAIPUR	209	079276	MR ARUN KHODPIA	UDAIPUR
189	078183	MR MISRA GYAN CHANDRA	GHAZIABAD	210	079287	MR THAKUR VIVEK	INDORE
190	078227	MR SRIVASTAVA HARISH	LUCKNOW	211	079434	MS GEETIKA PASRIJA	RAIPUR
191	078248	MR KAPOOR ALOK	MEERUT	212	079510	MR SHARMA RAJESHWAR	RAIPUR
192	078275	MR KULWANT SINGH	BHOPAL	213	079513	MR MISHRA SHARAD	UDAIPUR
193	078292	MR GAURAV AIREN	INDORE	214	079599	MR KHANDELWAL MURARI LAL	KHERLI
194	078338	MR JOSHI ANURAG	INDORE	215	079680	MR RAHUL GUPTA	JAIPUR
195	078386	MR RAVI ASAWA	INDORE	216	079691	MR ROY SUKANT	VARANASI
196	078432	MR MUNISH KUMAR MITTAL	GHAZIABAD	217	079860	MR SARIPALLI UDAY	BHOPAL
197	078558	MR VISHNU KUMAR	DHOLPUR	218	079892	MR MUSTAFA MEHRIM	INDORE
198	078603	MR ASHOK KUMAR GUPTA	JAIPUR	219	079986	MR VIVEK JAIN	MUZAFFARNAGAR
199	078706	MR KASLIWAL LALIT KUMAR	CHITTORGARH	220	080965	MR GOEL RAM KUMAR	GHAZIABAD
200	078731	MR DEEPANKAR SETH	ROORKEE	221	081399	MR RAUNIAR JAGDISH PRASAD	MADHUBANI
201	078769	MR BAIS NISHCHAL SINGH	DHAMNOD	222	081663	MR ABHAY KUMAR BHARGAVA	KANPUR
202	078802	MR BHARTIYA DHIRENDRA F	RATLAM	223	081721	MR RAKESH KUMAR	NOIDA
203	078832	MR MANOJ DUBEY	BHOPAL	224	082275	MR SHARMA VINOD KUMAR	NEW DELHI
204	078952	MR JAISWAL MUKUL	VARANASI	225	082498	MR AGGARWAL VIPIN	NEW DELHI
205	078974	MR AHMAD KAREEM	ALLAHABAD	226	082649	MR GUPTA NARESH	ALIGARH
206	079176	MS AGARWAL NISHA	DELHI	227	084337	MR GOYAL ANAND MOHAN	GHAZIABAD
207	079212	MR BHATI SUNIL KUMAR	BHOPAL	228	084378	MR ATUL	NOIDA
				229	084527	MR AGRAWAL RAJESH KUMAR	JAIPUR

230	085620	MR KAMAL KUMAR SHARMA	CHURU	253	093276	MR SANJIV KUMAR JHA	NOIDA
231	086724	MR ASHOK KUMAR	NEW DELHI	254	093587	MR BHARADWAJ ALOK	BHOPAL
232	087259	MR GUPTA NIRAJ KUMAR	INDORE	255	093815	MR GARG DINESH KUMAR	UDHAM SINGH NAGAR
233	087508	MR VARSHNEY VIVEK KUMAR	NOIDA	256	094095	MR ALOK KUMAR	PATNA
234	087973	MS BAHL ANURADHA	GHAZIABAD	257	094410	MR ASHUTOSH GUPTA	GHAZIABAD
235	088512	MR SINHA SANTOSH KUMAR	GAYA	258	094417	MS MAHESHWARI SUNITA	JAIPUR
236	088575	MR SINGH YOGENDER PAL	NOIDA	259	094509	MS B MRUDULA VANI	GHAZIABAD
237	088714	MS BHANSALI NEVEDITA	HARDWAR	260	094732	MR SARAN ANIL	NOIDA
238	088941	MS KAK ANJALI	NOIDA	261	094780	MR BADIATE NIRMAL RAJKUMAR	NOIDA
239	089342	MR MEHRA MILAN	DEHRADUN	262	095716	MS SMITA VAISH	LUCKNOW
240	089425	MR SOMANI ANUJ KUMAR	GHAZIABAD	263	095757	MR VISHWANATHAN V	GHAZIABAD
241	089698	MR MOHD NAZIM	KHURJA	264	096500	MR GOEL GIRISH KUMAR	NOIDA
242	089830	MR GUPTA SATISH KUMAR	BAGHPAT	265	096538	MR SINGH RAJNISH KUMAR	BEGUSARAI
243	089836	MR MANOJ KUMAR	HAPUR	266	096771	MS RITU DAYAL	KAUSHAMBI
244	089844	MR AGARWAL VIVEK	GURGAON	267	096852	MR DHIMAN RAM KUMAR	GHAZIABAD
245	090480	MR GUPTA SANJAY KUMAR	NOIDA	268	097309	MR KANODIA BHAGWAT SINGH	GURGAON
246	090722	MR GUPTA VINOD KUMAR	DELHI	269	097730	MR GUPTA OM PRAKASH	ALIGARH
247	090900	MR GAUTAM RAJ KUMAR	KANPUR	270	097756	MR SHRIVASTAVA GAURAV	NOIDA
248	091996	MS GARG SHIPRA	GHAZIABAD	271	098144	MR DUBEY AMIT KUMAR	NOIDA
249	092123	MR MAHARA HARENDRA SINGH	NOIDA	272	098185	MR GARG PRADEEP KUMAR	KHURJA
250	092222	MR CHUDHEY HARDEEP SINGH	HARDOI				
251	092469	MR RAJ PRAKASH KHARE	GHAZIABAD				
252	093116	MR MANEESH GUPTA	BAREILLY				

273	098265	MR MOHTA RAHUL	NOIDA	294	114091	MR GOVIND AGARWAL	AJMER
274	098313	MS RACHANA	MATHURA	295	117917	MR SANDEEP SHYAMSUNDER MANDAWEWALA	INDORE
275	098450	MR PRADEEP BANSAL	KISHANGARH	296	121640	MR ANISH MAHESHWARI	BUNDI
276	098711	MR SOOD SUMEET	NOIDA	297	123130	MR SOURABH NAGORI	NIMBAHERA
277	098835	MR JAIN AJAY KUMAR	BHOPAL	298	125431	MS SURABHI KOURAW	BHOPAL
278	098938	MR AGGARWAL GAURAV	NOIDA	299	125499	MR RAJAN MUNDRA	BHILWARA
279	099462	MR RAJ KUMAR	GOPALGANJ	300	127665	MS ROMA BAJPAI	BHOPAL
280	099472	MR BHANAWAT PRASHANT	UDAIPUR	301	129416	MR SHOBHIT AGARWAL	GHAZIABAD
281	099809	MS BHATTACHARYA DEBATI	NOIDA	302	130689	MR SATISH CHANDRA MALANI	SURAT
282	104002	MS PERIWAL SUNITA	JAIPUR	303	131527	MR AMIT HARISHANKAR NAGAR	UJJAIN
283	105266	MR PITTI VINOD KUMAR	JODHPUR	304	133743	MR PRAHALAD KUMAR JHA	PATNA
284	105361	MR VINOD SAMDANI	BHILWARA	305	134213	MR VISHAL MAHESHWARI	KOTA
285	106559	MR SAURABH KUMAR	SITAPUR	306	201558	MR KRISHNAN L	INDORE
286	108907	MR PATNI NITIN	JAIPUR	307	210159	MR DEEPAK LADHA	HYDERABAD
287	109410	MR AMIT GULECHA	JODHPUR	308	211667	MS MANISHA CHOWDHARY	BEAWAR
288	109790	MR CHANDRA PRAKASH GUPTA	MUMBAI	309	216027	MR SANJEEV UPADHYAY	BANGALORE
289	109869	MR PRABHAT MANDWANI	INDORE	310	219680	MR SABOO ANAND ADITYA	NAGDA
290	110994	MR VIJAY MAHESHWARI	JODHPUR	311	223288	MR AMARENDRA KUMAR	RANCHI
291	111321	MR JAIN SANJAY KUMAR	RAJNANDGAON	312	400006	MR JAMES JIMMY P	BHILAI
292	113493	MR SETHI HARSH	AJMER	313	400114	MR KAPIL JAIN	INDORE
293	113703	MR HINGER AMIT LALIT	UDAIPUR				

314	400115	MR PANWAR HANS RAJ	JODHPUR	337	401017	MR VYAS SHRI KANT	MUMBAI
315	400126	MR RITESH RATHI	NEW DELHI	338	401041	MR DIWAKER BANSAL	SRIGANGANAGAR
316	400142	MR SUNIL KUMAR INANI	CHITTORGARH	339	401055	MS JAISWAL ANU	LUCKNOW
317	400156	MR GUPTA DIVYENDU	AGRA	340	401079	MR GUPTA ARVIND	JODHPUR
318	400160	MR RISHI KARNAWAT	JAIPUR	341	401158	MR YOGESH KUMAR PITALIYA	JAIPUR
319	400187	MR SWADESH MISHRA	KANPUR	342	401160	MS SHARMA ANKITA	JAIPUR
320	400209	MR SACHIN H GUPTA	INDORE	343	401175	MR TIWARI ABHISHEK	JAIPUR
321	400331	MR OJHA ASHISH	MUMBAI	344	401190	MR KAMAL KUMAR BAVDIWALA	INDORE
322	400362	MR NIKHIL GUPTA	JAIPUR	345	401205	MS VATSA DEEPTI	MUZAFFARNAGAR
323	400377	MR AJMERA DHEERAJ	JAIPUR	346	401217	MS AGARWAL DURGA	BIKANER
324	400456	MR MISRA SUMAN	KANPUR	347	401238	MR SAHA ANURAG	GHAZIABAD
325	400553	MR SATYENDRA SINGH RAJPUT	DEWAS	348	401345	MR ALOK KUMAR SINGHAL	GHAZIABAD
326	400576	MR SUNIL KUMAR KANCHHAL	JAIPUR	349	401359	MR SADAPHAL DEEPAK KUMAR	JABALPUR
327	400619	MS VAJPAI PREETI	BANGALORE	350	401378	MR JAIN VIKAS	JAIPUR
328	400688	MR SURANA PRAVEEN KUMAR	INDORE	351	401387	MR SHREE HARI LATH	JAIPUR
329	400713	MS MISRA SARIKA	BANGALORE	352	401398	MR AQDAS HUSSAIN	UDAIPUR
330	400724	MR S R KUMARAN	LUCKNOW	353	401399	MR KHANDELWAL VISHAL	JAIPUR
331	400729	MR MUKESH SINGHVI	JODHPUR	354	401493	MR AGRAWAL UPENDRA KUMAR	ALLAHABAD
332	400772	MS PADMAVATI SWAMY KHANUJA	BHOPAL	355	401515	MR NAVIN KUMAR JAIN	GHAZIABAD
333	400787	MR GURDEV SINGH	BAREILLY	356	401517	MR AGRAWAL PRITESH	INDORE
334	400837	MR OJHA SUNIL KUMAR	NOIDA	357	401518	MS PINKY DIWAN	INDORE
335	400865	MR AGGRWAL VIKAS	BIKANER				
336	400994	MR MUBEEN KHAN	JABALPUR				

358	401541	MR VINAY KUMAR SHARMA	RAIPUR	380	402247	MR UDHANI VIJAY	PUNE
359	401573	MS GUPTA SWATI	BANDA	381	402251	MR SHARMA SUNIL KUMAR	JABALPUR
360	401603	MR MISRA VISHAL	LUCKNOW	382	402265	MR AGARWAL AMBUJ	VARANASI
361	401743	MR KASLIWAL PRASHANT	JAIPUR	383	402285	MS AGRAWAL GUNJAN	NAVI MUMBAI
362	401776	MR KINGRANI NITIN	UDAIPUR	384	402318	MR MAHESHWARI VIKAS KUMAR	AJMER
363	401829	MS MANCHANDA MANSI	AGRA	385	402324	MR SINGHAL SOURABH	GWALIOR
364	401864	MR MOHD FURQAN WARSII	ALLAHABAD	386	402337	MS CHATTERJEE PRARTHANA	RANCHI
365	401910	MR KAMRA RAJIV	UDAIPUR	387	402366	MR ATTARI IMTIYAZ AHMED	UDAIPUR
366	401917	MR JAIN GAUTAM CHAND	NIMBAHERA	388	402389	MR SWADHIN KUMAR MISHRA	LUCKNOW
367	401950	MR GUPTA MANISH	LUCKNOW	389	402449	MR PUNDHIR ABHISHEK SINGH	JAIPUR
368	402011	MR MUKESH KUMAR CHOUDHARY	AJMER	390	402506	MR SHARMA RAHUL	JAIPUR
369	402015	MS MEGHNA JAIN	AHMEDABAD	391	402565	MS ANUPRIYA SRIVASTAVA	LUCKNOW
370	402016	MR MAHESHWARI BAL KISHAN	JAIPUR	392	402570	MR HIMANSHU MITTAL	MEERUT
371	402025	MR SINGH ABHILASH	VARANASI	393	402600	MR PORWAL VIVEK	INDORE
372	402100	MR GUPTA ASHISH	JAIPUR	394	402604	MR BHOI SUNIL KUMAR	RAIPUR
373	402134	MR JAIN ANURAG	DELHI	395	402605	MS SHARMA SHIPRA	LUCKNOW
374	402149	MS OSATWAL RESHMA	BEAWAR	396	402610	MR BHAGCHANDANI RAVI	JODHPUR
375	402169	MR LALIT MAHESHWARI	HYDERABAD	397	402614	MR AGRAWAL PANKAJ KUMAR	FARIDABAD
376	402187	MR KAMRA RAVI	MEERUT	398	402687	MS GOYAL ANJALI	BHOPAL
377	402199	MR MITTAL SANDEEP	SRIGANGANAGAR	399	402727	MR UPADHYAY SUDIP	VARANASI
378	402218	MS MEHTA SURBHI	JAIPUR				
379	402230	MR SARIPALLI ARUN	BHOPAL				

400	402733	MR BAGPATIA BRIJESH	BHARATPUR	423	403526	MR SINGHI ASHISH S	UDAIPUR
401	402734	MS BHOOTRA YASHODA	BALOTRA	424	403535	MR SRIVASTAVA RISHABH	ALLAHABAD
402	402785	MS GUPTA SHIKHA	INDORE	425	403546	MR PARWAL RADHA GOVIND	JAIPUR
403	402800	MR PANKAJ KUMAR SEKSARIA	JAIPUR	426	403596	MS CHOUDHARY PAYAL	JAMSHEDPUR
404	402860	MR JAIN TOSHI	INDORE	427	403608	MR SRIVASTAVA DEEPAK	KANPUR
405	402918	MR GUPTA SUNIL	GURGAON	428	403623	MR SINGHAL RAVI PRAKASH	JAIPUR
406	402930	MR AGARWAL NAMAN	LUCKNOW	429	403626	MR GULATI GAURAV	AGRA
407	402956	MR VIJAY MUKESH	JAIPUR	430	403641	MR YADAV ATUL SINGH	KANPUR
408	403031	MR AGRAWAL BRAJESH	VRINDABAN	431	403671	MR BHANDARI SAMKIT	INDORE
409	403083	MR BADJATYA SURENDRA	INDORE	432	403685	MR BHANDARI ROHAN RAJ	JODHPUR
410	403086	MR MANGAL BRIJESH CHANDRA	JAIPUR	433	403793	MR BIRLA LAXMI KANT	FATEHPUR SHEKHAWATI
411	403182	MR SHAH MOSAM	INDORE	434	403794	MR KHANDAL SUNIL KUMAR	JAIPUR
412	403190	MR HARLALKA VIKASH KUMAR	LADNUN	435	403821	MR GUPTA JAI KUMAR	ALWAR
413	403210	MR BANSAL RAHUL	MATHURA	436	403831	MR JAIN RITESH	INDORE
414	403233	MR KUSHAWAHA SUNIL KUMAR SINGH	ALLAHABAD	437	403847	MR KHANDELWAL SAMEER	JAIPUR
415	403252	MR KHANDELWAL ASHISH	JAIPUR	438	403875	MR KHAN NOORUL QAMAR	UJJAIN
416	403272	MR MODANI NAVEEN	JAIPUR	439	403925	MR KHANDELWAL BALANUJ	BHIWADI
417	403390	MS AGARWAL PRIYANKA	GHAZIABAD	440	403935	MS SHARMA SHRUTI	JAIPUR
418	403403	MS SHAH ANKITA	INDORE	441	403966	MR PRIYANSHU JAIN	GHAZIABAD
419	403411	MS DEEPTI BHANDARI	DELHI	442	403988	MR SARDA GAURAV	KOTA
420	403497	MR BHANDARI ANIL KUMAR	BHILWARA				
421	403520	MR AGARWAL MANISH	JAIPUR				
422	403522	MR SAXENA MANOJ KUMAR	DEHRADUN				

443	404066	MR BHADORIA SANJAY SINGH	BHOPAL	462	404481	MR NEWATIA YADU NANDAN	KANPUR
444	404113	MR SHRIVASTAVA PRAMOD KISHORE	INDORE	463	404503	MR ANKUR BANSAL	LUCKNOW
445	404128	MR GUPTA PRAFULL KUMAR	RAMGANJMANDI	464	404534	MS SHAZIA	LUCKNOW
446	404152	MS JAIN SHILPA	RAJNANDGAON	465	404540	MR AHTESHAM ALAM	VARANASI
447	404156	MS KURAWARWALA INSIYA	UDAIPUR	466	404551	MR GUPTA YASHU	AGRA
448	404170	MR CHHAWCHHARIA ASHISH	BARABANKI	467	404594	MR RASTOGI KUSHAGRA	JAIPUR
449	404172	MR AGARWAL PRASHANT	GHAZIABAD	468	404609	MS SONALI TAYAL	NEW DELHI
450	404215	MR VINAYAKA RISHABH	INDORE	469	404611	MR ANIVESH PRASAD	NOIDA
451	404238	MS KUMAR ROSHI	LUCKNOW	470	404672	MR GOEL SANJAY	DALMIA NAGAR
452	404253	MR MAHESHWARI SURENDRA KUMAR	SIRMOUR	471	404673	MS GUPTA PARUL	KANPUR
453	404277	MR LAALWANI VARUN	INDORE	472	404702	MR MITTAL LAV	JAIPUR
454	404287	MR PAMNANI DILIP KUMAR	NOIDA	473	404730	MR KHANDELWAL NITIN	ALWAR
455	404330	MR DAGA VENKAT	JODHPUR	474	404737	MR GUPTA SHOBHIT KUMAR	GHAZIABAD
456	404342	MS SHARMA ANITA	DEHRADUN	475	404751	MR JAIN PARAS	BEAWAR
457	404343	MR KHAN MOHAMMAD FAWAD	REWA	476	404780	MS VIJAY ANKITA	AJMER
458	404417	MR PARIKH ANKIT	UDAIPUR	477	404823	MS DASHOTTAR SURYA	INDORE
459	404420	MR CHOUDHARY RAJEEV KUMAR	JAMSHEDPUR	478	404911	MR VERMA AMIT KUMAR	AJMER
460	404449	MR AGRAWAL VINOD V	BALAGHAT	479	404929	MR SUDAN JASVINDER SINGH	DEHRADUN
461	404468	MR MAHESH PUROHIT	THANE	480	404951	MR ANIL RANKA	JAIPUR
				481	404955	MR MANDOWARA SUNIL	UDAIPUR
				482	404961	MR BANSAL VIVEK	KOTA
				483	404975	MS NAGPAL NEETU	GHAZIABAD

484	404983	MR PITLIYA VIMAL	UDAIPUR	505	405562	MR SUBHAL GARG	ETAWAH
485	405013	MR JAIN SAURABH	KOTA	506	405581	MR SHAILENDRA SINHA	GHAZIABAD
486	405024	MR DHAWAL KOTHARI	UDAIPUR	507	405589	MR ARPIT BOHARA	UDAIPUR
487	405044	MR SADHNANI OM PRAKASH	KANKROLI	508	405628	MR GAURAV MAHESHWARI	AJMER
488	405094	MR MAHNA AMAN	MUMBAI	509	405629	MR GAURAV KUMAR SRIVASTAVA	NOIDA
489	405122	MR POKHARNA DILIP KUMAR	NAVI MUMBAI	510	405632	MS BHARTI GOLANI	JAIPUR
490	405128	MS SURANA ARTI	JAIPUR	511	405656	MR SATPAL SINGH KHANUJA	BHOPAL
491	405131	MR DEEPAK KACHOLIYA	JAIPUR	512	405668	MS MADHURI SARDA	INDORE
492	405143	MR ALAM JAVED	HAZARIBAGH	513	405695	MS DEEPTI JAIN	INDORE
493	405149	MR RASTOGI VINAY KUMAR	LUCKNOW	514	405709	MR DHANANJAY MOHAN	CHAS
494	405169	MR AGARWAL ASHISH	LUCKNOW	515	405723	MR PANKAJ TIWARI	BHARATPUR
495	405184	MS KEERTI VERMA	UDAIPUR	516	405737	MS SHIKHA KAPOOR	KANPUR
496	405203	MR RASTOGI SUNEET	LUCKNOW	517	405793	MR AMIT KUMAR GUPTA	KANPUR
497	405339	MS ARCHANA MOONDRA	JODHPUR	518	405799	MR VIPIN SINGHAL	JAIPUR
498	405343	MR PUNEET AGRAWAL	NEW DELHI	519	405834	MR GOVIND MODANI	JAIPUR
499	405353	MR NISHANT CHOUDHARY	BHILWARA	520	405868	MR ANKUSH AGARWAL	NEW DELHI
500	405406	MR PANKAJ KHANDELWAL	INDORE	521	405903	MR ANAND KUMAR AGARAWAL	AGRA
501	405439	MR UMAKANT	SRIGANGANAGAR	522	405921	MR ATEENDRA MISHRA	KANPUR
502	405443	MR OM PRAKASH MATOLIA	THANE	523	405933	MR SAMIR AGARWAL	KANPUR
503	405500	MR AMIT NUNA	LALITPUR	524	405967	MR PIYUSH GUPTA	BHOPAL
504	405505	MR SUDHANSHU GOYAL	AJMER	525	405977	MS RASHI BAJAJ	MUMBAI
				526	406022	MR RITESH AGARWAL	JAIPUR

527	406224	MR SAGAR NIGAM	LUCKNOW	547	406873	MR YOGESH KUMAR AWASTHI	LUCKNOW
528	406232	MR SATISH AGARWAL	JAIPUR	548	406897	MR RAMJI THAKUR	JHANSI
529	406249	MR YOGESH KUMAR	NEW DELHI	549	406987	MS AKANKSHA ARORA	AGRA
530	406352	MS SHWETA AGRAWAL	INDORE	550	407010	MS BAKUL GOYAL	DELHI
531	406400	MR RAVI KARIWAL	GURGAON	551	407024	MS SAPNA MANGWANI	INDORE
532	406457	MR MANOJ AGARWAL	RANCHI	552	407028	MR DEEP KISHORE SHARMA	LUCKNOW
533	406488	MR RAJENDRA GUPTA	JAIPUR	553	407052	MS MAYANKA JAISWAL	LUCKNOW
534	406500	MR GIRISH SIVARAMAKRISHNAN	JAMSHEDPUR	554	407053	MR SATISH KUMAR CHAUBEY	LUCKNOW
535	406503	MR NAVEEN AGARWAL	JAIPUR	555	407055	MR DEEPAK BIRLA	INDORE
536	406539	MR VIVEK BANSAL	LUCKNOW	556	407081	MR AJAY AGARWAL	JAIPUR
537	406578	MR SACHIN SAHDEV	KANPUR	557	407093	MR SANDEEP DHAWAN	AGRA
538	406597	MR ANUBHAV SHARDA	JAIPUR	558	407135	MR PANKAJ KUMAR SINGH	PATNA
539	406599	MR DEEPAK DIXIT	JAIPUR	559	407162	MR NEERAJ JAIN	INDORE
540	406604	MR KAMAL JAIN	JAIPUR	560	407177	MS DEEPIKA ARORA	INDORE
541	406625	MR VINAY KUMAR SETH	KANPUR	561	407181	MS SEEMA BHADOURIA	INDORE
542	406688	MR RAVI KUMAR UDHANI	PUNE	562	407198	MR HUZEFA ALI RAMPURAWALA	NEEMUCH
543	406748	MR SANDEEP KUMAR	GHAZIABAD	563	407237	MR SUYAGYA RAMESH SINGHAL	AKLERA
544	406749	MS SEEMA AGARWAL	HOWRAH	564	407288	MR ALOK DADHEECH	JAIPUR
545	406771	MS SMITA GUPTA	ALLAHABAD	565	407291	MR VAIBHAV BADJATYA	INDORE
546	406812	MR GAURAV P AGARWAL	JODHPUR	566	407300	MR NARESH KUMAR	NEW DELHI

567	407352	MR HARSH GOPAL MAHESHWARI	CHHINDWARA	588	407899	MR ANKUR AGGARWAL	DEHRADUN
568	407355	MR NITIN JALAN	GORAKHPUR	589	407901	MR GAURAV JOSHI	LALSOT
569	407360	MR PRADEEP GAUR	JAIPUR	590	407937	MR SANJAY AGRAWAL	MATHURA
570	407405	MS ARCHANA SINGHVI	MUMBAI	591	407951	MS REENU DUBEY	ITARSI
571	407411	MR AMIT SONI	INDORE	592	407960	MS MINAKSHI RATHI	MUMBAI
572	407423	MR VARUN GUPTA	KANPUR	593	407985	MR VIKAS VISHNOI	GHAZIABAD
573	407438	MR NAVEEN SINGHVI	MERTA CITY	594	408002	MR SACHIN KALRA	LUCKNOW
574	407455	MR SURESH MURJANI	JODHPUR	595	408003	MR VIKRAM DOSHI	UDAIPUR
575	407520	MR ANUJ TALWAR	JHANSI	596	408079	MR ASHISH KUMAR JOSHI	VIDISHA
576	407531	MR ROHIT SHARMA	DELHI	597	408085	MR CHANDRA PRAKASH ARORA	GURGAON
577	407535	MR SOURAV KUMAR MAZUMDAR	VARANASI	598	408091	MR MAYANK MOHAN SOMANI	BHILWARA
578	407576	MR HARSH AGRAWAL	BHOPAL	599	408141	MR DHEERAJ RANASARIA	JHUNJHUNU
579	407577	MS CHHAVI JAIN	KANPUR	600	408142	MR NITIN PAREEK	JAIPUR
580	407672	MR RAHUL PURSWANI	GURGAON	601	408183	MR KARAMVEER SINGH KAURAW	BHOPAL
581	407697	MS SHALINI TIWARI	KOTA	602	408216	MR MANISH KUMAR SARAWAT	MEERUT
582	407733	MR NITIN PATODI	GUNA	603	408221	MR PUSHKIN RAJENDRA PARWAL	JAIPUR
583	407740	MR MOHD FAIZ	NOIDA	604	408260	MR ANURAG SINGH	LUCKNOW
584	407767	MR YOGESH KUMAR	BHARATPUR	605	408285	MR KRISHAN KUMAR	JAIPUR
585	407822	MS MEGHA CHOUHARY	RANCHI	606	408316	MR SANJEEV AGARWAL	NEW DELHI
586	407823	MS MRIDULA BIHANI	RANCHI	607	408331	MS RESHU AGARWAL	BARAN
587	407825	MR MANISH KUMAR	RANCHI	608	408335	MR PAWAN KUMAR JAIN	AJMER
				609	408362	MR SUYASH KUMAR	GAYA

610	408369	MR HARISH LODHA	JODHPUR			KAUNTIA	
611	408417	MR LALIT MERTIA	MUMBAI	635	408995	MR ANKIT MEHTA	BHOPAL
612	408460	MR RAJ KUMAR PURSWANI	BHOPAL	636	409015	MR PRAVEEN GUPTA	DURG
613	408479	MS VEENA SINGH	ROORKEE	637	409019	MR LOKESH BHARTI	BHARATPUR
614	408493	MR MANVENDRA ACHARYA	JAIPUR	638	409043	MR KARAN SHUKLA	SECUNDERABAD
615	408512	MR DEEPAK MODI	ALWAR	639	409055	MR ATUL GUPTA	MUMBAI
616	408530	MR RAHUL KAPILA	MEERUT	640	409059	MR NEERAJ SURESH BAKLIWAL	DURG
617	408546	MR ASHISH DWIVEDI	INDORE	641	409066	MS MEENAL MAHESHWARI	MUMBAI
618	408550	MS NISHHU JAIN	GHAZIABAD	642	409080	MR VISHAL SHARMA	HATHRAS
619	408567	MR KRISHAN MURARI AGARWAL	JAIPUR	643	409127	MR MOHIT SIKKA	MORADABAD
620	408581	MR AMIT SAHAI MATHUR	DEHRADUN	644	409168	MS PREETI JAIN	ALWAR
621	408673	MS DEEPIKA	NOIDA	645	409208	MS MANPREET KAUR TUTEJA	INDORE
622	408676	MR SANDEEP MITTAL	JAIPUR	646	409263	MR ANKUR GUPTA	DEHRADUN
623	408699	MS RINKY RAJDEV	BHOPAL	647	409308	MR HIMANSHU PANDEY	ALLAHABAD
624	408703	MR JATIN MALHOTRA	JAIPUR	648	409321	MS NIVEDITA GOYAL	VARANASI
625	408723	MR SAURABH SANGAL	JABALPUR	649	409345	MR AMIT KUMAR JESWANI	GWALIOR
626	408740	MR ALOK PANDAY	ALLAHABAD	650	409347	MR SANDEEP KARWA	INDORE
627	408776	MS SUNAINA SHEKHAWAT	JAIPUR	651	409453	MS PRIYANKA GOEL	BANGALORE
628	408811	MS SHAMA KAPIL AGARWAL	JAIPUR	652	409472	MS NEELAKSHI SONI	BANGALORE
629	408814	MR KUSHANK GANDHI	KANPUR	653	409485	MR RAVI KHARBANDA	GHAZIABAD
630	408836	MS YOGITA KAPOOR	JABALPUR	654	409548	MS SHIVA SHARMA	GURGAON
631	408889	MR GUNWANT LAL SHARMA	PRATAPGARH	655	409572	MR NITIN JAIN	MUMBAI
632	408900	MS SAMRIDDHI BHATT	HYDERABAD				
633	408978	MR MANISH TEMANI	JAIPUR				
634	408991	MR AMIT KUMAR	JAMSHEDPUR				

656	409583	MR PARASHAR K RATHORE	RANCHI	678	410284	MR VIVEK KATIYAR	GURGAON
657	409634	MR SUNNY WADHWANI	JAIPUR	679	410318	MR MANISH RAGHUWANSHI	INDORE
658	409646	MS RICHA JAIN	LUCKNOW	680	410456	MS MANSI SURANA	UJJAIN
659	409661	MR SUSHIL KUMAR JAIN	TIKAMGARH	681	410470	MR AZAD SINGH	GHAZIABAD
660	409665	MR BHARAT KARNANI	JAIPUR	682	410484	MR NIKHIL AGGARWAL	DEHRADUN
661	409675	MR CHANDAN AGARWAL	INDORE	683	410508	MR MANISH AGARWAL	JAIPUR
662	409682	MR BRAJESH KUMAR	JAMSHEDPUR	684	410516	MS NAZIA	RANCHI
663	409748	MR ANUP KUMAR	RANCHI	685	410519	MR AASHISH BHATIA	JAIPUR
664	409801	MR AMIT KUMAR GOYAL	SAHARANPUR	686	410600	MR MANISH KUMAR JAGTIA	BHILWARA
665	409853	MR AMZED KHAN	GURGAON	687	410638	MS MAMTA BAGARIA	RANCHI
666	409898	MR ANKIT MITTAL	SIKANDRABAD	688	410736	MR VIPUL SINGHVI	JODHPUR
667	409922	MR SUMIT KUMAR MAHESHWARI	INDORE	689	410756	MS SHILPI PRIYANK AGGARWAL	BULANDSHAHR
668	409945	MR ASHISH KUMAR SRIVASTAVA	LUCKNOW	690	410811	MR AMIT TALREJA	INDORE
669	409968	MS VEENA KUMAR	RANCHI	691	410880	MS NISHITA KARNANI	JAIPUR
670	409988	MR ATUL JAIN	BHOPAL	692	410899	MR SAURABH SHUKLA	AGRA
671	410015	MR PRADEEP KUMAR YADAV	GORAKHPUR	693	410943	MR AMAN SHARMA	MATHURA
672	410058	MR VISHAL CHATURVEDI	LUCKNOW	694	410984	MS PRIYA SHARMA	INDORE
673	410146	MR MOHIT MISHRA	LUCKNOW	695	411053	MR GUFARANUL HASAN SAYYED	BHOPAL
674	410165	MR ASHISH KUMAR YADAV	JAIPUR	696	411132	MR MOHAMMAD ARIF ANSARI	RAE BARELI
675	410178	MR RAKESH GARG	BEAWAR	697	411159	MS SUGANDHA KHANDELWAL	JAIPUR
676	410209	MR SAJAL GOYAL	SIKANDRABAD	698	411177	MR MANISH KUMAR GOYAL	JAIPUR
677	410221	MR VIKASH KUMAR	RANCHI	699	411215	MS PRIYANKA JAIN	GHAZIABAD

700	411217	MR AMIT KUMAR GANGRADE	SANWAD	722	500565	MS SUMAN	NEW DELHI
701	411241	MS MONA DWIVEDI	BHOPAL	723	500735	MR SAXENA BRIJENDER KUMAR	UJHANI
702	411242	MR ANKIT JAIN	BARAUT	724	500846	MR RANJEET KUNWAR	GHAZIABAD
703	411266	MR SIDHARTHA SHANKER ACHARYA	JODHPUR	725	500929	MR ANIL KUMAR	GHAZIABAD
704	411271	MS SHUBHAM V BHANDARI	BOKARO STEEL CITY	726	500931	MR RAJESH KUMAR KANDOI	NEW DELHI
705	411349	MR NARENDRA ARORA	DELHI	727	500944	MR SHASHI BHUSHAN KUMAR	GAYA
706	411381	MS SHWETA JAIN	INDORE	728	501035	MR GOYAL JITENDRA	BHARATPUR
707	411406	MR SHALIN KUMAR GOYAL	MADANGANJ KISHANGARH	729	501175	MR VIJAY KUMAR AGRAWAL	RAIPUR
708	411447	MR MADHUSUDAN MUNDHRA	SURATGARH	730	501202	MR AGRAWAL PARAG	GHAZIABAD
709	411479	MR RAZIUDDIN ANSARI	SIDDHARTHANAGAR	731	501207	MR RAJEEV KUMAR	HARDWAR
710	411482	MR KAMAL KALRA	BHOPAL	732	501649	MR MITTAL SUMIT KUMAR	RANCHI
711	411520	MR VIKAS KUMAWAT	JAIPUR	733	501655	MS KWATRA MEENAKSHI	GHAZIABAD
712	411568	MR ABHAY MAHESHWARI	JAIPUR	734	501958	MR SANTOSH KUMAR	GHAZIABAD
713	411632	MR RAHUL MAHESHWARI	BHILWARA	735	502070	MR RAMESH CHANDRA	DELHI
714	411641	MR ASHUTOSH H MALOO	JAIPUR	736	502205	MR K ANIL KUMAR PATRO	NOIDA
715	411700	MR ARPIT MAHAJAN	INDORE	737	502802	MR SARVESH KUMAR	NOIDA
716	411741	MR MOHAMMAD AKRAM	HANUMANGARH TOWN	738	503838	MR SINHA KRISHNA PRATAP	BOKARO STEEL CITY
717	411758	MR SUMIT SHEKHAR	RANCHI	739	503841	MR VIVEK SINGH	BAREILLY
718	411793	MR SATISH KUMAR MUNDRA	TAPKARA	740	504219	MR AGRAWAL ASHISH	DELHI
719	411819	MS AKSHITA AGRAWAL	JAIPUR	741	504285	MR KASHYAP MANISH	JAIPUR
720	500298	MR DEEPAK KUMAR	BARAUNI				
721	500326	MR PANDIT SANDIP KUMAR	NOIDA				

742	504554	MR MITTAL AMIT MOHAN	MATHURA	763	509514	MR ASHISH MOHTA	BIKANER
743	505041	MR JAIN NITIN K	NEW DELHI	764	509548	MR NAND LAL	NEW DELHI
744	505378	MR THAKKAR AMIT KUMAR	GHAZIABAD	765	509672	MR SAURABH SHARMA	DEHRADUN
745	505386	MR GARG RAJESH	UDHAM SINGH NAGAR	766	509695	MR PINTU MEHAR	MUMBAI
746	505427	MS DIVYA	GHAZIABAD	767	509943	MR BRIJESH KUMAR SINGH	DELHI
747	505445	MR KHANNA RAHUL	GHAZIABAD	768	510000	MR VIPIN JAIN	AGRA
748	505718	MR BHARDWAJ AMIT	NOIDA	769	510042	MR RUPESH KUMAR	GHAZIPUR
749	505984	MR GIRDHARI PRASAD	HARDWAR	770	510194	MR AMIT TRIPATHI	LUCKNOW
750	506052	MR ANURAG RAJAN	PATNA	771	510247	MR ASHISH JAISWAL	MIRZAPUR
751	506088	MR SWATANTRA KUMAR SINGH	MANKAPUR	772	510337	MR SUMIT GAUTAM MISHRA	GHAZIABAD
752	506379	MR SAURABH TANDON	ALLAHABAD	773	510422	MR HARS KUMAR	KHURJA
753	506453	MR VIKAS BIRLA	CHITTORGARH	774	510428	MS PRIYANKA MODI	BANGALORE
754	506561	MR VINAY BAPNA	NOIDA	775	510439	MR JITENDRA AGRAWAL	MATHURA
755	506848	MR RAHUL JAISWAL	NOIDA	776	510483	MR VINAY CHAURASIA	GORAKHPUR
756	506929	MR VARUN VIRMANI	GHAZIABAD	777	510671	MR VIKASH KUMAR	NOIDA
757	507254	MR CHETAN KUMAR	BIJAINAGAR	778	510709	MS PURTI KOTHARI	INDORE
758	507817	MR VIVEK VEDA	GHAZIABAD	779	510787	MR GOPAL SHARMA	MUZAFFAR NAGAR
759	508467	MR SANJEEV RASTOGI	ALLAHABAD	780	510869	MR MRINAL SAJWAN	GHAZIABAD
760	508556	MR VIJAYPAL SINGH GULYA	RAIPUR	781	511016	MS MONISHA AGRAWAL	BAREILLY
761	508813	MR DINESH KUMAR	GHAZIABAD	782	511059	MR BUDHI BHASKAR SRIVASTAVA	ALIGARH
762	509263	MR NEERAJ SINGH CHOUHAN	NOIDA	783	511089	MS KHUSHBOO BANSAL	GHAZIABAD

784	511164	MR BINIT PUSHKAR	GHAZIABAD	798	513025	MR VINEET GOEL	BAREILLY
785	511249	MR ACHAL KUMAR GARG	MEERUT	799	513076	MR MANOJ GUPTA	ALWAR
786	511261	MR NIKHIL SINGHAL	HAPUR	800	513183	MR SATISH KUMAR SHARMA	BHIWADI
787	511480	MR MUDIT GUPTA	NOIDA	801	513723	MR GHANSHYAM DAS GUPTA	CHHATARPUR
788	511591	MR SAMEER ARORA	GURGAON	802	514137	MR HARSHIT AGRAWAL	PADRAUNA
789	511637	MR DESH BANDHU	GURGAON	803	514628	MS VATIKA ARORA	BAREILLY
790	511896	MR ABHISHEK SHARMA	GHAZIABAD	804	514810	MS GUNJAN GARG	BACHHRAON
791	511984	MR MOHD AURANGZAIB KHAN	GHAZIABAD	805	514985	MR ARJUN KUMAR	NEW DELHI
792	512052	MR ARGHYA MUKHERJI	PATNA	806	515157	MS SANJANA SOOD	GHAZIABAD
793	512279	MR SAURABH AGRAWAL	MATHURA	807	515164	MR NARENDRA NATH MISHRA	MUMBAI
794	512647	MR VISHAL JAISWAL	POORANPUR	808	515257	MS PREETI SHARMA	MEERUT
795	512676	MR AKALESH SINGH	GHAZIABAD	809	515456	MR SAURABH JAIN	BARAUT
796	512686	MS GEETIKA MALIK	NOIDA	(T. KARTHIKEYAN) SECRETARY			
797	512854	MS SHUCHI SANGAL	DEHRADUN				

3CCA (4) (2)2010-2011: in pursuance of regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, It is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub Section (1) of section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute the name of the following member on account of death with effect from date(S) mentioned against their names:-


SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	DATE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	DATE
1	002264	MR KALANI PUKHRAJ SHANKER LAL	JAIPUR	16/08/2010	5	003527	MR JAISWAL RAMESHWAR PRASAD	BHAGALPUR	16/05/2010
2	002326	MR GUPTA SHRIKANT	KANPUR	10/12/2010	6	006500	MR SANCHETI MANAK CHAND	JODHPUR	21/12/2010
3	002463	MR SAH PRABHAT RANJAN	VARANASI	18/12/2010	7	008736	MR SHUKLA SHRI GOPAL	KANPUR	13/08/2010
4	002696	MR JAIN DHANNALAL RAJMAL	JAIPUR	22/12/2010	8	009014	MR SHUKLA ASHWANI KUMAR	KANPUR	01/12/2010
					9	011007	MR BAID NAG RAJ	PATNA	21/07/2010


10	012882	MR DHADDA PREM CHANDRA	JAIPUR	11/09/2010	27	076565	MR AGRAWAL UGRASEN	LAKHIMPUR KHERI	09/08/2010
11	013497	MR AGARWAL KRISHNA MURARI	GHAZIABAD	05/07/2010	28	078219	MR GALHOTRA RAMAN KUMAR	BIJNOR	18/11/2010
12	015054	MR GOPALJI	ALLAHABAD	27/03/2010	29	078931	MR SINGH SARABJEET	JAIPUR	30/06/2010
13	015504	MR MITTAL SUDHIR KUMAR	NOIDA	23/04/2010	30	081353	MR BHUTANI VINOD KUMAR	NOIDA	20/11/2010
14	052716	MR SAH RABI NATH	PATNA	21/12/2010	31	082433	MR GUPTA PAWAN PRAKASH	NOIDA	12/12/2010
15	070442	MR BHARAKATIA GANESH MAL	JAIPUR	16/12/2009	32	085567	MR DODIA VIJAY KUMAR	PALI MARWAR	29/11/2010
16	070453	MR BAGLA RAMESHWAR LAL	UDAIPUR	12/10/2010	33	087965	MR SINGHAL VINOD KUMAR	BULANDSHAHR	06/07/2010
17	070519	MR AGGARWAL DHARAM VEER	SRIGANGA NAGAR	29/11/2010	34	090061	MR ARORA SANJEEV	MATHURA	17/11/2010
18	071031	MR KAPOOR AMAR NATH	KANPUR	23/03/2010	35	090344	MR TAPARIA MANISH	AJMER	03/09/2010
19	071049	MR VIRENDRA KUMAR	GHAZIABAD	02/12/2010	36	402291	MR JAIN RAJENDRA KUMAR	BHILWARA	10/11/2007
20	072107	MR GOEL HARI BHUSHAN	KANPUR	08/02/2010	37	404685	MR CHACHRA ARVIND	JAMSHEDPUR	02/08/2010
21	073027	MR SIKAWAT ASHOK KUMAR	JODHPUR	04/01/2011	38	405258	MR SHARMA PRAHALAD	MATHURA	03/12/2010
22	073200	MR JAIN RAJENDRA KUMAR	UDAIPUR	16/03/2010	39	411045	MR ANIKET KRISHNANI	DURG	04/11/2009
23	073326	MR GUPTA ANIL	SAHARANPUR	17/09/2010	40	515702	MS PRACHI GUPTA	BULANDSHAHR	28/07/2010
24	074492	MR BOHARA DEVENDRA	BHILWARA	25/07/2010					
25	075264	MR SHARMA KRISHNA GOPAL	ALLAHABAD	29/04/2010					
26	075830	MR MISHRA ASHUTOSH	LUCKNOW	23/08/2010					

(T.KARTHIKEYAN)
SECRETARY

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY, ALIGARH
BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 2011


LIABILITIES	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
CORPUS/ CAPITAL FUND	1	299411209.00	5490123.00
RESERVE AND SURPLUS	2	2684999239.00	2251330690.00
EARMARKED ENDOWMENT FUND	3	4150297412.00	3208152033.00
SECURED LOAN AND BORROWINGS	4	-	-
UNSECURED LOAN BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
CURRENT LIABILITIES	7	47559024.00	60120516.00
TOTAL:		7182266884.00	5525093362.00
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	2685093621.00	2251425072.00
INVESTMENT EARMARKED/ ENDOWMENT	9	2691873342.00	2331744020.00
INVESTMENTS OTHERS	10	218420858.00	206270878.00
CURRENT ASSETS, LOAN & ADVANCES	11	1586879063.00	735653392.00
MISCELLANEOUS EXPENDITURE		-	-
TOTAL:		7182266884.00	5525093362.00



 (Shakaib Arsalan)
 Deputy Finance Officer
 (Accounts)


 (Yasmin Jalal Beg)
 Finance Officer

INCOME AND EXPENDITURE OF ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY AS ON 31 MARCH, 2011

INCOME	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME FROM SALES/SERVICES	12	22124834.00	17785117.00
GRANTS/ SUBSIDIES	13	5026641371.00	4496362822.00
FEE/SUBSCRIPTION	14	114781313.00	119353480.00
INCOME FROM INVESTMENTS (EARMARKED/ENDOWMENT FUND)	15	3042049.00	3744070.00
INCOME FROM ROYAL, PUBLICATION ETC.	16	178079.00	229314.00
INTEREST EARNED	17	5590645.00	14212473.00
OTHER INCOME	18	24662933.00	21474477.00
INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS	19	-	-
TOTAL (A)		5197021224.00	4673161753.00
EXPENDITURE			
ESTABLISHMENT EXPENSES	20	4366193240.00	4191281349.00
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	21	536906898.00	51113519.00
EXPENDITURE ON GRANT, SUBSIDIES ETC.	22	-	-
Interest	23	-	-
TOTAL (B)		4903100138.00	4702394868.00
BALANCE BEING EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE (A-B)		293921086.00	-29233115.00
BALANCE BEING EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME (B-A)			
BALANCE BEING SURPLUS (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS /CAPITAL FUNDS	24	-	-
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	25	-	-
CONTINGENT LIABILITIES AND ACCOUNTS			


 (Shakeib Arsalan)
 Deputy Finance Officer
 (Accounts)


 (Muzamir Khalil Beg)
 Finance Officer

Annual Administrative Report
Of
Dargah Committee Dargah Khwaja Sahab(R.A.), Ajmer
For The Year 2009-2010.

It is my privilege and also a matter of immense pleasure to make a presentation on the Administrative aspects of Dargah Committee, Dargah Khwaja Sahab, Ajmer for the year 2009-2010. As usual the Dargah Management has worked in full swing during the current year. An account of the such activities is given in foregoing paras.

I. The Management:-

The following Members of the Dargah Committee appointed by the Government of India, vide Gazette Notification No. S.O.1456 (E). dated. 24.08.2007 have continued their dedicated services during the reporting period for the noble cause of the Committee.

i.	Janab Nawab Mohammed Abdul Ali Sahab	Chennai.
ii.	Janab Haji Hafiz Wakil Ahmed Sahab	Sultanpur.
iii.	Janab Mohammed Ilyas Qadri Sahab	Ajmer.
iv.	Professor (Dr.) Ibraheem Sahab	Delhi.
v.	Janab Sohail Ahmad Khan	Patna.
vi.	Janab A.H.Khan Chowdhury	Delhi.
vii.	Janab Mohammed Suhel Mohiyuddin Tirmizi Sahab	Ahmedabad.
viii.	Janab Badruddin Gulammohiyuddin Shaikh Sahab	Ahmedabad.
ix.	Janab Ghole Ismail Muallim Sahab	Raigad.

II. A Brief on Services Being Rendered by Dargah Committee:-

- Daily presentation of flowers, sandal and candles on the Holy Shrine.
- Management of Annual Urs.
- Management of Muharram Sharif inside Dargah Sharif and opening of Chilla of Hazrat Baba Farid (R.A.).
- Fateha of Khulfa-e-Rashedeen and Buzurgan-e-Deen.
- Daily Langar for poor with special Sehri / Iftar arrangement during holy month of Ramzan.
- Running of Darul Uloom Moinia Usmaniya Dargah Sharif for providing the knowledge of theology..
- Running of Khwaja Model Secondary School, (an English Medium School) duly recognized by the Government for imparting education along with basic knowledge of Theology and Moral education.
- Management of Gharib Nawaz Computer Center.
- Stipend to widows and needy persons.

- Maintenance of three separate dispensaries viz. Unani, Homeopathic and Allopathic Dispensaries where apart from the consultations the medicines were provided free of cost.
- Scholarships to needy and meritorious students undergoing Medical, Engineering and other technical courses.
- Maintenance of Idgah and Financial assistance to various mosques.
- Burial of unclaimed dead bodies.
- Arrangements of pure and tripled filtered safe drinking water in Dargah.
- Good water arrangements for wazoo. Hot water is supplied three times during the winter season.
- Uninterrupted Electric Supply.
- Maintenance of Guest House consisting of 180 rooms.
- Round the clock cleanliness.
- Providing Shamiyanas in Dargah Premises to protect the zaireen from seasonal hazards. Similarly shelter is also provided at the time of Urs and periodical Religious congregations.
- Payment of Huqooq (Honorarium) to hereditary staff.
- Programme on National Integration.
- Programme for Legal Literacy among the weaker section of the society.
- Provision of infrastructure and supervision for the examinations conducted by the Rajasthan Public Service Commission and Revenue Department.
- Free spoken English Classes.
- Provision of Security Infrastructure including X-ray Machine and Cameras.
- Protection & periodical maintenances and development of properties and endowment.

III. Achievements of Current Year:

A. Amenities:

- Excellent arrangements of filtered water supply, uninterrupted electricity with standby arrangements of generators, lodging and cleanliness.
- Development of Vishram Sthali (now Gharib Nawaz Mehmankhana) for one Lakh zaireen with parking facility for 6000 buses.
- Elimination of beggars from Dargah Premises a historical step.
- Solar Energy project.
- Jhalra water project, a unique project for the supply of pure drinking water @ 4.75 lakh liter per day.
- Supply of Hot water in winter and cold water in summer.
- Operation of sophisticated floor cleaning machine.
- Computerization of Guest House, Nazur section.

B. Development of Properties:

- Chalked out a sustainable strategy for “Protection of Dargah Properties”
- 98% success in Legal Matters. Properties worth crores of rupees have been retrieved.
- Surveys and Map preparations for Planning purposes.
- Search for the Properties of Dargah Committee lying in various parts of the country, it's identification, liason with Revenue Authorities, legal action and

vigorous follow up thereof. Agricultural Land worth Rs. 50 lakhs has so far been taken into possession by the Committee.

- Legal Action and campaign against the unauthorized occupants.

C. Education and Other Academic Activities:

- Up-gradation and Development of academic infrastructure for Khwaja Model Secondary School, Computer Centre & Darul Uloom.
- Conduct / arrangement of RAS, RJS, Patwari, Secretariat Staff and Computer exams on behalf of State Govt. and Govt. of India.
- Seminar / Conference on National Integration.
- Legal literacy camps.
- Construction of 24 halls for English Medium secondary school.
- Free English spoken classes.
- Financial Assistance to Minority Status School.
- Educational Trips for students and teachers.

D. Finance:

- Increase in Income from Rs. 2.27 Crores to Rs. 3.75 per annum & FDR from Rs. 70 Lakh to Rs. 1.50 Crores.
- Computerization of Accounts Section.

E. Publicity:

- Creation of a public face of Committee through website / booklets / interviews etc.
- Publicity of activities of Dargah Committee through TV in 22 countries that too free of cost.

F. Security:

- Procurement of X-Ray Baggage scanning machine.
- Heightening of a few walls of Dargah Premises.
- Provision of Security Infrastructure viz. cameras, wiring, computers. LCDs, Generators furniture, security guards etc.
- Installation of flood lights.
- Fire safety measures.

G. Urs & Congregations:

- Successful Management of Urs, Mini Urs and a number of congregations.

IV. Welfare & Charities:

- Services to Aazmeen Haj.
- Financial aid to needy and academically brilliant students.
- Medical services through three dispensaries, Lakhs of zaireen have so far been cured.
- Opening of a Welfare cell for the grievances of zaireen, Legal cell during Urs.
- Pension to widows.
- Food to 600+150=750 poor people during Ramzan month, arrangements of Eitekar & Taraveeh.
- Daily langar.
- Regularization of services of Casual & Fixed Pay staff.

V. Management of Urs and Congregations:-

The 797th Annual Urs was held in June / July 2009 in which around 5 lacs pilgrims visited the Shrine. The Urs was incident free with full infrastructure of amenities provided to the pilgrims. These arrangements were appreciated at National level. Various dignitaries also visited the Shrine to pay homage to the Great Sufi saint.

The Dargah Committee has also made all the arrangements for the Mini Urs. The Committee records it's sincere thanks to the Distt. Administration, Police, Intelligence Agencies and the Local Bodies for their spontaneous cooperation.

VI. PROJECTS:**A. A Brief on (1) Proposed Rose Water Distillation Plant, (2) Manufacturing of Agarbatties and (3) Manufacturing of Manure.****1. Background:**

The existing Dargah Committee has been fully geared up for the developmental activities with an object to provide maximum facilities to the pilgrims of Holy Shrine which are around 35 lakhs per annum coming from various corners of world irrespective of caste, faith, creed or religion. Accordingly, the Committee has completed a few novel projects viz: Jhalra Water Proejct, Khwaja Model Secondary School Project, Vishram Sthali etc, whereas a few are in pipe line. These projects on completion would provide permanent infrastructure and a lot of amenities to pilgrims apart from augmentation of Income.

Proposed Rose Water Distillation Plant, Manufacturing of Agarbatties and Manufacturing of Manure are a few projects which are to be launched in near future.

2. Rationale of the Proejct:

According to a rough estimates around 1800 KGs of the flowers are offered on the Mazar Sharif of which 75 % are roses and remaining 30% are other flowers. According to the arrangements since last 800 years, these flowers are dumped into a well which is emptied periodically and the material is buried at a distant places to give room in the well for dumping fresh flowers. With an object to recycle these post offered flowers with optimal utilization, the Nazim has taken up this matter on 20.09.2008 with the Ministry of Science & Technology (Department of Biotechnology)

Government of India and Central Institute of Medicinal & Aromatic Plants, (CIMAP) Lucknow with the request to provide the desired Technology. Accordingly, Ms.(Dr.) Hameeda Aabdi, Advisor to Government of India visited Ajmer Sharif on 11.02.2009 alongwith the Scientists of CIMAP and the scientists and Officials from Parivartan Vikas Sansthan (an NGO from Udham Singh Nagar Uttarakhand). This NGO had desired experience of training in such types of projects. Pursuant to the detailed discussion the blue print and the modalities of the project were chalked out and Nazim has sent a formal request to the Government of India and CIMAP. The CIMAP has confirmed the technical feasibility of the project and accordingly, the cost estimates for training component were finalized. Dr. V.P. Gupta, Advisor, Ministry of Science & Technology also responded to the request of Nazim in May 2009 and subsequent to which the Dargah Committee in its meeting held on 31.05.2009 has approved the project authorizing the Nazim to go ahead in the matter.

3. **The Project:**

The estimated per day production and the values of three products are as follows:

S.No.	Products	Weight	Value
1.	100% Pure Rose Water	400 Kgs.	Rs.60000/-
2.	Gulab Agarbatties	50 Kg.	Rs.15,000/-
3.	Pure Manure	100 Kg.	Rs.5,000/-
Total Rs.			80,000/-

According to rough estimates around Rs.40,000/- shall be spent on wages overheads, administrative expenses and handling charges etc. giving cushion to the net Income of Rs. 40,000/- thousand per day.

4. **Employment Generation Opportunities:**

As a result of potential utility of post offered Rose Flowers, there is a ample scope of employment generation for a 300 women @ Rs. 3500/- to Rs. 5,000/- per month. The unique feature of this project is that *only women would be involved in manufacturing all the above referred products.*

5. **Technology:**

The department of Biotechnology, Ministry of Science & Technology and CIMAP would provide the technology for all the three projects where as the training component shall be taken care of by the Parivartan Vikas Sansthan, Udham Singh Nagar.

6. Training:

Dargah Committee has already successfully imparted training to 270 women in manufacturing of Rose Water during the period from 27th January to 31.01.2010 under the direct guidance of scientists.

7. Emerging Issues:

- ❖ The project is proposed to be launched in April 2010 for which the approval regarding procurement of plant and machinery for commissioning the project on commercial level shall be sought in the ensuing meeting of the Committee to be held on 20.02.2010.
- ❖ The Nazim is in correspondence with the potential National Buyers of the products viz: Hamdard, Tibbiya Collge Aligarh , Hindustan Lever Ltd., Baba Ramdev Ayurvedic Sansthan etc. It is necessary to firm up tie up arrangements with the above potential buyers so that the produce are simultaneously disposed off at the competitive rates.

8. Income to Dargah Committee:

On successful completion of the project, GOD willing there will be substantial Income to the Dargah Committee which could be allocated for providing the amenities to the pilgrims and also on women and child welfare activities.

B. Khwaja Model Secondary School :**1. Introduction:**

Khwaja Model Secondary School, Ajmer (KMS) was founded on 14th July, 1994 under the auspices of Dargah Committee , Dargah Khwaja Saheb Ajmer. As an English Medium Day School, it started with 35 students, whereas today its strength is 525 students. It offers unique opportunity to develop both the mind and the body structured educational and distinctive co-curricular programme. Being, primarily a day school, the campus is spread over five bighas of land with beautiful location. During 2007 and onwards it has developed building, infrastructure and other facilities and thus provides opportunities for each student to excel in various spheres. With Co-educational, System, the School is opened for all, irrespective of caste, class, creed or community.

2. Aims & Objectives:

Aims at a vigorous pursuit of excellence in academics, extra curricular activities, games & sports and character building by providing all-round, meaningful and liberal education with moral values because ours is a tradition of SUFI's who never supported orthodoxy of religion or ideas.

3. Up-gradation of School:

The School which was upto VIII standard since 1994, has been up-graded in 2008 to Secondary Status by the CBSE Delhi.

4. Highly Qualified Teaching Staff:

Subsequent to the affiliation by CBSE the School has inducted highly qualified and trained teachers through a transparent selection process by the professors from Jamia Millia and experts from Mumbai & Rajasthan.

5. Infrastructure Development & Expansion Plan:

- ❖ In 2007 the School Building was comprising only six class room with the 5100 Sft.
- ❖ The Committee with the financial support from a Donor has implemented the expansion plan for total 26 Class rooms.
- ❖ Apart from this one apartment in the same vicinity has been evicted for Girls hospital.
- ❖ This expansion plan is on "Turnkey Basis" involving a capital outlay of Rs.1.10 Crores which is borne by the Donor.
- ❖ Insha-Allah the building will be ready by 31.05.2010.

6. Backstage Support:

The School has also been providing backstage support for the following activities:

- ❖ Conduct / arrangement of RAS, RJS, Patwari, Secretariat Staff and Computer exams on behalf of State Government and Government of India.
- ❖ Seminar / Conference on National Integration.
- ❖ Legal Literacy camps.
- ❖ Free English spoken classes.
- ❖ Educational Trips for students and teachers.

7. Subsidy in Fee:

- ❖ The fee structure of the school has been kept only 1/3 of the fee as prevailed in other reputed Convent Schools of Ajmer.
- ❖ Therefore a subsidy of Rs.20 lakhs per annum is provide to the School by Dargah Committee.
- ❖ The very purpose of such skeleton fee structure is to provide financial support to the students coming from the downtrodden strata of the society.

C. Vishram Sthali at Kayad – Ajmer.

- Located at National Highway No. 8 Ajmer – Jaipur Road – 10 Kms away from Dargah Sharif.

- Spreadover 230 Bighas (80 Bighas of Dargah Committee + 150 Bighas allotted by Govt. of Rajasthan.)
 - Projects funded by Govt. of India –

Ministry of Tourism	01.87 Crores
Under JNURM	15.38 Crores
Total	17.25 Crores
 - Executing Agency C.P.W.D.
 - To be used during Annual Urs for Approximate. 15 days.
 - **The Project:**
 - Construction of 28 Dormitories to accommodate 112000 pilgrims.
 - Parking facility for 5000—6000 buses.
 - Complete and comprehensive infrastructure for security, Transport, Health Services, Electricity, Water, Bus and Railway bookings.
 - Availability of commodities at fixed rates by Distt. Supply Officer.
 - Construction of Parks, Rain Water harvesting etc.
- All the above infrastructure shall involve an capital outlay of Rs.110 Crores +.

1. **Vishram Sthali (Re-chrishtianed as Gharib Nawaz Mehman Khana):**

The progress of the developmental works at Vishram Sthali is as follows:

Component of the Project	percentage	Cost (Rs. in Lakhs)
❖ Boundary wall	100 %	69.84
❖ Four Storied Dormitory (One)	100%	267.22
❖ Two Dormitory, Guest House, Kitchen, Dinning Hall, Stores & Toilet Blocks	100%	187.00
❖ U.G. Water Tank	100%	67.55
❖ Houz & Toilets	60%	225.36
❖ Road Works	60%	137.26
❖ Street Lights	100%	38.51
❖ High Mast Lights	5%	1.65
❖ Horticulture Works	50%	3.85
Total		998.24

In addition to above a proposal for Rs.1.5 Crore for providing water supply infrastructure is in pipeline and the works are likely to be commenced before March, 2010. A sum of Rs.23.58 Lakhs has already been deposited with Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd., for providing electricity supply line.

D. **Renewable Energy System and Devices at Dargah Premises:**

As a result of efforts, the Ministry of New & Renewable Energy, Government of India has provided Dargah Committee, the Central Financial Assistance of Rs.50 Lakhs for installation of “Solar Energy Devices”. The

Nazim has arranged the survey with the help of the experts from the Concerned Ministry and a D.P.R. has also been submitted for implementation of Special Area Demonstration project by April, 2010. This is a unique project which would facilitate the Dargah Committee in curtailment of 1/3 electricity expenses i.e. Rs.12 Lakhs per annum.

E. Functioning of Darul Uloom Moinia Usmaniya:-

The Committee has been successfully managing *Darul Uloom Moinia Usmaniya*, a school of theology which is also imparting the preaching's of Hazrat Khwaja Gharib Nawaz. The Darul Uloom has highly qualified five number of Aalim, Fazil, Kamil, Hafiz, Qari and Librarian. There are seventy seven number of students in the classes viz: Edadiya, Oola, Saniya, Rabiya, Tehtaniya and Hifz. The Committee has also made lodging and Boarding arrangements for 72 number of students. Efforts are also on to construct a suitable building for Darul Uloom with all facilities to the students including recreation facility.

F. Finances:-

Depicted below is the Financial Status of The Dargah committee in term of an abridged Receipt and Payments A/C.

Dargah Committee, Dargah Khawaja Sahab, Ajmer.

BUDGET PROPOSALS

<u>Income Rs. (In Lakhs)</u>			
Head	Estimated Budget	Income for 2009-10	Budget Estimates 2010-11
Income From Jagirs	278750	477285	259250
Income From Properties	4025500	4515170	4453000
Income From Nazur	11735000	14311032	14685000
Interest From Banks	1330000	1489039	1400000
Receipts From Guest House	12200000	11142558	12100000
Education	2250000	2171134	2550000
Donation"	4700000	2067776	4200000
Miscellaneous Income	1100000	987531	1100000
Total	37619250	37161525	40747250

Dargah Committee, Dargah Khawaja Sahab Ajmer.**BUDGET PROPOSALS**

<u>Expenditure</u>			
Heads	Estimated Budget	Expenditure 2009-2010	Budget Estimates 2010-11
Salaries & Allowances	16000000	14551899	16000000
Office Expenses	2900000	1988667	2900000
Dargah Sharif Expenses	8895000	7590571	8895000
Mazar Sharif Expenses	1044000	1093434	1044000
Dawakhana Expenses	195000	127928	195000
Daruloom Expenses	495000	423451	495000
Aid expenses	1810000	1136162	1810000
Guest House Expenses	2730000	2314728	2730000
Dargah Apartment Expenses	210000	189295	210000
Repairs & Maintenance Expenses	300000	201219	300000
Educational Expenses"	350000	201210	350000
Khawaja Model School Expenses	1130000	1265447	1130000
Computer Center Expenses	450000	419377	450000
Capital Expenditure	1000000	949549	1000000
Miscellaneous Expenses	195000	163401	195000
Total	37704000	32616338	37704000

G. Dargah Committee Meetings:

The Dargah Committee has had 6 sittings during the year in connection with the affairs of Dargah Sharif.

H. Visit of V.V.I.P's/ V.I.P. :-

The visit of following dignitaries amongst others deserves to be recorded.

1 Shri. Ashok Gehlot Ji,

Hon'ble Chief Minister of Rajasthan.

- | | | | |
|-----------------------------------|--|-------|---------------|
| 2. Janab Lal Jan Basha, | Chairman | Joint | Parliamentary |
| | Committee.. | | |
| 3. Janab Farooque Abdulla Sahab, | Hon'ble Energy Minister, Govt. of India. | | |
| 4. Janab S.M.Akhater Sahab, | Deputy Secretary to Government of India. | | |
| 4. Smt.Panabaaka Lakshmi, | Hon'ble Union Minister For Textile. | | |
| 5. Smt. Sk. Haseena Wajid Saheba, | Hon'ble Prime Minister of Bangladesh. | | |
| 6. Janab Vivek Mehrotra Ji, | Secretary to Govt. of India, Ministry of | | |
| | Minority Affairs. | | |
| 7. Shri Vilas Rao Deshmukh, | Chief Minister of Maharashtra. | | |

I. Vote of Thanks:-

The President and Vice President in particular and all the Committee Members in general have rendered valuable guidance for smooth and successful administration of Dargah Sharif. There was spontaneous cooperation from the Dargah Committee which has resulted in smooth conduct of day to day functioning and special events like Urs and other conventional rituals.

I would be failing in my duties if I do not record the good support received from the Ministry of Minority Affairs, Government of India. The District Administration Ajmer, Department of Police, Municipal Corporation, Electricity Board and other Public Utility service providers also extended excellent support.

I conclude this report with a note that the year to come would also be eventful.

(Ahmed Raza)
Nazim,
& Chief Executive Officer

**Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India
on the Accounts of Dargah Khwaja Saheb, Aimer for the year ended 31
March 2010.**

We have audited the attached Balance Sheet of Dargah Khwaja Saheb (DKS), Ajmer as at 31 March 2010 and the Income and Expenditure Account/Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 20(1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act 1971 read with Section 19(1) of the Dargah Khwaja Saheb Act, 1955. The audit has been entrusted for the period of five years with effect from 2008-09. These financial statements include the accounts of all units of the DKS. These financial statements are the responsibility of the DKS's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc, audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports / CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:-
- i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - ii. The Balance Sheet and Income and Expenditure Account / Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Controller General of Accounts of India.
 - iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Dargah Khwaja Saheb, Ajmer as required under section 20 (2) (d) of the Dargah Khwaja Saheb Act, 1955 in so far as it appears from our examination of such books.
 - iv. We further report that:

Comment on account

A. Balance Sheet

A.1 Liabilities ₹ 18.78 crore

A.1.1 Depreciation Fund on Moveable Assets ₹ 15.00 lakh

During the year 2009-10 deprecation charged on moveable assets was ₹ 15.00 lakh but the amount has not been charged to Income & Expenditure Account. This has resulted in to overstatement of fixed assets as well as surplus to the same extent.

A.2. Assets

A.2.1. Fixed Assets Land-free hold ₹ 41.88 lakh.

The management took possession of three pieces of donated land situated at Khatoli (2.32 hectare), Devnimdi (2.99 hectare) and Jhopdiya (2.03 hectare) at district Kota on 11.4.2009 and total cost of the land was assessed at ₹ 22.65 lakh instead of District Level Committee (D.L.C) rate ₹ 19.65 lakh. This has resulted in to overstatement of fixed assets as well as capital fund by ₹ 3.00 lakh.

A.2.2 Current assets, loan & advances etc. ₹ 43.83 lakh.

This did not include ₹ 0.50 lakh paid to Sh. Mastan Ali, contractor on his request as an advance for execution of marble flooring work at Akbari mosque on 31.3.2010. The payment was treated as expenditure. This has resulted understatement of current assets as well as surplus to the same extent.

A.2.3 Other security deposit ₹ 1.77 lakh.

- (i) This is understated by ₹ 2.70 lakh as security deposit for electric connection deposited to Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd., Ajmer was shown ₹ 1.57 lakh instead of ₹ 4.27 lakh in current assets. As a result capital fund and current assets were understated to the same extent.
- (ii) This is overstated by ₹ 0.60 lakh as electricity consumption pertaining to two temporary connections was wrongly included in security deposit. Actually security deposit of ₹ 1.04 lakh was deposited with Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd. (AVVNL) for two temporary connections but after disconnection ₹ 0.44 lakh were finally refunded by the AVVNL to Dargah after adjustment of electricity consumption. But, consumption charges of ₹ 0.60 lakh were not debited to electricity expenditure which resulted overstatement of current assets as well as surplus.

B. Income & Expenditure Account**B.1 Expenditure ₹ 3.94 crore.**

- B.1.1.** The Dargah Khwaja sahib is liable to pay retirement benefit however, provisions for accruing gratuity and leave encashment have not been made in accounts. This has resulted overstatement of surplus as well as capital fund. The amount could not be quantified.

B.2. Income ₹ 4.19 crore.**B.2.1. Own assets-Guest House ₹ 1.11 crore.**

This does not include ₹ 0.98 lakh which were due from visitors who stayed in guest house during the year 2009-10. Non inclusion of receivable amount resulted in to understatement of surplus as well as current assets/claim receivables.

C. General:

During the year 2009-10 receipts from Dargah guest house amounting to ₹ 5.68 lakh had been embezzled by the Receptionist of the guest house for which a FIR had been lodged by the Dargah authorities. The recoverable amount has not been shown by way of note in the Balance Sheet of the Dargah.

D. Effect of Audit on Accounts.

The net impact of the comments given in preceding paras is that as on 31st March, 2010 liabilities are overstated by ₹ 0.30 lakh, Assets are overstated by ₹ 14.42 lakh and surplus is overstated by ₹ 14.12 lakh.

E. Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Management through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

F. Lack of Response


Draft Separate Audit Report was issued on 01-08-2011 but reply was not received within the prescribed schedule.

- V. Subject to our observations in the preceding paragraphs, We report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account / Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- VI. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements, read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters, stated above and other matters mentioned in Annexure- I to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.
- a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Dargah Khwaja Saheb, Ajmer as at 31 March 2010, and
- b. In so far as it relates to the Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Place : Jaipur

Date : 30 - 08-2011


Principal Accountant General (Civil Audit)
Rajasthan, Jaipur

**Annexure-I to Separate Audit Report on the Accounts of
Dargah Khwaja Saheb, Ajmer for the Year 2009-10**

1. Adequacy of Internal Audit System.

Internal audit system prevailing in the Dargah is not adequate. Chartered Accountant prepared final accounts only.

2. Internal Control system

Internal control system prevailing in the Dargah was evaluated during audit and following position emerged:

- (i) There is no plan of rotation of duties of employees with Cash, Stock & Valuation etc.
- (ii) Guest House Register was not maintained properly.
- (iii) Visitors Register was not checked by any supervisory authority.
- (iv) Stock Register of Receipt Book were not checked by the authority on regular basis.
- (v) Fidelity Bond have not been obtained from the cashier/sub cashier.

3. No Accounting manual is in operation.

4. Physical verification.

- (i) Land Register was not maintained.
- (ii) Updation of the property register was not done. Figure of these register were not tallied with accounts.
- (iii) Physical verification of fixed assets has not been done and no system prevail.

5. The Dargah Khwaja Saheb is paying statutory dues in regular.

6. A register showing details of Khadim & the Members of their family has not been maintained.


Audit Officer/IC-III

JAMIA MILLIA ISLAMIA

New Delhi-110025

Annual Accounts 2010-2011

Balance Sheet as on March 31, 2011

Liabilities	Schedule	Current Year	Previous Year
Capital Fund	1	-	750,108,155
Earmarked / Endowment Funds	2	365,559,299	386,668,753
Current Liabilities and Provisions	3	5,113,773,812	3,215,164,396
Total		5,479,333,111	4,351,941,304
Assets			
Fixed Assets (Net Block)	4	3,348,920,662	2,763,080,732
Investments from Earmarked / Endowment Funds	5	259,908,048	223,679,766
Investments - Others	6	235,980	235,980
Current Assets, Loans & Advances	7	1,574,791,951	1,364,944,826
Miscellaneous Expenditure to the Extent not Written off (Debit balance in the Capital Fund)		295,476,470	-
Total		5,479,333,111	4,351,941,304

Sd/-
(Aayatullah)

Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-

(Zafarullah Khan)

Dy. Finance Officer

Sd/-

(Prof. Shahid Ashraf)

Finance Officer

Sd/-

(Prof. S.M. Sajid)

Registrar

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2011**A. INCOME**

Particulars	Schedule	Current Year	Previous Year
Grants in Aid /Subsidies	8	1,519,076,230	1,466,178,233
Academic receipts	9	93,811,025	99,751,259
Income from Publications	10	32,634	40,598
Income from Investment	11	35,598	-
Interest Earned	12	36,325,696	11,102,116
Other Income	13	28,089,609	21,920,012
Total (A)		1,677,370,792	1,598,992,218

B. EXPENDITURE

Establishment Expenses	14	2,989,766,159	1,517,358,378
Academic Expenses	15	68,838,671	59,900,635
Administrative Expenses	16	120,342,030	93,521,336
Repairs and Maintenance	17	73,697,333	76,801,840
Miscellaneous Expenses	18	56,151,154	50,256,656
Depreciation	4	144,448,732	163,049,506
Total (B)		3,453,244,079	1,960,888,351

Balance Being Surplus/(Deficit) carried to Capital Fund (A-B)**-1,775,873,287 -361,896,133**

Sd/-

(Aayatullah)

Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-

(Zafarullah Khan)

Dy. Finance Officer

Sd/-

(Prof. Shahid Ashraf)

Finance Officer

Sd/-

(Prof. S.M. Sajid)

Registrar

Schedule 1: Capital Fund Schedules Forming part of Balance Sheet as on 31.03.2011

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance	750,108,155	544,592,843
Add: Grants to the extent utilised for capital exp.	468,082,864	396,133,256
	1,218,191,019	940,726,099
Add: Gifted assets		
Assets created out of Earmarked/Endowment Fund	246,061	28,615
Assets created out of sponsored projects	101,786,043	2,621,703
Assets created out of Hostel & Kitchen	146,223,810	160,894,192
Assets created from SFC/Other Funds	14,276,228	-
		7,739,858
Total	262,532,142	1,112,010,467
Less: Assets written off during the year	1,480,723,161	
Balance	326,344	6,179
Less: Deficit for the year as per Income & Expenditure account	(1,775,873,287)	(361,896,133)
Closing Balance	(295,476,470)	750,108,155

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S.M. Sajid)
Registrar

Schedule 2: Earmarked / Endowment Funds

Particulars	Fund-Wise Break up					Total
	University Devpt. Fund	HBA Fund	MCA Fund	SRC Publication Fund	Endowment Funds	
A) Opening Balance	238,106,022	43,778,757	2,645,086	3,500,590	98,638,298	386,668,753
B) Additions during the year						
i) Income from investments made of the funds	7,649,345	1,386,000	-	75,503	7,064,301	16,175,149
ii) Accrued interest on investments made of the funds		1,088,623	-	73,681	1,043,349	2,205,653
iii) Other additions	44,788,723	4,673,510	3,780	96,025	19,011,185	68,573,223
Total	290,544,090	50,926,890	2,648,866	3,745,799	125,757,133	473,622,778
C) Utilisation /Expenditure towards objectives of funds						
i) Revenue expenditure	773,746	1,671,901	-	206,763	3,625,026	6,277,436
ii) Capital Expenditure	101,768,326	-	-	-	17,717	101,786,043
Total	102,542,072	1,671,901	-	206,763	3,642,743	108,063,479
Closing balance at the year end	188,002,018	49,254,989	2,648,866	3,539,036	122,114,390	365,559,299
Previous Year	238,106,022	43,778,757	2,645,086	3,500,590	98,638,298	386,668,753

Notes: 1. The amount of Rs.10,88,623 shown as accrued interest on investments represents accrued interest income on House Building Advances to employees.

2. The House Building Advance outstanding for recovery as on 31.03.2011 was Rs.1,07,66,773 and Cycle advance outstanding for recovery on 31.03.2011 was Rs. 3,290.

Sd/-
(Aayatullah)

Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)

Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)

Finance Officer

Sd/-
(Prof. S.M. Sajid)

Registrar

Schedule 2A:

ENDOWMENT FUNDS - 31.03.2011		OPENING BALANCE AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2010-11		CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2011	
		Dr.	Cr.	Dr.	Cr.	Dr.	Cr.
1	CENTRAL SCHOLARSHIP FUND (Deposit)	-	6,684,053	538,000	192,599	-	6,338,652
2	PROF. M. MUJEEB RESEARCH PRIZE FUND (Deposit)	-	7,299	-	154	-	7,453
3	E.J. KELLALT SCHOLARSHIP FUND (Deposit)	-	178,130	-	7,714	-	185,844
4	STUDENTS UNION SCHOLARSHIP FUND (Deposit)	-	2,262,328	-	1,038,990	-	3,301,318
5	QAZI MOHAMMAD AHMAD MEMORIAL FUND (Deposit)	-	33,671	1,000	1,876	-	34,547
6	MIRZA MEHMOOD BEG SCHOLARSHIP (Deposit)	-	90	-	165	-	255
7	S.C. SHUKLA MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND (Deposit)	-	229,105	19,500	16,242	-	225,847
8	PROF. DALEEP ENDOWMENT FUND (Deposit)	-	33,194	-	1,796	-	34,990
9	DISABLED CHILDREN FUND (NURSERY SCHOOL) (Deposit)	-	57,674	-	1,463	-	59,137
10	PROF. SAEED ANSARI MEMORIAL SCHOLARSHIP (Deposit)	-	120,901	-	6,923	-	127,824
11	JAMIA TEACHERS SCHOLARSHIP FUND (Deposit)	-	170,147	227,000	238,558	-	181,705
12	BARR. & MRS. N-DIN & AHMAD MEM. SCHOLARSHIP (Deposit)	-	1,679,599	82,000	101,967	-	1,699,566
13	KANWAR MOHINDER SINGH BEDI LIT TRUST (Deposit)	-	2,941	-	989	-	3,930
14	SCHOLARSHIP FUND FOR TOPPER (CLASS X-XII) (Deposit)	-	48,880	9,500	1,469	-	40,849
15	PRIZE FUND FOR BEST ESSAYS (Deposit)	-	100,274	-	1,697	-	101,971
16	ISLAMIC STUDIES SCHOLARSHIP FUND FOR TOPPER (Deposit)	-	251,614	-	12,365	-	263,979
17	TEHAT & MERSIA KHWANI FUND (Deposit)	-	14,578	-	771	-	15,349
18	SCHOLARSHIP FUND FOR TOPPER - ARABIC DEPTT. (Deposit)	-	125,404	3,800	3,857	-	125,461
19	SCHOLARSHIP FUND FOR TOPPER OF FACULTIES (Deposit)	-	206,066	-	6,831	-	212,897
20	NASIMA EDUCATIONAL AWARD FOR TOPPER (Deposit)	-	139,635	7,995	10,304	-	141,944
21	MOHAMMAD AJAZ STUDENT TOP EXCEL AWARD (Deposit)	-	139,635	8,000	10,304	-	141,939
22	BIKRAM N. NANDA MEMORIAL ENOWMENT FUND (A.T.W.S) (Deposit)	-	134,303	-	7,368	-	141,671
23	MUSHER FATMA MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND (Deposit)	-	99,606	-	6,595	-	106,201
24	HAMDARD CENTENARY CELEBRATION SCHOLARSHIP FUND (Deposit)	-	135,000	-	-	-	135,000
25	NILOFAR SCHOLARSHIP FOR MUSLIM GIRL OF LIB. SCIENCE (Deposit)	-	183,800	3,000	12,216	-	193,016
26	RAZMI RIZWAN HUSAIN MEMORIAL SCHOLARSHIP (Deposit)	-	241,917	13,700	13,846	-	242,063
27	A.R. SAIYED SCHOLARSHIP (SCHO. FOR TOPPER OF SOCIOLOGY) (DEP.)	-	115,885	7,500	7,581	-	115,966
28	PROF. S.R. MOHSINI, MEMORIAL LECTURE (SEED MONEY) (Deposit)	1	133,394	16,322	8,951	-	126,023
29	PROF. HAJIRA KUMAR MEMORIAL SCHOLARSHIP	-	110,000	7,900	7,904	-	110,004
30	STUDENT OF THE UNIVERSITY	-	100,000	-	-	-	100,000

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S.M. Sajid)
Registrar

Schedule 2A:

Schedule 2A:									
ENDOWMENT FUNDS - 31.03.2011									
		OPENING BALANCE AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2010-11				CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2011	
		Dr.	Cr.	Dr.	Cr.	Dr.	Cr.		
31	ABBA SCHOLARSHIP FUND (Deposit)	-	187,000	43,910	7,000	-	-	150,090	
32	FUND FOR AWARD/FELLOWSHIP TO YOUNG MEDIA PERSONS (MCRC)	-	653,043	-	-	-	-	653,043	
33	MEDIA STAR SCHOLARSHIP(MCRC)	-	12,082	-	-	-	-	12,082	
34	STIPEND/SCHOLARSHIP(MCRC)	-	172,300	172,300	-	-	-	-	
35	ABBA ENDOWMENT FUND (Deposit)	-	-	-	600,000	-	-	600,000	
36	MUKUL KASLIWAL SCHOLARSHIP FUNDS (DEPOSIT)	-	-	-	500,000	-	-	500,000	
TOTAL (Deposit)		-	14,763,548	1,161,427	2,828,495	-	-	16,430,616	
1	ZAKIR HUSSAIN ENDOWMENT (Earmarked)	-	1,631,622	-	156,371	-	-	1,787,993	
2	* DALIT STUDY CHAIR ENDOWMENT (Earmarked)	-	15,517,931	-	650,987	-	-	16,168,918	
3	**DALIT STUDY CHAIR (Earmarked)	-	9,962	683,979	715,996	-	-	41,979	
4	SAIFUDDIN KITCHLEW CHAIR(CORPUS FUND)	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	
5	SAIFUDDIN KITCHLEW CHAIR	1,306,869	-	1,342,365	3,300,000	-	-	650,766	
6	CORPUS FUND FOR INCENTIVE FOR ADDL.(MATCHING GRANT)	-	4,780,341	97,875	1,739,795	-	-	6,422,261	
7	ADDITIONAL RESOURCE MOBILIZATION(EXPENDITURE)	97,875	-	-	97,875	-	-	0	
8	CORPUS FUND FOR A.M. KHWAJA CHAIR	-	20,000,000	-	0	-	-	20,000,000	
9	M.A. ANSARI CHAIR (CORPUS FUND)	-	20,000,000	-	0	-	-	20,000,000	
10	ENDOWMENT FUND FOR JOURNAL/CONTEMPORARY PERSPECTIVES:SOCIETY	-	40,994	-	12,078	-	-	53,072	
11	ABDUL MAJID KHAWAJA CHAIR	-	-	357,097	3,119,755	-	-	2,762,658	
12	CHAIR OF SHRI RAFI AHMAD KIDWAI	-	0	-	255,000	-	-	255,000	
13	CORPUS FUND - CHAIR OF SHRI RAFI AHMAD KIDWAI	-	0	-	15,000,000	-	-	15,000,000	
14	M.A. Ansari Chair (Recurring)	-	-	-	1,497,778	-	-	1,497,778	
	TOTAL (Earmarked)	1,404,744	81,980,850	2,481,316	26,545,635	0	0	104,640,425	
	GRAND TOTAL	1,404,744	96,744,398	3,642,743	29,374,130	0	0	121,071,041	
	ADD: INTEREST ACCURED BUT NOT RECEIVED	-	3,298,644	3,298,644	1,043,349	-	-	1,043,349	
	NET GRAND TOTAL	1,404,744	100,043,042	6,941,387	30,417,479	0	0	122,114,390	
	* Represents the corpus with 50% of the interest, cumulated every year.								
	**Represents the balance 50% of the interest which is used for the expenditure on the chair.								

Sd/-
(Prof. S.M. Sajid)
RegistrarSd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance OfficerSd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance OfficerSd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Schedule 3 : CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

A. CURRENT LIABILITIES		Current Year	Previous Year
(i) Deposits from staff			18,971,895
(ii) Deposits from Students			42,477,901
(iii) Deposits Others (EMD, Security Deposit)			-
(iv) Statutory Liabilities (GPF, TDS, WC TAX, CPF, GIS, NPS)			
(v) Other Current Liabilities			
a) Salaries	97,594,965		144,130,847
b) Receipts against sponsored projects (Net of expenditure)	211,333,042		253,991,486
c) Receipts against sponsored Fellowships & Scholarships	23,547,284		12,516,460
d) Unutilized Grants	664,051,265		402,344,915
e) Grants in Advance	99,731,000		77,577,000
f) Other Funds	231,390,902		189,271,582
g) Other Liabilities	25,438,616	1,353,087,074	24,974,551
Total (A)		1,424,352,966	1,166,256,637
B. PROVISIONS			
1 Superannuation Pension	2,879,713,509		1,543,381,000
2 Gratuity	499,633,909		269,998,000
3 Leave Encashment	310,073,428		235,528,759
4 Others	-	3,689,420,846	-
Total (B)		3,689,420,846	2,048,907,759
Total (A+B)		5,113,773,812	3,215,164,396

Sd/-

(Aayatullah)

Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-

(Zafarullah Khan)

Dy. Finance Officer

Sd/-

(Prof. Shahid Ashraf)

Finance Officer

Sd/-

(Prof. S.M. Sajid)

Registrar

SCHEDULE : 3(V) (b)

**CURRENT LIABILITIES-OTHER LIABILITIES-RECEIPTS
AGAINST ONGOING SPONSORED PROJECTS**

HEAD OF ACCOUNT	OPENING BALANCE AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2010-2011		CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2011	
	DR	CR	DR	CR	DR	CR
SPONSORED PROJECTS						
FINANCED BY : ANNEXURE (i)						
University Grants Commission	6,423,663	14,327,708	31,826,223	35,610,428	7,274,678	18,962,928
Ministry of Human Resource Development	8,946,102	4,271,437	12,874,331	7,164,346	13,114,059	2,729,409
Ministry of Science & Technology (DST)	786,289	16,738,092	18,370,994	22,279,373	771,074	20,631,256
Ministry of Welfare	-	-	-	-	-	-
I.C.S.S.R.	82,598	568,022	1,026,767	1,353,015	71,779	883,451
I.C.H.R.	73,563	7,105	-	5,000	68,563	7,105
I.C.C.R.	-	38,917	-	-	-	38,917
C.S.I.R.	1,710	886,556	1,131,940	2,285,946	1,710	2,040,562
Miscellaneous Sources	2,964,017	214,344,807	168,164,208	118,491,881	1,573,551	163,282,014
Total:	19,277,942	251,182,644	233,394,463	187,189,989	22,875,414	208,575,642

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S.M. Sajid)
Registrar

**CURRENT LIABILITIES-OTHER LIABILITIES-RECEIPTS
AGAINST ONGOING SPONSORED PROJECTS-OTHERS**

HEAD OF ACCOUNT	OPENING BALANCE AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2010-2011				CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2011	
	DR	CR	DR	CR	DR	CR	DR	CR
1	2	3	4	5	6	7		
International Conf. On New Challenges For Civil Engg.	-	1,970	-	-	-	-	1,970	-
Symposium On Astronomy & Astrophysics	8,800	-	-	8,800	-	-	-	-
Trg., Prg. On Rainwater Harvesting	-	1,400	60,000	250,560	-	-	191,960	-
Conference On 'Recent Trends In Power Management' (Deptt. Of Electrical Engg.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Second International Caliber-2004, Dr. Z.H. Library	-	11,669	-	-	-	-	11,669	-
Ranbaxy: Cyanobacterial Extracts On Various Micro-Organisms	-	25,000	-	-	-	-	25,000	-
"Third Glogift Conference" International Conference	-	-	-	-	-	-	-	-
Thompson Press: Community Baseline	-	-	-	-	-	-	-	-
Research Project Collaboration With Yashraj Biotech Mumbai	-	1,938	-	-	-	-	1,938	-
National Workshop On "Softcomputing, Machine Learning And Bioinformatics Applications" Prof. S.I. Ahsan	-	-	-	-	-	-	-	-
Study On Assess. Of Soc. & Eco. Impact Of Rural Roads In Up (Safia Mahdi -Atws)	-	374,450	-	-	-	-	374,450	-
Hadi Hasan Memorial Lecture	-	-	-	-	-	-	-	-
National Seminar On "Emerging Issues In Inter. Business" Deptt. Of Commerce	-	-	-	-	-	-	-	-
A.M. Khwaja Mem. Foundation, Aligarh: Assist. for Lecture At Centre For J. N. Studies	-	100,840	-	-	-	-	100,840	-
Progressive Writers.Move: Ideology & Soc. Base : Centre for Jawaharlal Nehru Studies	-	-	-	-	-	-	-	-
Need Assessment Survey And Impact Assessment-----Faridabad Gps : A.S. Kohli	-	7,747	-	-	-	-	7,747	-
Workshop On Sustainable Development	-	2,000	-	-	-	-	2,000	-
Seminar at ATWS	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpus Fund for Computer Application & DTP Centre	-	187,529	-	-	-	-	187,529	-
Disaster Management Unit Deptt. of Social Work	-	13,886	-	-	-	-	13,886	-
Quresh Community- A Study of Socio-Political Status & Survey	-	38,175	-	-	-	-	38,175	-
Donation for Inauguration of Digital Equiliser Centre (Deptt. Of Computer Science)	-	150,000	-	-	-	-	150,000	-
International Conference on Islamic Art & Architecture (ICIAA), Deptt. Of Architecture	-	40,680	-	-	-	-	40,680	-

Sd/-
(Aayatullah)

Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)

Dy. Finance Officer

Sd/-

(Prof. Shahid Ashraf)

Finance Officer

Sd/-

(Prof. S.M. Sajid)

Registrar

HEAD OF ACCOUNT	OPENING BALANCE AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2010-2011		CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2011	
	DR	CR	DR	CR	DR	CR
1	2	3	4	5	6	7
Seminar On "Global convergence of Financial Reporting"	1,386	-	-	-	1,386	-
Project On Social Impact Study of Education On Society By School of Kalgidhar Trust	-	19,333	-	-	-	19,333
National Conference On Recent Trends in Research in Biological Science-Cirbisc	-	40,279	483,512	474,562	-	31,329
Socio Economic Study of NCPS(Dadri) Prof. A.S. Kohli(NTPC)	-	54,466	79,466	25,000	-	-
Training Of Cad. Mech. Engg.	-	69,400	-	-	-	69,400
Eco Club	10,000	-	-	10,000	-	-
Outside Agency	-	1,009,224	348,406	194,000	-	854,818
Stipend/ Scholarship	-	119,297	-	-	-	119,297
Short term course in Film Studies	-	21983	-	-	-	21,983
Workshop Media centre of Kashmir University	-	2780	-	-	-	2,780
Sikkim Project	-	11847	-	-	-	11,847
Folk Media in Social Mobilisation	-	2600	-	-	-	2,600
Rural Litigation (RLEK)	-	20000	-	-	-	20,000
Pria	-	29000	-	-	-	29,000
Workshop on EMRC	-	7500	-	-	-	7,500
Unesco Project	-	85471	-	-	-	85,471
C.E.C.	-	-	-	-	-	-
Workshop/ Seminar	-	2674	-	-	-	2,674
Xxxii Indian Social Science Congress	-	354,700	305,700	1,150	-	50,150
Cycle Rally	702,630	-	-	833,000	-	130,370
Traning Programme on Remote Sensing GIS & GPS, Deptt. Of Geography	-	1,004	-	-	-	1,004
Kashmiri Festival On 28 Feb, 2011, Consultant, Deptt. Of Jammu & Kashmir	-	-	-	150,000	-	150,000
TOTAL	722,816	2,808,842	1,277,084	1,947,072	1,386	2,757,400
GRAND TOTAL	20,000,758	253,991,486	234,671,547	189,137,061	22,876,800	211,333,042

Sd/-
(Prof. S.M. Sajid)
RegistrarSd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance OfficerSd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance OfficerSd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

SCHEDULE : 3(V) (c)

**CURRENT LIABILITIES-OTHER LIABILITIES-RECEIPTS
AGAINST ONGOING SPONSORED FELLOWSHIPS & SCHOLARSHIPS**

AS PER ANNEXURE (ii)

HEAD OF ACCOUNT	OPENING BALANCE AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 20010-2011		CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2011	
	DR	CR	DR	CR	DR	CR
SPONSORED FELLOWSHIPS & SCHOLARSHIPS						
FINANCED BY :						
University Grants Commission	375,000	10,284,816	35,021,890	35,183,635	10,443,455	20,515,016
Ministry of Science & Technology (DST)	-	-	494,650	578,400	-	83,750
I.C.S.S.R.	7,663	65,417	493,929	604,385	-	168,210
I.C.H.R.	-	59,548	51,395	-	-	8,153
I.C.C.R.	-	-	3,870	3,870	-	-
C.S.I.R.	-	627,130	5,261,220	5,944,322	-	1,310,232
Miscellaneous Sources	224,970	1,479,549	6,510,560	6,717,904	-	1,461,923
Total:	607,633	12,516,460	47,837,514	49,032,516	10,443,455	23,547,284

Sd/- (Aayatullah) Asstt. Registrar(A/Cs)	Sd/- (Zafarullah Khan) Dy. Finance Officer	Sd/- (Prof. Shahid Ashraf) Finance Officer	Sd/- (Prof. S.M. Sajid) Registrar
--	--	--	---

Schedule 3(v)(d) Unutilised Grants from UGC, Government of India

	TOTAL
B. UGC Grants: Non-Plan	
Balance B/F	299,665,335
Add Receipts during the year	1,351,350,000
Total	1,651,015,335
Less utilized for Capital Expenditure	153,447,054
Balance	1,497,568,281
Less utilized for Revenue Expenditure	1,457,895,866
Surplus/(Deficit)	39,672,415
Internal Receipts	149,206,030
Balance C/F	• 188,878,445
C. UGC Grants: Plan	
Balance B/F	64,149,843
Add Receipts during the year	758,500,000
Total	822,649,843
Less utilized for Capital Expenditure	234,916,765
Balance	587,733,078
Less utilized for Revenue Expenditure	192,288,135
Balance	395,444,943
Add Other Receipts during the year	4,119,656
Balance C/F	399,564,599
C. UGC Grants: Others	
Balance B/F	38,529,737
Add Receipts during the year	132,600,017
Total	171,129,754
Less utilized for Capital Expenditure	79,719,045
Balance	91,410,709
Less utilized for Revenue Expenditure	18,098,259
Balance	73,312,450
Add Receipts during the year	2,295,771
Balance C/F	75,608,221
Grand Total Balance C/F	664,051,265

• Including unspent balance of ₹ 186,100,343 on account of Spl. Grant.

UGC-EMF (2010-11) Other Grants

Sr.	HEAD OF ACCOUNT	Opening Balance		Receipts	Total Expenditure	Capital Expenditure	Revenue Expenditure	CLOSING BALANCE	
		DR	CR					DR	CR
1	Infonet Programme Establishment Of Ernet Xth Plan	128,999	-	-	-	-	-	128,999	-
2	Dr. Zakir Husain Studies Centre	-	172,757	375,000	-	-	-	-	547,757
3	Centre For New Gandhian Studies	-	432,560	75,000	-	-	-	-	507,560
4	Centre For West Asian Studies (Salaries)N.C.M.P.	79,587	-	-	-	-	-	79,587	-
5	Area Study Programme at Centre For Pakistan Studies At A.T.W.S.	-	948,110	-	206,150	22,355	183,795	-	741,960
6	Assistance For Strengthening Of The Infrastructure Of Humanities & Social Science	626,653	-	-	221,666	221,666	-	848,319	-
7	Academy for Professional Development of Urdu teacher	-	7035818	-	15,442,612	12,766,801	2675811	8,406,794	-
8	New School Building(N.C.M.P.)	3,280,387	-	-	-	-	-	3,280,387	-
9	Construction Of New Central Library Building (Against Spl. Grant Of 44.28	-	8,049,379	-	-	-	-	-	8,049,379
10	Special Assistance Programme (Drs.) Chemistry(1st Phase)	-	7,582	179,647	208,726	22,660	186,066	21,497	-
11	Residential Coachinh academy for minorities,SC/ST	-	-	75,137,123	11,647,610	10,771,575	876,035	-	63,489,513
12	Special Assistance Programme (Drs.) English & Mel (3rd Phase)	-	240,414	792,176	581,335	182,415	398,920	-	451,255
13	Special Assistance Programme (Drs.) Physics(3rd Phase)	-	809,783	170,780	876,211	704,511	171,700	-	104,352
14	Special Assistance Programme (Drs.) Economics	-	19,426	300,561	290,010	49,955	240,055	-	29,977
15	Special Assistance Programme (Drs.) Educational studies	196,337	-	391,914	318,385	90,893	227,492	122,808	-

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S.M. Sajid)
Registrar

Sr.	HEAD OF ACCOUNT	Opening Balance		Receipts	Total Expenditure	Capital Expenditure	Revenue Expenditure	CLOSING BALANCE	
		DR	CR					DR	CR
16	Special Assistance Programme (Drs.) Electrical Eng.	-	353,796	304,942	119,253	18,571	100,682	-	539,485
17	Special Assistance Programme (Drs.) Deptt. Of History & Culture(II)	-	212,759	684,092	839,473	295,172	544,301	-	57,378
18	Special Assistance Programme (Drs.) Urdu (1st Phase)	-	50,249	-	50,249	-	50,249	-	-
19	Upgradation of Computer Centre	498,705	-	-	-	-	-	498,705	-
20	Const of New Boys Hostel for 250 Students	18,026,033	-	-	-	-	-	-	-
21	Const. of Art Centre(N.C.M.P.)	2,757,449	-	-	-	-	-	18,026,033	-
22	Centre for Management Studies.(N.C.M.P.)	6,949,646	-	-	-	-	-	2,757,449	-
23	Const of First Floor on Ansari Health Centre(N.C.M.P.)	-	633,284	-	-	-	-	-	633,284
24	Const. of 6 Lecture Hall over Auditorium (N.C.M.P.)	-	26,780	-	-	-	-	-	26,780
25	Const. of Teacher Association Block(N.C.M.P.)	5,236,081	-	-	-	-	-	5,236,081	-
26	(Physics Deptt)Infrastructure in Term Of Power Supply, Water Supply, Equipment in Science,Agriculture Sc.....	-	161,355	-	-	-	-	-	161,355
27	(Chemistry Deptt)Infrastructure in Term Of Power Supply, Water Supply, Equipment in Science,Agriculture Sc.....	-	276,772	-	276,772	276,772	-	-	-
28	Renovation/Upgradation of Hostel/Toilets-CWG 2010 (364.15 Lakhs)	-	-	32,774,000	33,420,296	33,420,296	-	646,296	-

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S.M. Sajid)
Registrar

Sr.	HEAD OF ACCOUNT	Opening Balance		Receipts	Total Expenditure	Capital Expenditure	Revenue Expenditure	CLOSING BALANCE	
		DR	CR					DR	CR
29	Area Study Programme at Centre For Central Asian Studies.	-	311,639	-	110,715	-	110,715	-	200,924
30	India Arab Culture Centre	178,161	-	20,000,000	6,447,333	2,527,850	3,919,483	-	13,374,506
31	Career Oriented program one time seed money	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Construction Of Modular Kitchen For Nehru House(N.C.M.P.)	607,852	-	-	-	-	-	607,852	-
33	Expansion Of Nelson Mandela For Centre Of Peace & Conflict Resolution(N.C.M.P.)	-	3,096,583	-	-	-	-	-	3,096,583
34	Xi Plan Programme Of Adult & Continuing Education & Extn.	-	1,705,182	-	785,146	428,748	356,398	-	920,036
35	Xi Th Plan For Sarojini Naidu Centre For Woman Studies	336,827	-	1,062,157	1,089,239	53,281	1,035,958	363,909	-
36	Construction Of Academic staff College Guest House	-	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000
37	Centre for Physiotherapy & Rehab. For Integrated Master & Ph.D Prog.	-	2,800,000	-	1,068,681	527,366	541,315	-	1,731,319
38	In Sports Physiotherapy Visiting Professor	-	-	2,000,000	1,418,015	-	1,418,015	-	581,985
39	(Computer-Science) Infrastructure In Terms of Power, Water Supply Science, Agricul. Sc., Eng. Sc., Sap.	-	28,875	-	-	-	-	-	28,875
40	DRS-1 Deptt. Of Civil Engg. (Prof. Khalid Moln)	-	1,605,755	1,421,245	2,989,663	2,549,692	439,971	-	37,337
41	SAP (DRS) Urdu lind Phase	-	777,540	455,934	781,829	295,879	485,950	-	451,645
42	Renovation of Accommodation for Delegates/Guest of CWG 2010	-	16,315,315	-	16,979,483	10,338,969	6,640,514	664,168	-

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S.M. Sajid)
Registrar

Sr.	HEAD OF ACCOUNT	Opening Balance		Receipts	Total Expenditure	Capital Expenditure	Revenue Expenditure	CLOSING BALANCE	
		DR	CR					DR	CR
43	Expenses on UGC Expert Committee for final Review of DSA	80,742	-	-	-	-	-	80,742	-
44	(Civil Engg.) Infrastructure In Term Of Power Supply, Water Supply, Equipment In Science, Agriculture Sc.....	-	1,126,492	-	882,265	-	882,265	-	244,227
45	Area Study Programme For Centre On Indian Ocean Studies	-	407,806	-	-	-	-	-	407,806
46	Area Study Programme For Academy of Third World Studies	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000
47	Infrastructure Development Grant (Mcr)	-	708,582	-	-	-	-	-	708,582
48	Japanese Counter Part Funding.	-	12,866,347	-	3,951,823	3,951,823	-	-	8,914,524
49	Japan Debt Relief Grant	-	1,321,313	-	201,795	201,795	-	-	1,119,518
50	Property Tax	-	76,969	-	-	-	-	-	76,969
51	Teleprompter System	-	25,000	-	-	-	-	-	25,000
52	Dish Antenna/486pc	-	7,622	-	-	-	-	-	7,622
53	CEC Equipment Grant for upgrading Media Centre at AJKMCRG	-	12,060,000	-	-	-	-	-	12,060,000
	Total	38,983,459	79,671,844	136,124,571	101,204,735	79,719,045	21,485,690	48,719,272	124,327,493
	Less Internal transfer			3,387,431	3,387,431		3,387,431		
	Grand Total	38,983,459	79,671,844	132,737,140	97,817,304	79,719,045	18,098,259	48,719,272	124,327,493
		Opening Balance		Receipts			Expenditure	Closing Balance	
		40,686,385		132,737,140			97,817,304	75,608,221	

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S.M. Sajid)
Registrar

Summary for Balance Sheet

<u>Unutilized Grants</u>		Total
UGC Non-Plan	Cr	• 188,878,445
UGC Plan	Cr	399,564,599
UGC Others	Cr	75,608,221
TOTAL		664,051,265
<u>Grants Receivable</u>		
UGC Non-Plan	Dr	-
UGC Plan	Dr	-
UGC Others	Dr	-
UGC Unassigned Grants	Dr	-
TOTAL		-

• Including unspent balance of ₹ 186,100,343 on account of Spl. Grant.

Sd/- (Aayatullah)	Sd/- (Zafarullah Khan)	Sd/- (Prof. Shahid Ashraf)	Sd/- (Prof. S.M. Sajid)
Asstt. Registrar(A/Cs)	Dy. Finance Officer	Finance Officer	Registrar

Schedule: 3(f)(d)

OTHER FUNDS			OPENING BALANCE AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2010-2011		CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2011	
	Account		DR.	CR.	DR.	CR.	DR.	CR.
A								
1	V.C. Relief Fund	Deposit	-	282,354	-	13,846	-	276,200
2	Maktaba Jamia Fund	Deposit	-	5,000	-	-	-	5,000
B	Employees, Student related Funds							
1	Jamia Employees Relief Fund	Deposit	-	343,750	615,000	509,231	-	237,981
2	Admn. Staff Reserve Fund	Deposit	-	29,700	-	831	-	30,531
3	Admn. Staff Association	Deposit	-	119,721	180,250	66,995	-	6,466
4	S.R.K. Association	Deposit	-	88,514	1,789	33,265	-	119,990
5	University Teachers' Association	Deposit	-	76,865	205,000	254,195	-	125,860
6	School Teachers Association	Deposit	-	59,622	48,000	52,090	-	63,712
7	Teaching Staff Club	Deposit	-	6,805	-	-	-	6,805
8	University Students Union	Deposit	-	527,674	925,087	491,100	-	93,687
9	Sr. Sec. School Student Association	Deposit	-	194,432	-	-	-	194,432
10	Subject Association (For Student)	Deposit	-	5,745,556	1,287,350	1,985,896	-	6,444,102
11	Co-Curricular Activities	Deposit	-	40,050	16,490	4,720	-	28,280
12	Literary Club - Sr. Sec. School	Deposit	-	9,116	-	-	-	9,116
13	Student Club	Deposit	-	13,262	-	-	-	13,262
14	Heinz Club	Deposit	-	78,800	-	-	-	78,800
15	Science Club (Middle School & Sr. Sec. School)	Deposit	-	224,965	68,885	96,730	-	252,810
16	Nehru House (University Guest House)	Deposit	-	4,516,050	1,911,027	2,958,780	-	5,563,803
17	Jamia Community Centre	Deposit	-	3,780,104	934,087	2,982,800	-	5,828,807
18	M.F. Hussain Art Gallery (Booking/Hiring Charges)	Deposit	-	30,000	-	-	-	30,000
19	Hiring Charges of Conference Hall/Library FKT - CIT	Deposit	-	52,500	23,580	87,000	-	115,920
20	Hiring Out Conference Room of India Arab Culture Centre	Deposit	-	-	-	6,000	-	6,000
21	Cultural Activities	Deposit	-	5,754,871	454,181	2,052,310	-	7,363,000
22	University Magazine Fund (Student)	Deposit	-	2,953,754	34,410	633,000	-	3,552,344
23	Students' Aid Fund	Deposit	-	1,412,808	142,450	1,698,955	-	2,969,313
24	Jamia Foundation Day Celebration (Students)	Deposit	-	2,908,696	214,526	1,454,050	-	4,149,220
25	Teachers College Magazine Fund	Deposit	-	92,447	65,100	27,250	-	54,597
26	Faculty of Engg. Magazine Fund	Deposit	-	1,101,550	125,000	134,950	-	1,111,500
27	Canteen Deposit	Deposit	-	5,493,313	1,885,544	637,850	-	4,445,819
28	Sr. Sec. School Magazine Fund	Deposit	-	367,267	1,080	57,200	-	423,387
29	Middle School Magazine Fund	Deposit	29,584	-	-	30,000	-	416
30	Supervised Study - Sr. Sec. School	Deposit	-	425,033	-	247,500	-	672,533
31	Supervised Study - Middle School	Deposit	-	132,731	-	33,000	-	165,731
32	Masjid Deposit Fund	Deposit	-	1,808,102	1,205,280	625,520	-	1,228,342

Sd/-

(Ayatullah)

Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-

(Zafarullah Khan)

Dy. Finance Officer

Sd/-

(Prof. Shahid Ashraf)

Finance Officer

Sd/-

(Prof. S.M. Sajid)

Registrar

OTHER FUNDS		OPENING BALANCE AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2010-2011		CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2011	
	Account	DR.	CR.	DR.	CR.	DR.	CR.
33	Improvement of Grave Yard (Staff Contribution)	-	117,192	-	12,134	-	129,326
34	BMC Children Aid Fund	-	93,862	-	5,250	-	99,112
35	Dr. Z.H. Wafk Deposit	-	2,400	-	-	-	2,400
36	Working Women's Hostel	-	1,066,241	1,490,107	1,270,310	-	846,444
37	Adult & Continuing Education	-	89,471	-	34,400	-	123,871
38	Practical & Sessional Work (Fine Arts)	-	274,992	66,665	205,000	-	413,327
39	Craft Charges (Social Work)	-	4,600	-	-	-	4,600
40	Sessional Test (Sr. Sec. School)	23,946	-	4,350	198,900	-	170,804
41	Field Work Fee (Social Work) Placement	-	124,383	153,727	133,300	-	103,956
42	Home Examination Fee (Middle School)	148,586	-	127,776	196,100	80,262	-
43	Workshop on Remote Sensing for Environment Magt.	-	1,741	55,880	76,000	-	21,861
44	Department Functions (Students)	-	290,332	-	-	-	290,332
45	Practical Training (F/Law) (Students)	-	916,979	110,014	365,651	-	1,172,616
46	Lab. Course Development Fund Annual	-	456,386	-	-	-	456,386
47	Academic Staff College Development Fund	-	1,016,657	-	485,375	-	1,502,032
48	Seminar & Reading Material (LLM)	-	323,400	-	-	-	323,400
49	Computer Training Centre at B.M.C.	-	114,322	-	15,000	-	129,322
50	Activity Material & Magazine Fund	-	267,088	90,404	192,150	-	368,834
51	SCADA Lab at JMI - Mini Thoms	-	8,101	266,596	436,000	-	177,505
52	Fee for NSS Programme (Students)	-	271,479	189,490	265,060	-	347,049
53	Case Material Fee (F/Law)	-	1,628,274	55,389	231,700	-	1,804,585
54	Counseling Fee Pre(F) Student (F/Engg.)	-	314,306	21,300	-	-	293,006
55	Centre for Management Studies : (M.B.A. Full Time) Programme	-	6,809,808	2,960,180	589,700	-	4,439,326
56	Remedial course English (Madrasa) D/o English	-	11,044	-	-	-	11,044
57	Institute Of Mechanical Engg. (Exam)	-	750	335,050	250,000	84,300	-
58	Architecture for Masses (F/o Engg./Tech.)	-	89,090	303,546	293,500	-	79,044
59	Field Work - BBS (D/o Commerce)	-	113,500	-	17,000	-	130,500
60	Department Library Fee	-	292,200	3,000	67,000	-	356,200
61	Department Development Fund	-	1,206,342	-	-	-	1,206,342
62	Lab. Development Fee	-	264,000	3,000	68,000	-	329,000
63	Centre for Comparative Religion & Civilizations	-	8,960	-	-	-	8,960
64	Practical & Sessional Work (B.B.S.) Deptt. Of Commerce	-	385,380	-	61,000	-	446,380
65	Practical & Sessional Work (Social Work)	-	598,644	-	1,500	-	598,144
66	Faculty Magazine (F/O Architecture)	-	42,550	-	15,450	-	58,000
67	Computer Science Establishment (F/O Architecture)	-	337,000	-	110,000	-	447,000
68	Department Library / Seminar Fund (F/O Architecture)	-	38,965	-	-	-	38,965
69	Dep. Dev. Fund (Centre For Interdisciplinary Research)	-	2,122,963	378,000	444,000	-	2,188,963
70	Lab Dev. Fund (F/O Architecture)	-	67,000	-	-	-	67,000

Sd/-
(Aayatullah)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S.M. Sajid)
Registrar

OTHER FUNDS			OPENING BALANCE AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2010-2011		CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2011	
	Account		DR.	CR.	DR.	CR.	DR.	CR.
71	Dep. Dev. Fund (A.T.W.S.)			11,400		4,400		15,800
72	Tour Deposit		68,696	0	791,000	958,500		98,804
73	Short Education Tour (F/Engg./Tech.)			1,797,998	288,500	342,200		1,871,698
74	Talim-Sair Tour Deposit (School)			2,995	156,460	194,300		40,835
75	Home Task Diary (Student)			332,487	70,525	86,300		348,262
76	Consultancy Charges (F/Engg.)			2,094,829	4,283,044	9,085,374		6,897,159
77	Bachchon Ki Hukoomat			5,274	26,559	81,800		60,515
78	Central Sect. Library - Stipend to trainee (ZHL)			3,525				3,525
79	Urdu Academy (Tameesul Mushaira)			16,000				16,000
80	Computer Lab Facility (Law)			921,192		1,000		922,192
81	Staff Development Programme			9,593,476	37,503	2,190,298		11,746,271
82	C.P.F. Subscription: Self Financing Schools							
83	AIU: Trophy Cricket (M) Tournament			602,984				602,984
84	Education Loan							
85	Tourism & Travel Management Fee			655,745	426,642	1,409,090		1,638,193
86	UGC Model Curriculum for UG Courses (Computer)			14,828		75,000		89,828
87	Fee from N.R.I				24,319,836	24,319,836		
88	Differential Fee Translation Proficiency Programme			134,337	54,687	54,750		134,400
89	One Day School - Sr. Sec. School			139,907	3,496	23,850		160,261
90	University Concelling & Guidance Centre			1,333,617	206,011	685,050		1,812,656
91	Lab. Consumable (M.Sc. Integration, Biotech & Bioinformatics,			737,600				737,600
92	University Games Fund			959,218	3,186,668	2,221,800		14,350
93	Sr. Sec. School Games Fund			576,512	142,711	233,468		667,269
94	Middle School Games Fund			525,172	32,130	150,000		643,042
95	Honorarium to Administrative & Supportive Staff (R. Office)			371,793	211,760	646,277		806,310
96	Honorarium to Administrative & Supportive Staff (R. Office)			126,496	350,850	698,036		473,682
97	Honorarium to Administrative & Supportive Staff (Exam)			683,451	52,000	646,276		1,277,727
98	Talim - Mela			15,359		17,723		2,364
99	Faculty Magazine (Law)					38,500		83,200
100	Placement Fee			3,035,523	96,600	500,734		3,439,657
101	Training Placement & Consumables (Centre For Physiotherapy &				1,987,179	2,471,813		484,634
102	National Conference-Geotechnical and Structural Aspects of							
103	Basic Conference 2007							
104	CIT Academic Events			143,672				143,672
105	Saudi Financial Assistance For Const. of A Building For "King			164,015		500		164,515
106	Donation from Switz Food Private Limited		450,139		32,625	482,764		10,000,000

Sd/-

(Asyatalah)

Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-

(Zafarullah Khan)

Dy. Finance Officer

Sd/-

(Prof. Shahid Ashraf)

Finance Officer

Sd/-

(Prof. S.M. Sajid)

Registrar

OTHER FUNDS		OPENING BALANCE AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2010-2011		CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2011	
	Account	DR.	CR.	DR.	CR.	DR.	CR.
107	Donation from Libya for Const. of Mosque at SRK Hostel	-	483,000	-	-	-	483,000
108	Donation from Embassy of Kuwait For Library At India Arab Cultural	-	-	11,400	1,330,332	-	1,318,932
109	Consumable Charges (MCRC)	-	2,524,963	129,348	2,010,550	-	4,406,165
110	Training & Production Charges (MCRC)	-	1,058,798	969,261	861,350	-	950,887
111	Recovery (MCRC)	-	108,664	-	122,981	-	231,645
112	Semister Charges M.Phil (Centre for J.L.N.)	-	5,000	-	-	-	5,000
113	Bachelor in Physiotherapy (C. for Phy. & Rehabilitation)	-	671,040	869,623	323,000	-	124,417
114	Departmental Dev. Fund (Fac. Of Fine Art)	-	223,350	-	123,000	-	346,350
115	Field Work fee (Centre for Culture & Media Governance)	-	26,400	-	14,400	-	40,800
116	Dep. Dev. Fund (Centre for Spanish & Latin American Studies)	-	144,400	-	70,400	-	214,800
117	Annual Function Middle School	-	19,607	-	-	-	19,607
118	Annual Function Sr. Sec. School	48,325	-	-	-	48,325	-
119	Donation from S.Arabia for India Arab Cultural Centre	-	-	1,387,275	1,324,500	62,775	-
120	International Conf.on Relevance of Policy	-	-	479,191	487,000	-	7,809
C	Others	-	-	-	-	-	-
1	Self Financing Courses	-	71,967,535	108,873,302	122,881,935	-	85,976,168
2	Jamis Radio Fee	-	-	220,200	220,200	-	-
3	Dr. Z.H. Memorial Deposit	-	25,000	25,000	-	-	-
4	New Pension Scheme	-	10,924,516	44,624,038	33,699,522	-	-
5	Contribution from IAGRG Towards Vaidya Rai Chaudhary Lec.	-	11,380	-	-	-	11,380
6	CIT Reflection	-	1,030	-	-	-	1,030
7	Asc-Infrastructure Development Fund	-	801,289	243,315	307,000	-	864,974
8	Short Courses for working journalist of Africa (Min. of external	-	-	-	-	-	-
9	Workshop for Afghan officials & journalist (AJK MCRC)	-	279,326	50,000	-	-	229,326
10	Annual Examination of Institution of civil engineers (India IOE)	-	135,300	135,580	85,050	-	84,770
11	Book Exhibition, Dr. Z. H. Library	-	-	12,650	37,000	-	24,350
12	Contribution from Governor of Haryana for Mus. Of Independence	-	500,000	-	-	-	500,000
13	Fin. Asstt. For Mus. Of Independence, Gov. of Mizoram	-	15000	-	-	-	15,000
14	Student Relief Fund (Legal Aid)	-	396	-	-	-	396
15	Natural Science Infor. Fest.	-	2,490,252	-	-	-	2,490,252
16	Global Congress on World Religion after Sep. 11, CCRS	-	176,111	2,556	-	-	173,555
17	International Seminar on "Contours of Media Governance UNNATI,	-	-	-	-	-	-
18	Hono. To Accts. & Admn. Staff (Consultancy)	-	108,357	187,525	210,362	-	129,194
19	International Conference on Micro Finance Achv. & Challenges	10,300	-	-	-	10,300	-
20	Recent Trends in Mathematics and Its Application	-	-	-	-	-	-

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S.M. Sajid)
Registrar

OTHER FUNDS		OPENING BALANCE AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2010-2011		CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2011	
	Account	DR.	CR.	DR.	CR.	DR.	CR.
21	Seminar on Trans. Tech. Sponsorship for Indian Overseas	-	-	-	-	-	-
22	Bachelor in Dentistry	-	389,800	15,150	735,000	-	1,109,650
23	Faculty Magazine Fund (Fac. of Fine Arts)	-	18,950	200	20,700	-	39,450
24	NPS recoverable (Temp. status employee, New Pension Scheme)	353,535	-	1,004	354,539	-	-
25	One Day Workshop On "Spssdp On Research and Data " Prof.	-	-	4,875	6,500	-	1,625
26	Physical Fitness Centre, Jamia Sports Complex	-	-	-	140,200	-	140,200
27	Nps Miscellaneous A/C	-	-	-	1,951,938	-	1,951,938
28	Renewal & Replacement Fund(MCRC)	-	306,314	-	-	-	306,314
29	Jamia Radio Fee (MCRC)	-	1,429,025	292,247	722,280	-	1,839,058
30	Public Service Broadcast Trust(MCRC)	-	43,481	-	-	-	43,481
31	Staff development Fund(MCRC)	-	113,740	-	-	-	113,740
32	Hon. To Administrative Staff(MCRC)	-	93,783	-	-	-	93,783
33	3 Day Workshop On " Cognitive Behaviour Therapy" Deptt. Of Psychol	-	-	34,555	34,500	55	-
34	National Conference 2011 (Department Of Commerce Studies)	-	-	95,506	94,000	1,506	-
35	Hop-2011	-	-	4,972	5,000	-	28
36	Perjury- Perspective and Responses in Indian Legal System	-	-	147,660	149,000	-	1,340
	Total Deposit	1,148,470	178,546,965	212,291,819	249,156,422	287,523	214,550,621
34	Surplus - Hostel & Kitchen	-	9,333,678	5,466,090	8,598,741	-	12,466,329
35	Hostel Amenities	-	2,520,477	-	692,301	-	3,212,778
36	Other Funds Earmarked Accounts	-	18,932	3,188,635	4,618,400	-	1,448,697
	Total	-	11,873,087	8,654,725	13,909,442	-	17,127,804
	Grand Total (A+B+C)	1,148,470	190,420,052	220,946,544	263,065,864	287,523	231,678,425
	Net Credit	-	189,271,582	-	-	-	231,390,902

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

SCHEDULE 4- FIXED ASSETS

CAPITAL ASSETS - 2010-2011

DESCRIPTION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION			NET BLOCK		
	Cost/valuation as at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/valuation at the year-end	As at the beginning of the year	Depreciation for the year at stipulated rate :xx:	Deductions / Deletions/ Adj. during the year	Total up to the year-end	As at the current year-end 31.03.2011	As at the previous year-end 31.03.2010
A. FIXED ASSETS:										
Land	40,260,413	0	0	40,260,413	0	0	--	0	40,260,413	40,260,413
Building	2,420,293,806	494,325,754	--	2,914,619,560	230,283,379	58,292,391	--	288,575,770	2,626,043,790	2,190,010,427
Tubewell	885,573	--	--	885,573	256,543	17,711	--	274,255	611,318	629,030
Electric Fittings (Electric Install. & Equip.)	13,696,335	--	--	13,696,335	8,661,035	684,817	--	9,345,852	4,350,484	5,035,300
Printing Press (Plant & Machinery)	127,464	--	--	127,464	127,463	0	--	127,463	1	1
Lab & workshop (Scien. & Lab. Equip.)	507,065,143	2,112,071	--	509,177,214	501,850,071	5,384,038	--	507,234,109	1,943,105	5,215,072
Furniture & Equipment	557,075,121	139,685,193	212,567	696,547,747	255,378,750	52,241,081	212,567	307,407,264	389,140,483	301,696,371
Film/Vfilm (Audio Visual Equipments)	3,289,770	--	--	3,289,770	3,289,769	0	--	3,289,769	1	1
Computers	169,008,814	21,618,167	--	190,626,981	169,008,814	4,323,633	--	173,332,447	17,294,534	1
Car & Lorry (Vehicles)	10,196,824	1,319,220	--	11,516,044	8,545,628	1,151,604	--	9,697,232	1,818,812	1,651,196
Books	191,493,922	35,340,890	113,777	226,721,035	137,704,818	22,672,104	113,777	160,263,145	66,457,891	53,789,104
Camp Equipment (Fur. & Equipment)	13,310	0	--	13,310	13,310	0	--	13,310	0	0
Gowns (others)	29,374	0	--	29,374	19,469	2,937	--	22,407	6,967	9,905
Telephone (Office Equipment)	0	0	--	0	--	--	--	--	0	0
Arms & Ammunition (Fur. & Equip.)	63,457	0	--	63,457	47,592	4,759	--	52,352	11,105	15,865
A. TOTAL OF CURRENT YEAR	3,913,499,326	694,401,295	326,344	4,607,574,277	1,315,186,642	144,775,076	326,344	1,459,635,374	3,147,938,903	2,598,312,686
PREVIOUS YEAR	3,399,060,365	514,445,140	6,179	3,913,499,326	1,152,137,135	163,234,996	185,490	1,315,186,641	2,598,312,684	2,246,923,230
CAPITAL WORK-IN-PROGRESS	560,316,963	96,805,448	--	657,122,411	0	0	0	0	0	0
TRANSFER TO ASSETS	395,548,915	60,591,737	--	456,140,652	--	--	--	--	--	--
B. NET WORK-IN-PROGRESS	164,768,048	36,213,711	--	200,981,759	--	--	--	--	200,981,759	164,768,048
TOTAL (A+B)	4,078,267,374	730,615,006	326,344	4,808,556,036	1,315,186,642	144,775,076	326,344	1,459,635,374	3,348,920,662	2,763,080,734

Note: Source wise breakup of Additions of Rs. 730,615,006 to Fixed Assets during the year: Grants(P/N-P/Oth.) Rs.46,80,82,864; Gifts Rs.2,46,061; Earmarked/Endowment Fund Rs.10,17,86,043 Sponsored Projects Rs.14,62,23,810 and Other Funds Rs.1,42,76,228.

Sd/-

(Ayatullah)

Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-

(Zafarullah Khan)

Dy. Finance Officer

Sd/-

(Prof. Shahid Ashraf)

Finance Officer

Sd/-

(Prof. S.M. Sajid)

Registrar

Schedule 5: Investments from Earmarked/Endowment Funds

Particulars	Current Year	Previous Year
1. Debentures and Bonds	-	-
2. Others - Bank Fixed Deposits	259,908,048	223,679,766
Total	259,908,048	223,679,766

Earmarked/Endowment Funds (Fund wise)

Funds	Current Year	Previous Year
1. University Development Fund	100,800,000	117,001,752
2. SRC Publication Fund	2,000,000	2,000,000
3. Endowment Funds	129,108,048	84,878,014
4. House Building Revolving Fund	28,000,000	19,800,000
Total	259,908,048	223,679,766

Schedule 6: Investments - Others

Particulars	Current Year	Previous Year
Shares in Maktaba Jamia Ltd. (at cost)	235,980	235,980
Total	235,980	235,980

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

Schedule 7: Current Assets, Loan & Advances			
A Current Assets		Current Year	Previous Year
Cash and Bank Balances:			
1. Cash in hand (including stamps)		984,796	893,143
2. Bank Balances			
a. Scheduled Banks in Saving Bank Accounts	439,199,990		
b. In Term Deposits	1,053,934,608	1,493,134,598	1,273,518,669
Total (A)		1,494,119,394	1,274,411,812

B Loans and Advances		Current Year	Previous Year
a. Advances to Employees (Non-Interest Bearing)			
-- Salary	29,000		
-- Festival	786,660		
-- LTC	1,084,787		
-- Medical Advance	156,121		
-- Others	-		
b. Long Term Advances to Employees (Interest Bearing)		2,056,568	2,688,865
-- Fans	2,156		
-- Cycles	-	2,156	2,156
c. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind of for value to be received			
-- Advances to Supplier	8,141,200		
-- Advances on Capital a/c	3,332,838		
-- Others	12,175,297	23,649,335	41,556,938
d. Prepaid Expenses			
-- Insurance	-		
-- Other Expenses	-		
e. Deposits			
-- Telephone			
-- Lease Rent			
-- Electricity			
-- Others	38,812	38,812	38,812

f. Income Accrued but not due			
-- On Investments From Earmarked / Endowment Funds			
-- On Loans & Advances (HBA)	1,117,030		
-- Others	19,951,693	21,068,723	23,745,260
g. Other receivable			
-- Debit balances in Sponsored Project	22,876,800		
-- Debit balances in Fellowship & Scholarship	10,443,455		
-- Grants recoverable			
-- Other receivables	536,708	33,856,963	22,500,983
h. Claims receivable			
Total (B)		80,672,557	90,533,014
Total (A+B)			
		1,574,791,951	1,364,944,826

Attachment 'A'**Balances in Saving Bank Accounts as on 31.03.2011**

Indian Bank	Total
i. Revenue Account	194,838,512
ii. Plan Account	142,375,960
iii. Earmarked Account	18,809,596
iv. Deposit Account	77,799,227
v. Hostel & Kitchen	5,343,576
vi. FCRA Account	33,119
Total	439,199,990

Sd/- (Aayatullah) Asstt. Registrar(A/Cs)	Sd/- (Zafarullah Khan) Dy. Finance Officer	Sd/- (Prof. Shahid Ashraf) Finance Officer	Sd/- (Prof. S. M. Sajid) Registrar
---	---	---	---

SCHEDULE 8 : GRANTS IN AID/SUBSIDIES

Particulars	UGC Plan	UGC Non-Plan	UGC Others	Total
Balance B/F	64,149,843	299,665,335	38,529,737	402,344,915
Add: Receipts during the year	758,500,000	1,351,350,000	132,600,017	2,242,450,017
Total	822,649,843	1,651,015,335	171,129,754	2,644,794,932
Less: utilized for Capital Expenditure	234,916,765	153,447,054	79,719,045	468,082,864 (a)
Balance	587,733,078	1,497,568,281	91,410,709	2,176,712,068
Less: Balance Carried Forward	399,564,599	188,878,445	75,608,221	664,051,265 (b)
Add: Receipts other than grant during the year	4,119,656	-	2,295,771	6,415,427
Utilized for Revenue Expenditure	192,288,135	1,308,689,836	18,098,259	1,519,076,230 (c)

(a) Appears as additions to Capital Fund as well as Additions to Fixed Assets during the year in the Fixed Assets Schedule in the Balance Sheet.

(b) Represents the total 'Unutilised Grants' which appear in the Balance Sheet under Schedule 3(v)(d).

(c) Appears as Income in the Income and Expenditure Account.

Note: Items of ₹ 188,878,445 (Non-Plan) shown as 'Balance Carried Forward' has been worked out after taking into account internal receipt of ₹ 149,206,030 (Non-Plan).

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

SCHEDULE 9 : ACADEMIC RECEIPTS

Particulars	Amount
A. FEE FROM STUDENTS	
Academic	
1. Tuition Fee	14,441,916
2. Admission Fee	1,310,750
3. Enrolment Fee	300,900
4. Library Admission Fee	3,208,990
5. Laboratory Fee	3,786,450
6. Annual Fee : M.School/S.S. School	325,300
7. Annual Fee : Nursery School	39,000
8. Adult & Craft Fee - BMC	28,150
9. Nursery Fee - BMC	43,180
10. Primary Fee - BMC	10,400
11. Registration Fee	89,750
12. Syllabus Fee	875,400
Total	24,460,186
Examinations	
1. Supervision Fee (Ph. D)	1,613,000
2. Annual Examination Fee	18,371,943
3. Mark Sheet, Certificate Fee	79,075
Total	20,064,018
Other Fees	
1. Identity Card Fee	891,680
2. Fine/Misc. Fee	917,521
3. Medical Fee	1,743,320
4. Garden Fee	712,900
5. Income from UCC	202,360
Total	4,467,781
B. SALE OF PUBLICATIONS	
1. Sale of Syllabus and Question Paper etc.	7,745
2. Sale of Prospectus including admission forms	44,811,295
Total	44,819,040
Grand Total	93,811,025

Sd/-

(Aayatullah)

Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-

(Zafarullah Khan)

Dy. Finance Officer

Sd/-

(Prof. Shahid Ashraf)

Finance Officer

Sd/-

(Prof. S. M. Sajid)

Registrar

SCHEDULE 10 : INCOME FROM PUBLICATIONS

Particulars	Amount
Subscription : Jamia Monthly	32,634
Total	32,634

SCHEDULE 11 : INCOME FROM INVESTMENTS

Particulars	Investment from Earmarked/Endowment Funds	Investment - Others
1. Interest		
a) On Government Securities		
b) Bonds/Debentures		
2. Dividends		
a) On Shares (Maktaba Jamia Ltd.)		35,598
3. Income received		
a) University Development Fund	7,649,345	
b) SRC Publication Fund	75,503	
c) Endowment Fund	14,789,149	
Total	14,789,149	35,598
Transferred to Earmarked Fund/Endowment Fund	14,789,149	
Total	0	

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

SCHEDULE 12 : INTEREST EARNED

Particulars	Amount
A. Fixed Deposits	
1. Non Plan (Maintenance)	27,237,164
2. Plan	9,088,532
Total	36,325,696

SCHEDULE 13 : OTHER INCOME

Particulars	Amount
1. Income From Land & Building	
1. Hostel Room Rent	1,707,300
2. License Fee	2,478,357
4. Hire Charges of Auditorium/Play Ground/C. Centre etc.	875,900
5. Electricity & Water Charges	2,213,137
Total	7,274,694
2. Others	
1. Medical Contribution from Employees	3,078,390
2. Maint. Charges from S.F. Courses	10,226,537
3. Overhead Charges from Projects	512,253
4. Income from IGNOU study centre	125,000
5. Sale of Application Form (Recruitment)	247,650
6. Misc. Receipt (Sale of Tender Form, Waste Paper etc.)	6,100,857
7. Income From Consultancy	249,327
8. R.T.I. Fees	11,899
9. Income From Royalty	15,627
10. Income From Dental College	247,375
Total	20,814,915
Grand Total	28,089,609

SCHEDULE 14 : ESTABLISHMENT EXPENSES

Particulars	Non-Plan	Plan/Other	Total
1. Salaries and Allowances	957,547,568	135,551,539	1,093,099,107
2. Honorarium	24,196,886	-	24,196,886
3. Bonus	3,763,747	-	3,763,747
4. Retirement Benefits	1,771,111,454	-	1,771,111,454
Total (A)	2,756,619,655	135,551,539	2,892,171,194

Add : Outstanding Expenses of 2010-11

1. Salaries & Allowances	72,244,205	12,564,183	84,808,388
2. CPF Contribution/ Pension	12,786,577	-	12,786,577
Total (B)	85,030,782	12,564,183	97,594,965

Grand Total (A+B)

2,841,650,437	148,115,722	2,989,766,159
----------------------	--------------------	----------------------

SCHEDULE 14 A : ESTABLISHMENT EXPENSES (SALARIES & ALLOWANCES)

Particulars	Non-Plan	Plan	Total
1. Salary & Allowances	859,384,980	135,551,539	994,936,519
2. Arrear VI Pay Commission	20,294,276	-	20,294,276
3. L.T.C. Facilities	13,252,452	-	13,252,452
4. Medical Facilities	46,387,644	-	46,387,644
5. Children Education Allowance	11,643,965	-	11,643,965
6. TA/DA Expenses	967,689	-	967,689
7. Encashment of Earned Leave Against LTC	5,616,562	-	5,616,562
Total	957,547,568	135,551,539	1,093,099,107

Sd/-

(Aayatullah)

Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-

(Zafarullah Khan)

Dy. Finance Officer

Sd/-

(Prof. Shahid Ashraf)

Finance Officer

Sd/-

(Prof. S. M. Sajid)

Registrar

SCHEDULE 14 B : RETIREMENT BENEFITS

Particulars	
(I) Pension	
Opening Balance	1,543,381,000
Less: Actual payment in 2010-11	83,696,703
Balance available on 31.03.2011 (A)	1,459,684,297
Liability on 31.03.2011 as per actuarial valuation (B)	2,879,713,509
Provision to be made in the Account for 2010-11 (B-A)	1,420,029,212
(II) GRATUITY	
Opening Balance	269,998,000
Less: Actual payment in 2010-11	17,100,090
Balance available on 31.03.2011 (A)	252,897,910
Liability on 31.03.2011 as per actuarial valuation (B)	499,633,909
Provision to be made in the Account for 2010-11 (B-A)	246,735,999
(III) ENCASHMENT OF LEAVE	
Opening Balance	235,528,759
Less: Actual Payment 2010-11	10,062,823
Balance available on 31.03.2011 (A)	225,465,936
Liability on 31.03.2011 as per actuarial valuation (B)	310,073,428
Provision to be made in the Account for 2010-11 (B-A)	84,607,492
(IV) Paid During the Year : 2010-11	
(i) PF Contribution	19,738,751
(ii) Leave Salary/Pension Contribution	0
Total	19,738,751
Grand Total (I+II+III+IV)	1,771,111,454

Sd/-

(Aayatullah)

Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-

(Zafarullah Khan)

Dy. Finance Officer

Sd/-

(Prof. Shahid Ashraf)

Finance Officer

Sd/-

(Prof. S. M. Sajid)

Registrar

SCHEDULE 15 : ACADEMIC EXPENSES

Particulars	Non-Plan	Plan	Total
1. Laboratory Expenses	6,793,080	-	6,793,080
2. Field Work/Participation	1,148,379	1,291,097	2,439,476
3. Seminar Workshop/Unassigned grant	650,706	-	650,706
4. Payment to Visiting Faculty	151,450	-	151,450
5. Examination	17,219,851	-	17,219,851
6. Student Welfare Expenses	7,611,672	-	7,611,672
7. Admission Expenses	24,920,749	-	24,920,749
8. Convocation Expenses	1,199,178	-	1,199,178
9. Publications	343,076	315,061	658,137
10. Honorarium to Guest Lecturer	190,800	-	190,800
11. Stipend/means-cum-merit scholarship	1,064,500	-	1,064,500
12. Miscellaneous	5,368,271	-	5,368,271
13. Conference/Seminar	-	570,801	570,801
Total	66,661,712	2,176,959	68,838,671

Sd/-
(Aayatullah)

Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)

Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)

Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)

Registrar

SCHEDULE 16 : ADMINISTRATIVE EXPENSES

Particulars	Non-Plan	Plan/Others	Total
1. Rent, Rates & Taxes(Including Prop. Tax)	8,909,800	-	8,909,800
2. Electricity Charges	57,900,095	-	57,900,095
3. Water Charges	6,644,303	-	6,644,303
4. Vehicle Running Expenses	3,435,154	-	3,435,154
5. Postage & Telegram	433,711	-	433,711
6. Telephone & Internet Charges	2,297,648	-	2,297,648
7. Advertisement & Publicity	3,930,578	-	3,930,578
8. Legal Expenses	2,266,662	-	2,266,662
9. Liveries & Dialy Wages	1,727,636	-	1,727,636
10. Printing Stationary Charges	10,360,453	-	10,360,453
11. Travel Conveyance Charges	2,182,095	-	2,182,095
12. Hospitality	371,542	-	371,542
13. Misc. Expenses	2,271,853	17,610,500	19,882,353
Total	102,731,530	17,610,500	120,342,030

Sd/-

(Aayatullah)

Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-

(Zafarullah Khan)

Dy. Finance Officer

Sd/-

(Prof. Shahid Ashraf)

Finance Officer

Sd/-

(Prof. S. M. Sajid)

Registrar

SCHEDULE 17 : REPAIRS AND MAINTENANCE

Particulars	Non-Plan	Plan	Total
1. Cleaning Material & Services	889,776	-	889,776
2. Maint. of Building (Inc. Elec. & Water Supply)	47,819,131	-	47,819,131
3. Gardening	790,172	-	790,172
4. Maintenance of Computer	18,332,648	-	18,332,648
5. Maintenance of Furniture & Equipment	5,865,606	-	5,865,606
Total	73,697,333	-	73,697,333

SCHEDULE 18 : MISCELLANEOUS EXPENSES

Particulars	Non-Plan	Plan	Total
1. Misc. Expenses	-	42,483,213	42,483,213
2. Contingencies	13,667,941	-	13,667,941
Total	13,667,941	42,483,213	56,151,154

Sd/-

(Aayatullah)

Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-

(Zafarullah Khan)

Dy. Finance Officer

Sd/-

(Prof. Shahid Ashraf)

Finance Officer

Sd/-

(Prof. S. M. Sajid)

Registrar

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

SCHEDULE: 19: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS FOR PREPARATION OF ACCOUNTS.

The Accounts are prepared under the Historical Cost Convention unless otherwise stated and generally on the Accrual method of accounting.

2. REVENUE RECOGNITION

- | | |
|-----|--|
| 2.1 | Fees from Students, Sale of Admission Forms, and Interest on Saving Bank a/c are accounted on cash basis. |
| 2.2 | Income from Investments is accounted on accrual basis. |
| 2.3 | Interest on interest bearing advances to staff for House Building Advances is accounted on accrual basis every year, though the actual recovery of interest starts after the full repayments of the Principal. |

3. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION.

- | | |
|-----|--|
| 3.1 | Fixed assets are stated at cost of acquisition including inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition, installation and commissioning. |
| 3.2 | Fixed assets are valued at cost less accumulated depreciation. Depreciation on fixed assets is provided on Straight line method, at the following rates: |

Sd/- (Aayatullah) Asstt. Registrar(A/Cs)	Sd/- (Zafarullah Khan) Dy. Finance Officer	Sd/- (Prof. Shahid Ashraf) Finance Officer
		Sd/- (Prof. S. M. Sajid) Registrar

1.	Land	0%
2.	Buildings	2%
3.	Tube wells & water supply	2%
4.	Electrical Installation and equipment	5%
5.	Plant & Machinery	5%
6.	Scientific & Laboratory Equipment	8%
7.	Office Equipment	7.5%
8.	Audio Visual Equipment	7.5%
9.	Computer & Peripherals	20%
10.	Furniture, Fixtures & Fittings	7.5%
11.	Vehicles	10%
12.	Lib. Books & Scientific Journals	10%
13.	Others	10%

3.3 Depreciation is provided for the whole year on additions during the year.

3.4 Where an asset is fully depreciated, it will be carried at a residual value of Re 1 in the Balance Sheet and will not be further depreciated.

3.5 Assets created out of Earmarked Funds and Sponsored Projects, where the ownership of such assets vests in the university, are setup by credit to Capital fund and merged with the Fixed Assets of the university. Depreciation is charged at the rates applicable to the respective assets.

3.6 Assets gifted to the university are set up by credit to Capital Fund and merged with the Fixed Assets of the university. Depreciation is charged at the rates applicable to the respective assets.

3.7 Books received as gifts are valued at selling prices printed on the books. Where they are not printed, the value is based on an assessment.

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

4. RETIREMENT BENEFITS

Retirement benefits i.e. Pension, Gratuity and Leave Encashment are provided on the basis of actuarial valuation at the end of each year. Capitalized Value on these accounts received from previous employers of the university employees, who have been absorbed in the university, is credited to the respective Provision Accounts. Pensionary contribution received from present employers of the employees of the university on deputation / Foreign Service, is also credited to the provision for pension.

5. INVESTMENTS

All investments are valued at cost.

6. The following long-term funds are earmarked for specific purposes. Those with large balances have been investments in Term Deposits with Banks. The incomes from investments / recoveries of advances (House Building) on accrued basis are credited to the respective Funds. The expenditure and advances (in the case of House Building Revolving Fund) are debited to the Fund. The balance is carried forward and is represented on the assets side by the balance at Bank (merged in Earmarked/Deposit savings Account), Investments and accrued interest (Current Assets).

6.1 University Development Fund:

This fund is built up from annual fees towards the fund collected from students of the university, and any other substantial capital receipts. It is utilized towards improving the infrastructure, acquisition of assets etc.

6.2 House Building Advance Fund

A revolving fund for the purpose of paying interest bearing advances to officers & staff for House Building.

6.3 Conveyance Fund

A revolving fund for the purpose of paying interest bearing advances to officers & staff for the purchase of motor cars, two wheelers, computers and cycles.

Sd/-

(Aayatullah)

Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-

(Zafarullah Khan)

Dy. Finance Officer

Sd/-

(Prof. Shahid Ashraf)

Finance Officer

Sd/-

(Prof. S. M. Sajid)

Registrar

6.4**S.R.C. Publication Fund**

A revolving fund created out of sale proceeds of publications of State Resource Centre (SRC), to meet the expenditure in producing the publications. The expenditure on the construction of SRC Building is also met out of this fund.

6.5**Endowment Funds**

Endowment are funds received from various individual donors, Trusts and other organizations, for establishing Chairs and for award medals, prizes & scholarships as specified by the Donors. While each of the Endowment funds has its own investment, the uninvested balances have been kept in a common Bank Account.

The income from investment of each Endowment Fund on accrual basis is added to the Fund. The expenditure on the Chairs, Medals, Prizes and Scholarships is debited to the respective Endowment Funds and the balance is carried forward: The balance is represented by Investment in Fixed Deposits, accrued interest (Current Assets) and total balance in a common Saving Bank Account for all Deposits.

7. GOVERNMENT AND UGC GRANTS

7.1 Government Grants and UGC grants are accounted on realization basis, except where sanction pertaining to the year has been received but the money has not actually been realized

7.2 To the extent utilized towards capital expenditure, government grants and grants from UGC are transferred to the Capital Fund.

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

7.3 Government and UGC grants for meeting Revenue Expenditure are treated, to the extent utilized, as income of the year in which they are realized.

7.4 Unutilized grants (including advances paid out of such grants) are carried forward and exhibited as a Liability in the Balance Sheet.

8. INVESTMENT OF EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS AND INTEREST INCOME ACCRUED ON SUCH INVESTMENTS.

To the extent not immediately required for expenditure, the amounts available against such funds are invested in approved Securities & Bonds or deposited for fixed term with Banks, leaving the balance in Saving Bank Accounts.

Interest received, interest accrued and due and interest accrued but not due on such investments are added to the respective funds and not treated as Income of the University.

9. SPONSORED PROJECTS

9.1 In respect of ongoing Sponsored Projects, the amounts received from sponsors are credited to the head "Current Liabilities and Provisions – Current Liabilities – Other Liabilities – Receipts against ongoing sponsored projects." As and when expenditure is incurred / advances are paid against such projects, or the concerned project account is debited with allocated overhead charges, the liability account is debited. Overhead charges recovered from projects are treated as income of the university.

9.2 The debit balances in individual sponsored projects are exhibited under Current Assets - Loans & Advances as recoverable from sponsors.

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

10. Fellowships & Scholarships

- 10.1 Fellowships & Scholarships sponsored by various agencies including the University Grants Commission are accounted in the same way as Sponsored Projects except that the expenditure generally is only on disbursement of Fellowships and Scholarships, which may include allowances for contingent expenditure by the Fellows and Scholars.
- 10.2 The university itself also awards Fellowships and Scholarships, which are accounted as Academic Expenses of the university.

11. INCOME TAX

The income of the University is exempt from Income Tax under Section 10(23c) of the Income Tax Act. No provision for tax is therefore made in the accounts.

12. MASS COMMUNICATION RESEARCH CENTRE

Accounts of Mass Communication Research Centre, which is an integral part of the university, have been merged in the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account.

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

SCHEDULE: 20: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS**1. CONTINGENT LIABILITIES**

- 1.1 As on 31.03.2011 a total of 59 suits filed against Jamia, by former / present employees of Jamia were pending for decisions by various courts. They were establishment related viz promotion, increments, pay scales, termination etc. The quantum of the claims is not ascertainable.

2. CAPITAL COMMITMENTS

The Value of contracts remaining to be executed on Capital Account and not provided for (Net of Advances) amounted to Rs.223,331,572 as on 31.03.2011.

3. CURRENT ASSETS. LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the Current assets, Loans and advances have a value on realization in the ordinary course, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

4. The details of balances in Savings Bank Account are enclosed as attachment 'A'.

5. Previous years figures have been regrouped wherever necessary.

6. Figures in the Final accounts have been rounded off to the nearest rupee.

7. Schedules 1 to 20 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31st March 2011 and the Income & Expenditure account for the year ended on that date.

8. As the Provident Fund Accounts are owned by the members of those funds and not by the university, these accounts are separated from the University's Accounts. However, a Receipts & Payments Account, an Income & Expenditure Account (on Accrual basis) and a Balance Sheet of the Provident Fund Accounts, have been attached, to the university's Accounts.

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

RECEIPT		AMOUNT	PAYMENT	AMOUNT
I. Opening Balance				
a) Cash in hand		893,143	I. Expenses	1,668,282,260
b) Bank Balance		669,419,475		
II. Grants Received		2,242,450,017	II. Payment Against Spon., Endowment Fund and Other Fund	559,008,702
III. Interest Received		36,325,696	III. Investments including Term Deposits	1,371,518,483
IV. Other Income			IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-progress	730,368,945
a) University's Other Receipt		126,225,645		
b) Receipt Against Spon., Endw. Fund and Other Funds		800,563,043		
V. Any other receipt			V. Other Payment	454,850,998
a) Realisation of Investment		884,600,523	Remittances against deduction from Salaries & Adv. Against Exp.	
b) Refund / Adj. of Adv. Against Exp. & Deduction from Salaries		463,736,632		
VI. Closing Balance			VI. Closing Balance	984,796
			a) Cash in hand	
			b) Bank Balance	439,199,990
Total		5,224,214,174	Total	5,224,214,174

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

PROVIDENT FUND ACCOUNT
BALANCE SHEET AS ON 31.03.2011

L I A B I L I T Y		A S S E T S		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
1) GPF SUBSCRIPTION		INVESTMENTS		764,105,000
OPENING BALANCE	511,379,831	INTEREST ACCRUED(BUT NOT DUE)	12,929,908	
ADDITION (DURING 2010-11)	161,369,182	1) RBI CUM BONDS	7,271,477	20,201,385
ADD-INTEREST	42,063,712	2) OTHERS		
LESS:	117,935,921	BALANCE AT INDIAN BANK		3,907,963
WITHDRAWAL, ADVANCES & FINAL PAYMENTS				
2) CPF SUBSCRIPTION				
OPENING BALANCE	59,272,974			
ADDITION (DURING 2010-11)	17,082,925			
ADD-INTEREST	4,740,058			
LESS:	11,247,537			
WITHDRAWAL, ADVANCES & FINAL PAYMENTS				
3) CPF CONTRIBUTION				
OPENING BALANCE	37,052,872			
ADDITION (DURING 2010-11)	4,768,255			
ADD-INTEREST	2,833,595			
LESS:	1,397,023			
WITHDRAWAL, ADVANCES & FINAL PAYMENTS				
INTEREST RESERVE - OPENING BAL.	68,982,516			
ADD EXCESS OF INCOME OVER EXP	9,248,909			
TOTAL (RS)	788,214,348	TOTAL (RS)		788,214,348

Sd/-

(Aayatullah)

Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-

(Zafarullah Khan)

Dy. Finance Officer

Sd/-

(Prof. Shahid Ashraf)

Finance Officer

Sd/-

(Prof. S. M. Sajid)

Registrar

PROVIDENT FUND ACCOUNT
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING MARCH 31, 2011

E X P E N D I T U R E		I N C O M E	
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
TO INTEREST ALLOWED TO PF SUBSCRIBERS		BY INCOME FROM INVESTMENTS	
1) GPF SUBSCRIBERS	42063712	1) Interest on Investments (Received during the year)	44,554,289
2) CPF SUBSCRIBERS	4740058		
3) CPF CONTRIBUTION	2833595	2) Interest accrued during the year: On RBI Bonds On FDs	12,929,908 1,402,077
TO EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	9,248,909		14,331,985
TOTAL (RS)	58,886,274	TOTAL (RS)	58,886,274

Sd/-

(Aayatullah)

Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-

(Zafarullah Khan)

Dy. Finance Officer

Sd/-

(Prof. Shahid Ashraf)

Finance Officer

Sd/-

(Prof. S.M.Sajid)

Registrar

PROVIDENT FUND ACCOUNT
RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR 2010-11

R E C E I P T S		P A Y M E N T S		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
TO OPENING BALANCE AT INDIAN BANK		LAON/WITHDRAWAL/FINAL GPF SUBSCRIPTION	9,389,283	117,935,921
		CPF SUBSCRIPTION		11,247,537
		CPF CONTRIBUTION		1,397,023
INTEREST RECEIVED	55,098,799			130,580,481
INVESTMENT ENCASHED	29,000,000	INVESTMENT MADE		142,220,000
ADDITION DURING THE YEAR		BY CLOSING BALANCE AT INDIAN BANK		3,907,963
GPF SUBSCRIPTION	161,369,182			
CPF SUBSCRIPTION	17,082,925			
CPF CONTRIBUTION	4,768,255			
TOTAL (RS)	276,708,444	TOTAL (RS)		276,708,444

Sd/-

(Aayatullah)

Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-

(Zafarullah Khan)

Dy. Finance Officer

Sd/-

(Prof. Shahid Ashraf)

Finance Officer

Sd/-

(Prof. S.M. Sajid)

Registrar

ANNEXURE(I): SCHEDULE:3(V)(b)

CURRENT LIABILITIES-OTHER LIABILITIES-RECEIPTS
AGAINST ONGOING SPONSORED PROJECTS

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCES AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE PERIOD		CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2011	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
University Grants Commission						
Research Award To Dr. Syed Mehtaj Begum	--	56,477.00	1,33,414.00	67,972.00	8,965.00	--
Research Award To Dr. Jyoti Kakkar	--	1,30,688.00	12,89,579.00	18,34,791.00	--	6,75,900.00
Research Award To Dr. Tanuja Singh	--	2,79,032.00	8,37,292.00	11,17,674.00	--	5,59,414.00
Emeritus Fellowship : Dr. G. S. L. Devra	--	6,352.00	0.00	0.00	--	6,352.00
Research Fellowship In Science For Meritorious Students To Promote Research In Universities	1					
Emeritus Fellowship : Prof. M. Fahim	--	2,08,546.00	15,86,867.00	26,67,261.00	--	12,88,940.00
Emeritus Fellowship : Prof. M.K. Agarwal	--	90,000.00	1,40,000.00	0.00	50,000.00	--
Higher Education For Disabled (Hepsn), Dr. S. R. Mittal	--	--	34,193.00	0.00	34,193.00	--
Instt. Of Socio-Eco. Studies Of Third World Countries	--	3,58,336.00	0.00	0.00	--	3,58,336.00
P.G. Diploma In Human Rights Deptt. Of Political Sc.	--	70,919.00	0.00	0.00	--	70,919.00
Visiting Faculty Of Jmi	1,62,916.00	--	0.00	1,62,916.00	--	--
Ugc- N.E.T. (National Educational Testing)	1,00,000.00	--	1,40,000.00	1,00,000.00	1,40,000.00	--
Organisation Of Teppe Course	--	21,02,665.00	59,98,855.00	51,79,807.00	--	12,83,617.00
Coaching Of S/C S/T Students (Net)	--	1,00,000.00	0.00	0.00	--	1,00,000.00
Instt. Of Socio-Eco. Studies Of Third World Countries (3rd Phase)	--	3,85,879.00	0.00	14,121.00	--	4,00,000.00
Development Assistance To Strengthen Existing And New Management Deptt	--	73,890.00	0.00	0.00	--	73,890.00
Brainstorming Session "Conversion Of Area Studies Into Pg Teaching Dept. Of Intern. Studies: Atws	--	2,77,743.00	0.00	0.00	--	2,77,743.00
"32nd Session Of Indian Social Science Congress"(Indian Academy Of Social Science)-Rakhshanda Jaleel	1,04,528.00	--	0.00	0.00	--	1,10,140.00
Awareness /Motivation Workshop On "Capacity Building For Women Managers"Dr. Bulbul Dhar	--	1,21,516.00	0.00	0.00	--	1,98,022.00
Organising Of Special Summer School- 2008	--	2,38,229.00	2,38,229.00	0.00	--	1,21,516.00
Travel Grant To Dr. Jamal Mohammad Moosa	67,357.00	--	0.00	0.00	67,357.00	--
Seminar Under The Scheme Of Human Right & Social Security.....Globalization Education, (Asc)	40,000.00	--	0.00	40,000.00	--	--
Travel Grant To Dr. Sujata Ashwarya Cheema	41,545.00	--	0.00	41,545.00	--	--
Motivate And Promote The Culture Of Research At The Undergraduate Level For D/O Electrical Engg.	--	5,00,000.00	3,70,000.00	0.00	--	1,30,000.00
Motivate And Promote The Culture Of Research At The Undergraduate Level For Deptt. Of Bio-Technology	--	43,125.00	0.00	0.00	--	43,125.00

Sd/-

(Ayatullah)

Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-

(Zafarullah Khan)

Dy. Finance Officer

Sd/-

(Prof. Shahid Ashraf)

Finance Officer

Sd/-

(Prof. S. M. Sajid)

Registrar

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCES AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE PERIOD		CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2011	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Seminar Under The Scheme Of Human Rights Education Under Plan (Deptt. Of Pol. Sc.)	--	1,60,000.00	1,98,415.00	38,415.00	--	--
Abdul Halim	--	1,079.00	0.00	0.00	--	1,079.00
Dr. Biswajit Das	--	819.00	0.00	0.00	--	819.00
Dr. G.A.K. Kumar	--	13,072.00	0.00	0.00	--	13,072.00
Dr. Qamar Ghaffar	--	142.00	0.00	0.00	--	142.00
Dr. M. Muslim Khan	--	50,000.00	0.00	0.00	--	50,000.00
Archana Prasad	14,897.00	--	1,08,110.00	2,30,720.00	--	1,07,713.00
M.R.P. Vinod Bhatia	26,075.00	--	41,125.00	67,200.00	--	--
Aejaz Masih	78,926.00	--	0.00	0.00	--	78,926.00
M.R.P. Kavita Chauhan	--	3,29,447.00	1,59,623.00	0.00	--	1,69,824.00
M.R.P. - Miri S. Thomas	--	1,24,412.00	1,26,423.00	0.00	2,011.00	--
Major Research Project-K.D. Kapur	34,884.00	--	0.00	0.00	34,884.00	--
Dr. Anjan Ananda Sen	14,806.00	--	1,02,589.00	1,26,800.00	--	9,405.00
Mohd Hasan Shahid	--	1,50,222.00	3,07,774.00	1,83,152.00	--	25,600.00
Jessy Abraham	--	2,00,628.00	2,63,449.00	2,05,720.00	--	1,42,899.00
Dr. Luqman Ahmad Khan	--	1,894.00	3,88,357.00	3,94,160.00	--	7,697.00
Prof. Anwar Ali	13,704.00	--	1,30,209.00	2,45,730.00	--	1,01,817.00
Dr. Mohd Irfan Qureshi	1,35,875.00	--	1,03,096.00	2,56,974.00	--	18,003.00
Athar Adil Hashmi	--	1,57,127.00	1,38,973.00	0.00	--	18,154.00
Major Research Project-Moharram Ali Khan	--	3,70,851.00	3,28,303.00	28,917.00	--	71,465.00
Major Research Project-Tasneem Fatma	--	95,878.00	1,91,771.00	2,50,607.00	--	1,54,714.00
Major Research Project-Sonu Chand Thakur	--	1,83,392.00	2,09,470.00	40,995.00	--	14,917.00
Shayamla A. Narayan	2,957.00	--	0.00	0.00	2,957.00	--
Dr. P. K. Gupta	--	24,199.00	27,210.00	5,80,200.00	--	5,77,189.00
Major Research Project-Zubaida Ansari	--	2,30,154.00	3,16,354.00	1,56,156.00	--	69,956.00
Major Research Project-Arif Ali	--	4,65,748.00	2,95,145.00	0.00	--	1,70,603.00
Major Research Project-Syed Akhtar Husain	--	47,263.00	42,165.00	0.00	--	5,098.00
Major Research Project-Meetu Gupta	--	52,903.00	54,280.00	0.00	1,377.00	--
Minor Research Project-Indu Virendra	--	24,738.00	24,738.00	0.00	--	--
Major Research Project-R.K. Brojen Singh	--	3,28,519.00	3,61,000.00	42,720.00	--	10,239.00
Major Research Project-Mohd. Aman Jaijapuri	--	55,418.00	84,045.00	0.00	28,627.00	--
Major Research Project-Shahida Khatoun	--	8,34,361.00	28,207.00	0.00	--	8,06,154.00
Major Research Project-Madan Mohan	--	2,39,210.00	0.00	0.00	--	2,39,210.00
Mrp- Protein Flooding: Would The Heat/Acid Denatured St. Serve As Ref.	--	--	--	--	--	--
St. For Protein Dr. Faizan Ahd.	--	3,27,384.00	2,67,592.00	7,096.00	--	66,888.00
Major Research Project-Dr. Arun Singh	--	5,01,723.00	2,84,803.00	0.00	--	2,16,920.00
Major Research Project-Dr. Saeed Uddin	--	1,42,983.00	1,32,152.00	0.00	--	10,831.00

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCES AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE PERIOD		CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2011	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Major Research Project-Dr.Meryam Sardar	--	51,180.00	75,738.00	0.00	24,558.00	--
Major Research Project-Mohd. Mudassir Hussain	--	--	19,700.00	51,750.00	--	32,050.00
Mrp-Dr. Nasimul Hoda, Deptt. Of Chemistry	--	72,000.00	61,186.00	0.00	--	10,814.00
Mrp-Prof. Kishwar Saleem, Deptt. Of Chemistry	--	70,000.00	60,000.00	0.00	--	10,000.00
Dr. Sabiha Hussain	--	4,10,200.00	2,68,161.00	0.00	--	1,42,039.00
Dr. M. Ejaz Hussain	--	6,02,800.00	5,35,966.00	0.00	--	66,834.00
Dr. Mohammad Husain	--	7,52,800.00	5,70,921.00	0.00	--	1,81,879.00
Dr. Masood Ahsan Siddiqui	--	4,28,800.00	1,36,390.00	0.00	--	2,92,410.00
Dr. Shahnaz Parveen	--	5,94,800.00	1,28,396.00	0.00	--	4,66,404.00
Dr. S.M. Mustafa	4	4,80,000.00	4,03,811.00	28,800.00	--	1,04,989.00
Major Research Project -Mohd Badrul Alam	--	--	0.00	2,78,000.00	--	2,78,000.00
Major Research Project -Shafeeq Ahmad Ansari	--	--	9,233.00	8,63,500.00	--	8,54,267.00
Major Research Project- Dr. Sushant	--	--	1,900.00	7,53,800.00	--	7,51,900.00
Major Research Project-Dr Mary Tahir	--	--	0.00	1,25,000.00	--	1,25,000.00
Major Research Project- Dr.Abdul Quaiyum Ansari	--	--	0.00	6,99,000.00	--	6,99,000.00
Major Research Project-Azher Majid Siddiqui	--	--	0.00	7,16,800.00	--	7,16,800.00
Major Research Project-Dr.Rajan Patel	--	--	0.00	6,37,800.00	--	6,37,800.00
Mrp - Qazi Md. Rizwanul Haq D/O Biosciences	--	--	19,770.00	7,24,000.00	--	7,04,230.00
Major Research Project-Nadim Ahmad	--	--	0.00	4,58,700.00	--	4,58,700.00
Major Research Project-Shehnaz Anjum	--	--	0.00	87,500.00	--	87,500.00
Major Research Project-Saif Siddique	--	--	0.00	30,000.00	--	30,000.00
Major Research Project-Dr.Rahela Farooqi	--	--	0.00	3,80,200.00	--	3,80,200.00
D.S.A Scheme (Phase Iii) Deptt. Of Social Work	--	34,957.00	0.00	0.00	--	34,957.00
D.S.A Scheme (Phase Iii) To Cas-I (1.4.10 To 31.03.2015)Deptt. Of Social Work	--	--	4,32,636.00	33,50,000.00	--	29,17,364.00
Firoz Ahmad	--	10,000.00	0.00	0.00	--	10,000.00
Hari Vaishnu Gautam	--	10,000.00	0.00	0.00	--	10,000.00
Jan Shabir Ahmad	--	7,472.00	7,472.00	0.00	--	--
Centre For Study Of Social Exclusion & Inclusive Policy(2007-08to31.03.12)	--	4,56,670.00	6,01,423.00	0.00	1,44,753.00	--
Academic Staff College Xi Plan Scheme	53,16,219.00	--	1,16,57,006.00	1,02,38,229.00	67,34,996.00	--
Country Wide Classroom(Mrc)	3,47,900.00	--	13,49,557.00	18,00,000.00	--	1,02,543.00
Schedule Total :	64,23,663.00	1,43,27,708.00	3,18,26,223.00	3,56,10,428.00	72,74,678.00	1,89,62,928.00
Ministry of Human Resource Development						
Modernization Of Production & Thermal Engg. Lab.	--	46,712.00	0.00	0.00	--	46,712.00
National Conference/Workshop On Management Higher Education	--	15,649.00	0.00	0.00	--	15,649.00
Scheme Of Community Polytechnic	--	10,25,000.00	0.00	0.00	--	10,25,000.00

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCES AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE PERIOD		CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2011	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
S.R.C. : Population Education Project	1,75,934.00	--	0.00	0.00	1,75,934.00	--
S.R.C. : Regular Budget	87,11,123.00	--	95,71,318.00	53,95,546.00	1,28,86,895.00	--
Sarva Shiksha Abhiyan Asc. (Workshop)	--	46,439.00	0.00	0.00	--	46,439.00
S.R.C.-P.D.E. Emoluments	51,230.00	--	0.00	0.00	51,230.00	--
Capacity Building Programme For Diet	--	1,32,899.00	0.00	0.00	--	1,32,899.00
External Evaluation Of Jan Shikshan Sansthan, Deoria & Bhanjan (N.U.Khan)	7,815.00	--	1,14,159.00	1,80,000.00	--	58,026.00
Evaluation Of Jan Shikshan Sansthan (J.S.S.), S.R.C. - Sidhi Dhar	--	1,17,528.00	1,66,878.00	49,350.00	--	--
Miscellaneous Grant	--	28,87,210.00	28,87,210.00	0.00	--	--
NMEICT, S. ERP mission project	--	--	95316.00	150000.00	--	1404684.00
"Feasibility Study Of Ngos For Setting Up Src Centre In States Rajasthan	--	--	39,450.00	39,450.00	--	--
Schdule Total :	89,46,102.00	42,71,437.00	1,28,74,331.00	71,64,346.00	1,31,14,059.00	27,29,409.00
Ministry of Science & Technology (D.S.T.)						
Study Of Transport Behaviour Of Leachate Through Vadose Zone : Dr. Sirajuddin	--	10,550.00	10,550.00	0.00	--	--
Serc Fast Track Scheme: Study Of Biomolecules In Aqueous/Mixed Solvent : Dr. Anil Kumar Nain	--	1,24,351.00	0.00	0.00	--	1,24,351.00
Hydrolysis Of Pyrophosphate During Polynucleotide Synthesis- Dr. Nikhat Manzoor	--	2,084.00	0.00	0.00	--	2,084.00
Electron Absorption Studies Astrophysical Interests : Dr. Mohd. Mudassir Husain	63,881.00	--	0.00	0.00	63,881.00	--
"Microemulsion Synthesis.... Nanosized Oxides"-Tokheer Ahmad	--	8,755.00	2,18,755.00	2,10,000.00	--	--
Serc Fast Track Scheme-"Structural And Biophysical ... Heat" Dr. Md. Imtiyaz Hassan	--	2,30,836.00	2,88,437.00	0.00	57,601.00	--
Serc Fast Track Scheme-"Cloning & Expression...." Dr. Shama Parveen	7,871.00	--	0.00	0.00	--	--
Serc Fast Track Scheme-Dr. Fareeda Athar	--	80,550.00	2,54,339.00	2,00,000.00	7,871.00	26,211.00
Serc Fast Track Scheme- "Synchronization ... Systems" Dr.Rk Brojen Singh	--	56,858.00	0.00	0.00	--	56,858.00
Serc Fast Track Scheme-"Mapping The Stress ..Mlodi-Tof-Mis" Dr.M.Irfan Qureshi	--	58,154.00	4,67,122.00	3,00,000.00	1,08,968.00	--
Serc Fast Track Scheme-"Development Of Self..." Dr.Ufana Riza.	--	58,088.00	1,58,096.00	1,55,000.00	--	44,992.00
Serc Fast Track Scheme-"Synthesis Characterization..." Dr.Humaira Parveen	--	2,55,281.00	8,05,281.00	5,50,000.00	--	--

Sd/- (Aayatullah)	Sd/- (Zafarullah Khan)	Sd/- (Prof. Shahid Ashraf)	Sd/- (Prof. S. M. Sajid)
Asstt. Registrar(A/Cs)	Dy. Finance Officer	Finance Officer	Registrar

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCES AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE PERIOD		CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2011	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Serc Fast Track Scheme-"Synthesis Characterization & Cytotoxic..."Dr.Rahis-Ud-Din, Deptt Of Chem.	--	5,21,923.00	3,01,378.00	0.00	--	2,20,545.00
Dr. Mohammad Sami	--	8,909.00	0.00	0.00	--	8,909.00
Travel Grant To Dr. S. A. Abbas	--	36,848.00	36,848.00	0.00	--	--
Travel Grant To Dr. Sirajuddin Ahmad	--	99,750.00	99,750.00	0.00	--	--
People'S Science Workshop	1,77,505.00	--	0.00	1,77,505.00	--	--
Dbt:Genetic EngineeringImprovement Of Mercury Tolerance, Prof. Arif Ali	27,029.00	--	0.00	0.00	27,029.00	--
Fist Programme, Deptt. Of Chemistry	--	47,000.00	0.00	0.00	--	47,000.00
National Workshop On Softcomputing, Machine Learning & Bioinformatics Applications Prof. S.I. Ahsan	--	1,010.00	0.00	0.00	--	1,010.00
M.Sc. Biotechnology Teaching Programme : Coordinator Prof. Arif Ali	3,82,413.00	--	0.00	0.00	3,82,413.00	--
Spectroscopic Investigation Of Semiconductor...Electrochemical Etching : Dr. S.S. Islam	--	18,549.00	0.00	0.00	--	18,549.00
F. A. Res. Proj. : In Vivo And In Vitro Paradox Of The Compen. Effect Of Methylamines: Prof. Faizan	--	1,86,869.00	1,86,869.00	0.00	--	--
Bioinformatics Infrastructure Facility (Bif) Department Of Computer Science	--	5,27,314.00	51,323.00	14,000.00	--	4,89,991.00
"Ramanna Fellowship"-Prof. Sudhendu Rai Choudhury	--	3,97,661.00	3,97,661.00	0.00	--	--
"Particle Physics Models Of Inflation.....Constraints" Prof.M.Sami	--	19,450.00	0.00	0.00	--	19,450.00
International Seminar On "It Industry In India: Prospects, Retrospects And Policies" M.S.Bhatt	--	5,000.00	5,000.00	0.00	--	--
F.A.For The Research Project"Interaction Of Malathion...Anabaena Variabilities"Prof. Tasneem Fatima	--	1,09,606.00	4,09,606.00	3,00,000.00	--	--
"Pore Morphology Studies Of Porous.....Dry Gas In Ppm V To Ppb V."Dr. T. Islam	7,590.00	--	3,91,429.00	4,00,000.00	--	981.00
"Understanding The Effectiveness Of Chemical....Polymerization"-Dr.M.A.Jairajpuri	--	1,30,404.00	1,08,533.00	0.00	--	21,871.00
"Molecular Evaluation Of Pien Gene In Colorectal.....India"Dr.M.Moshahid A Rizvi	--	1,96,611.00	3,43,431.00	3,13,400.00	--	1,66,580.00
"Development Of Hydrogels Based Smart Wound Dressings"-Dr.Saiqa Ikram	--	13,616.00	1,02,167.00	0.00	88,551.00	--
Dr.Fahmeeda Khatoon-"Development Of Hydrogels Based Smart Wound Dressings".	--	12,500.00	45,710.00	0.00	33,210.00	--
"Cloning & Expression Of G Protein Gene...Characterization"Dr. Shama Parveen	--	20,696.00	5,99,246.00	5,77,000.00	1,550.00	--

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCES AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE PERIOD		CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2011	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
"Development Of Hydrogels Based Smart Wound Dressings"-Dr. Saiqa Ikram	-	13,616.00	1,02,167.00	0.00	88,551.00	-
Dr. Fahmeeda Khatoon-"Development Of Hydrogels Based Smart Wound Dressings"-	-	12,500.00	45,710.00	0.00	33,210.00	-
"Cloning & Expression Of G Protein Gene...Characterization"-Dr. Shama Parveen	-	20,696.00	5,99,246.00	5,77,000.00	1,550.00	-
"Brane World Cosmology With Quintessence...Sigma Model"-Dr. Mohd Sami	-	3,69,955.00	0.00	0.00	-	3,69,955.00
Boyscast Fellowship To Dr. Nikhat Manzoor	-	-	1,26,968.00	1,26,968.00	-	-
Fist Programme Deptt. Of Civil Engineering.	4	55,00,000.00	0.00	0.00	-	55,00,000.00
Identification Of Hepatitis B VirusDr. Syed Naqui Kazmi (Shiv Kr. Sasrin)	-	61,06,733.00	46,14,950.00	0.00	-	14,91,783.00
Fabrication Of Piezoelectric And Pyroelectric Ceramics..... Dr. Arun Singh Deptt. Of Physics	-	9,60,674.00	49,254.00	0.00	-	9,11,420.00
Molecular Analysis Of Pten Gene In Breast Cancer Patients"-Zakia Kazim	-	-	-	-	-	-
Two Weeks Training Programme On Application Of Gst...Dr. M.A. Siddiqui	-	3,02,070.00	3,71,474.00	4,00,000.00	-	3,30,596.00
Models Of Dark Energy: Theory And Observations - Dr. Sami, Centre For Theoretical Physics	1,20,000.00	-	2,59,437.00	0.00	-	-
Origin Of Dark Energy Dark Matter & Inflation (Indo-Japan) - Dr. Sami, Ctp	-	-	89,885.00	7,00,000.00	-	4,90,135.00
Technology Forecasting & Assessment For Use Of Fly Ash.....Prof. Abid Haleem	-	-	1,87,371.00	1,90,000.00	-	2,629.00
Fist Program: Deptt. Of Bio. Sc.	-	-	1,37,538.00	8,40,000.00	-	7,02,462.00
Mosquito Vectors Of Japanese Encephalitis Virus..Dr. Bina Pani Das	-	-	25,33,559.00	41,75,000.00	-	16,41,441.00
F.A. Under Boyscast Fellowship To Dr. Arun Singh (Physics)	-	-	1,57,926.00	3,10,500.00	-	1,52,574.00
Empowerment & Economic Upliftment Of Rural Women By Tech.Intervention....Dr. Shagufta Jamal	-	-	15,70,000.00	15,70,000.00	-	-
Main School In Theoretical High Energy Physics At Jmi..Jan, 31 To Feb,20-2011	-	-	2,27,597.00	6,70,000.00	-	4,42,403.00
Investigation Of Photolu.....Vapour Sensing - Prof. S.S. Islam	-	-	7,44,969.00	13,50,000.00	-	6,05,031.00
Project"Cosmology And Astrophysics."Dr. Anjan Ananda Sen	-	-	13,26,263.00	28,00,000.00	-	14,73,737.00
F.A. For Project "Development Of Wireless Sensor....Old Age Homes"-Dr. Shahida Khatoon	-	-	0.00	13,50,000.00	-	13,50,000.00
Fist Program, Deptt Of Applied Science & Humanities	-	-	0.00	11,00,000.00	-	11,00,000.00
Schedule Total :	7,86,289.00	1,67,38,092.00	1,83,70,994.00	2,22,79,373.00	7,71,074.00	2,06,31,256.00

Sd/-
(Aayatullah)

Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)

Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)

Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)

Registrar

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCES AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE PERIOD		CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2011	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
I.C.S.S.R.						
Seminar On Identity & Geo-Politics" Prof. Mushirul Hasan	9,000.00	--	0.00	9,000.00	--	--
Seminar "Experience Of Un In Recent Peace Management: Lessons For The Third World"	--	1,854.00	0.00	0.00	--	1,854.00
Assistance For Seminaron "42nd National Conf. On Applied....World "- M.G.Hussain	--	1,074.00	0.00	0.00	--	1,074.00
Seminar"Muslim Backwardness In India.....Report" Prof. M.Mujtaba Khan	--	1,90,000.00	0.00	0.00	--	1,90,000.00
International Seminar On "It Industry In India: Prospects,Retrospects And Policies"	5,000.00	--	0.00	5,000.00	--	--
Empowering The Marginalized: Dalits And Minorities By Dr. M. Shafiq	--	47,500.00	0.00	0.00	--	47,500.00
Seminar "Asia Without Borders: Rethinking History,Anthropology And Politics"	7,894.00	--	0.00	0.00	7,894.00	--
Seminar On "Post 9/11 World Order And Iran"	3,449.00	--	0.00	0.00	3,449.00	--
Women'S On The Margins-Investigating Issues And Initiatives'	2,490.00	--	0.00	0.00	2,490.00	--
International Seminar On "Contours Of Media Governance" (Centre For Cul. & Media Governance)	5,000.00	--	0.00	0.00	5,000.00	--
Seminar On "Micro-Finance: Achievements Prospects And Challenges"	5,000.00	--	0.00	0.00	5,000.00	--
Governance And Security: India'S North East And Bangladesh - Dr. Sanjay Hazarika	15,042.00	--	0.00	15,042.00	--	--
Dynamics Of Regional Trade Agreements And Wto: Development Countries Perspectives-I	10,973.00	--	0.00	10,973.00	--	--
International Seminar On India -Iran Relations In Contemporary Times (1979- 2009)	5,000.00	--	0.00	0.00	5,000.00	--
Negotiating & Accommodating Religious Identity...Muslim Minorities - Dr. Anwar Alam	3,750.00	--	0.00	0.00	3,750.00	--
Aggression & Violence: Challenges For Social Well Being	10,000.00	--	0.00	0.00	10,000.00	--
International Seminar On " Understanding Social Exclusion: South Asian Context"	--	2,318.00	0.00	0.00	--	2,318.00
International Seminar On " Governance And Diversity Comparing Media System"	--	45,000.00	49,625.00	0.00	4,625.00	--
Security-Insecurity Among Muslim & Hindu : Dr. N. Hasnain	--	361.00	0.00	0.00	--	361.00
Baseline Survey In Minority Concentration Districts(2) -Prof Azra Razzaq & Prof Mushirul Hasan	--	1,27,825.00	1,27,825.00	0.00	--	--
" A Study Of Integration Of Ict In Pre -Service Teacher....Teachers"Dr.Jessy Abraham.	--	96,228.00	1,20,299.00	0.00	24,071.00	--

Sd/-

(Ayatullah)

Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-

(Zafarullah Khan)

Dy. Finance Officer

Sd/-

(Prof. Shahid Ashraf)

Finance Officer

Sd/-

(Prof. S. M. Sajid)

Registrar

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCES AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE PERIOD		CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2011	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Role Of Madarasa In Promoting Education And Development In Prof .M. Ishitiyaq.	--	55,862.00	60,000.00	1,44,000.00	--	1,39,862.00
India-Africa Relations: Implications For China	--	--	41,880.00	1,44,000.00	--	1,02,120.00
Psychological Capital & Employee Performance: Exploration In Positive Psychology At Work	--	--	1,34,087.00	1,40,000.00	--	5,913.00
Impact Of Ethnic Uprising & Insurgency On Identity Dev. & Alienation In Northeast- Prof M.G. Hussain	--	--	1,25,791.00	3,12,000.00	--	1,86,209.00
Effect Of Cbt On Test Anxiety, Academic Performance....Among High School Student	--	--	1,34,500.00	1,34,000.00	500.00	--
Role Of Non-Govt. Organization In Tribal Empowerment: A Study Of Selected Ngos Of Gujarat	--	--	22,658.00	1,58,000.00	--	1,35,342.00
Analyzing Strategies For Community Participation In The National Rural Health Mission...	--	--	2,10,102.00	2,81,000.00	--	70,898.00
Schedule Total :	82,598.00	5,68,022.00	10,26,767.00	13,53,015.00	71,779.00	8,83,451.00
I.C.H.R						
Seminar & Workshop On Central Asia & Politics	4,102.00	--	0.00	0.00	4,102.00	--
Seminar & Workshop On Assertive Religious Identities	50,660.00	--	0.00	0.00	50,660.00	--
Seminar "Articulating The Modern Culture----- Central Asia" (A.T.W.S)	5,001.00	--	0.00	0.00	5,001.00	--
Seminar "Religion ,Culture And Society" North India (Mr.Mushir Hasan)	4,925.00	--	0.00	0.00	4,925.00	--
Workshop On Progressive Writers..Movement Ideology & Social Base: Centre For J. Nehru Studies	--	3,472.00	0.00	0.00	--	3,472.00
Seminar On "India Central Asia & Turkey:....Matrix And Present Realities"Nasir Raza Khan (Atws)	--	3,633.00	0.00	0.00	--	3,633.00
Organizing An International Conference On "1857 Revolt" - Rakhshanda Jallil	5,000.00	--	0.00	5,000.00	--	--
Ichr-Seminar On "India And Major Power In Central & West Asia:.... Opportunities" On 21-23oct.	3,875.00	--	0.00	0.00	3,875.00	--
Schedule Total :	73,563.00	7,105.00	0.00	5,000.00	68,563.00	7,105.00
I.C.C.R.						
Travel Grant For Foreign Participant Of The Conference "Remembering 1857 Revolt"	--	38,917.00	0.00	0.00	--	38,917.00
Schedule Total :	0.00	38,917.00	0.00	0.00	0.00	38,917.00

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCES AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE PERIOD		CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2011	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
C.S.I.R						
Travel Grant To Tasneem Fatma	--	--	21,508.00	21,508.00	--	--
Travel Grant-Tarikul Islam	--	10,274.00	0.00	0.00	--	10,274.00
Scheme Synthesis, Characterisation Compound With Dna, Dr. A. Azam	--	9,593.00	0.00	0.00	--	9,593.00
Protein Folding Conformational And Thermodynamic Studies : Prof Faizan Ahmad	1,710.00	--	0.00	0.00	1,710.00	--
Design & Synthesis.....Heterocyclic Antiamoebic Molecules"Dr.Amir Azam	--	20,430.00	4,18,400.00	4,18,270.00	--	20,300.00
Investigating The Involvement Of Other(Non-Methylamines) Prof Faizan Ahmad	--	8,46,259.00	6,92,032.00	3,96,001.00	--	5,50,228.00
Scheme On Molecules.. "Dr. Mohd Husain	--	--	0.00	7,84,167.00	--	7,84,167.00
"Solvothermal Synthesis & Structural Characterization Of Znc..." Dr. Tokeer Ahd	--	--	0.00	6,66,000.00	--	6,66,000.00
Schedule Total :	1,710.00	8,86,556.00	11,31,940.00	22,85,946.00	1,710.00	20,40,562.00
Miscellaneous Agencies						
Ministry of External Affairs						
India'S Contribution To Arab & Islamic Thought & Culture	--	959.00	0.00	0.00	--	959.00
National Conference On India'S Perspective On West Asia...August 21-22,2006(C.W.A.S)	--	3,000.00	0.00	0.00	--	3,000.00
International Seminar On "Abu Raihan Al Baruni" From 24-26 March	1,00,000.00	--	0.00	1,00,000.00	--	--
Sub Schdule Total :	1,00,000.00	3,959.00	0.00	1,00,000.00	0.00	3,959.00
Ministry of Environment & Forest						
Seminar "National Environmental Policy(Nep)-2006,Objectives...Missing Links"	16,000.00	--	0.00	0.00	16,000.00	--
Research Project"Development Of Luminescence...Bodies"Arif Ali	9,398.00	--	1,33,763.00	1,50,000.00	--	6,839.00
Workshop On "Economic Evaluation..."Under National Environmental Awareness Campaign2007- 08	--	8,000.00	0.00	0.00	--	8,000.00
Cellular/Molecular Mechanisms Involved For Arsenic Detoxification And	--	6,35,817.00	8,25,403.00	1,84,000.00	5,586.00	--
Monitoring Of Arsenic In Ground Water Of Ballia Distt, U.PDr. Imran Ali, Deptt. Of Chemistry	--	7,10,375.00	8,34,615.00	3,42,000.00	--	2,17,760.00
Sub Schdule Total :	25,398.00	13,54,192.00	17,93,781.00	6,76,000.00	21,586.00	2,32,599.00

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCES AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE PERIOD		CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2011	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Ministry of Social Justice & Empowerment						
Scheme Of Coaching & Allied Assistance For Weaker Sections	1,20,649.00	--	0.00	0.00	1,20,649.00	--
Rehabilitation Council Of India : Cre Programme: Teaching Of Braille At						
base Prof. M.Akhtar Siddiqui	--	3,580.00	0.00	0.00	--	3,580.00
Providing Lift, Barrier Free Features & Other Facilities For P.W.Ds In						
The Jmi Buildings	--	1,95,118.00	31,614.00	0.00	--	1,63,504.00
Central Sector Scheme Of Free Coaching For Sc & Obc Student Of Year						
2008-09	--	5,62,500.00	0.00	0.00	--	5,62,500.00
Sub Schdule Total :	1,20,649.00	7,61,198.00	31,614.00	0.00	1,20,649.00	7,29,584.00
Ministry of Home Affairs						
Doctoral Work In Criminology & Police Science To S.M.Rizwan Ahd.	--	1,500.00	0.00	0.00	--	1,500.00
Sub Schdule Total :	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
Ministry of Defence						
Research Project "Growth Of Multi - WalledApplication (Feds)'Dr.						
Mushahid Hussain	--	1,00,147.00	5,30,547.00	6,32,400.00	--	2,02,000.00
Research Project: Investigation On Probiotic And Therapeutic..... Stem						
Cells: Dr.M.Mushahid A.Rizvi	--	1,00,930.00	8,03,563.00	9,95,084.00	--	2,92,451.00
"Development Of High Performance Conducting...." Prof.Sharif Ahmad	--	15,03,965.00	18,12,373.00	6,68,200.00	--	3,59,792.00
"Detection Of Toxic & Explosive..." Dr. Mohd. Shahid Khan	--	--	5,977.00	10,86,000.00	--	10,80,023.00
Sub Schdule Total :	0.00	17,05,042.00	31,52,460.00	33,81,684.00	0.00	19,34,266.00
Ministry of Youth Affairs & Sports						
Nss: University Talk Aids	--	18,558.00	0.00	0.00	--	18,558.00
N.S.S. : Promotion Of National Integration	27,138.00	--	0.00	0.00	27,138.00	--
Development And Renovation/Upgradation Of Training Venues For The						
Commonwealth Games, 2010	--	18,02,67,123.00	11,77,99,997.00	0.00	--	6,24,67,126.00
Nss Republic Day Parade Camp 2010	--	15,00,000.00	19,89,976.00	7,01,377.00	--	2,11,401.00
Sub Schdule Total :	27,138.00	18,17,85,681.00	11,97,89,973.00	7,01,377.00	27,138.00	6,26,97,085.00
Directorate of Education						
N.S.S.: Regular Activities	16,541.00	--	0.00	0.00	--	--
N.S.S.: Special Camping Programme	27,160.00	--	0.00	0.00	--	--
N.S.S.: National Integration Camp	40,789.00	--	0.00	0.00	--	--
Sub Schdule Total :	84,490.00	0.00	0.00	84,490.00	0.00	0.00

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCES AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE PERIOD		CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2011	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
N.C.E.R.T.						
Translation Of Ncert Text Books For Classes I-Xii	37,502.00		0.00	0.00	37,502.00	
A Study Of Availability & Use Of Ict-- In Schools : Prof. Akhtar Siddiqui		36,499.00	0.00	0.00		36,499.00
Sub Schdule Total :	37,502.00	36,499.00	0.00	0.00	37,502.00	36,499.00
N.C.T. of Delhi (S.C.E.R.T.)						
Institute Of Advanced Studies In Education	9,39,257.00		0.00	0.00	9,39,257.00	
Sub Schdule Total :	9,39,257.00	0.00	0.00	0.00	9,39,257.00	0.00
All India Council For Technical Education						
Modernization Of Industrial Engg. Laboratory: Dr. Abid Haleem		4,846.00	0.00	0.00		4,846.00
Modrobs Ist: Prof. S.S. Nabi		14,755.00	0.00	0.00		14,755.00
Modrobs Iind: Prof. S.S. Nabi		1,32,281.00	0.00	0.00		1,32,281.00
Modrob: Mod Soul Mechanics Lab : N. U. Khan		2,725.00	0.00	0.00		2,725.00
Research Promotional Delineation Of Aquifer System : Gauhar Mahmood		6,235.00	0.00	0.00		6,235.00
Career Award To Naved Ahsan		2,58,779.00	2,58,779.00	0.00		
Research Promotional Sch- Mini S Thomas		14,178.00	20,000.00	5,822.00		
Research Promotional Sch--Shamshad Ahmad		1,86,210.00	25,400.00	0.00		1,60,810.00
Career Award To Dr. Rehan Ahmad Khan		1,87,239.00	0.00	0.00		1,87,239.00
Dr. Shahida Khatoon		4,60,000.00	0.00	0.00		4,60,000.00
Research Promotional Scheme- Prof. Khalid Moin		14,20,000.00	14,17,500.00	0.00		2,500.00
Modrob : Dr. Gauhar Hehmood	200.00		0.00	200.00		
Career Award To Dr. Mymoona Akhtar			0.00	4,60,000.00		4,60,000.00
Career Award To Sayeed Ahmad			0.00	4,60,000.00		4,60,000.00
Career Award To Razia Khanam			0.00	4,60,000.00		4,60,000.00
Career Award To Abdul Kalam Najmi			0.00	4,60,000.00		4,60,000.00
Sub Schdule Total :	200.00	26,87,248.00	17,21,679.00	18,46,022.00	0.00	28,11,391.00
Govt. of N.C.T. of Delhi						
Eco-Club At Jamia Senior Secondary School		11,601.00	7,500.00	22,500.00		26,601.00
Voluntary Counselling And Testing Centre (Delhi State Aids Control Society)		66,581.00	1,72,165.00	1,24,627.00		19,043.00
N.S.S. Voluntary Blood Donation Camp.		29,870.00	4,565.00	0.00		25,305.00
International Youth Day (Delhi State Aids Control Society)	2,016.00		0.00	7,700.00		5,684.00

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCES AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE PERIOD		CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2011	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Jamia Eco Club	—	23,201.00	10,000.00	0.00	—	13,201.00
Study Of Wastewater And Solid Waste Management.... Delhi"- Prof. Sirajuddin Ahd.	32,667.00	—	70,064.00	99,595.00	3,136.00	—
Training Programme In Hiv Counseling For-Prof Waheeda Khan(Aid Control Society)	—	65,956.00	65,956.00	0.00	—	—
Advance For Inauguration Of Rrc In J.M.I.(Delhi State Aids Control Society Of India)	—	15,599.00	7,910.00	0.00	—	7,689.00
"Youth Friendly Health Services" Under The Nss, Jmi (Delhi State Aids Control Society)	—	3,93,000.00	3,75,913.00	4,42,000.00	—	4,59,087.00
Training Of Art/Ccc Counsellors At Jmi (Delhi State Aids Control Society)	—	1,79,425.00	1,79,425.00	0.00	—	—
(Global Fund) Train..:"Counselling Services For Prev... Sw/Rti , Nacp- Ili,(Sacs)	—	—	7,18,142.00	7,18,142.00	—	—
Quality Assessment Survey"Raising & Strengthening Of Right.... Road Bridge"Dr. Siraluddin	—	—	0.00	1,78,500.00	—	1,78,500.00
Sub Schdule Total :	34,683.00	7,85,233.00	16,11,640.00	15,93,064.00	3,136.00	7,35,110.00
The Ford Foundation	—	—	—	—	—	—
International Seminar On India'S Culture In History & Politics, A.T.W.S.	—	72,631.00	0.00	0.00	—	72,631.00
Mapping And Engaging With Media Policy & Law In India	—	23,19,153.00	7,67,221.00	0.00	—	15,51,932.00
Sub Schdule Total :	0.00	23,91,784.00	7,67,221.00	0.00	0.00	16,24,563.00
Irindian Council of Medical Research	—	—	—	—	—	—
"Antimicrobial Activity Of Cyanobacteria"-Tasneem Fatma	4,384.00	—	0.00	4,384.00	—	—
Mr. Gaurav Roy (Srf): Dr. Mohammad Hussain	—	44,335.00	2,69,932.00	2,25,600.00	—	3.00
Apoptosis & Pathogenicity Modulation....Dr. Nikhat Manzoor (Deptt Of Biosciences)	—	—	5,49,339.00	13,14,952.00	—	7,65,613.00
Sub Schdule Total :	4,384.00	44,335.00	8,19,271.00	15,44,936.00	0.00	7,65,616.00
I.G.N.O.U.- Distance Education Council : D.E.C.	—	—	—	—	—	—
Centre For Distance & Open Learning (Ignou) Distance Education Council	—	—	14,41,886.00	20,61,896.00	—	6,20,010.00
Sub Schdule Total :	0.00	0.00	14,41,886.00	20,61,896.00	0.00	6,20,010.00
Miscellaneous	—	—	—	—	—	—
Dr. Zakir Husain Centenary Celeb. : Archives & Portrait Gallery	—	14,931.00	5,250.00	25,000.00	—	34,681.00

Sd/- (Aayatullah) (Zafarullah Khan) Dy. Finance Officer
 Asstt. Registrar(A/Cs)
 Sd/- (Prof. Shahid Ashraf) Finance Officer
 Sd/- (Prof. S. M. Sajid) Registrar

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCES AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE PERIOD		CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2011	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
M.P. Mahila Vitya Evam Vikas Nigam : "Swa-Shakti Project"	--	93,913.00		0.00	--	93,913.00
Unidcp-Drug Abuse Among Rural Population - Dr. S.M. Sajid	--	13,048.00		0.00	--	13,048.00
Dr. Zakir Husain Institute Of Islamic Studies (Zhis)	--	6,14,376.00		0.00	--	6,78,241.00
Jammu & Kashmir Academy Of Art : Seminar On Towards Understanding	--	629.00		0.00	--	629.00
Finland : Asia Link Project Prof. M. Akhtar Siddiqui	--	35,200.00		0.00	--	35,200.00
"Preliminary Work For Developing Vocational Edu. In Jamia School" Ratan Tata Trust(Cjns)	--	2,08,562.00		0.00	--	2,08,562.00
Oil & Natural Gas Commission	--	19,101.00		0.00	--	19,101.00
Peacemaking And Peace Building In Europe And South Asia (Asia Link Programme), Prof. Radha Kumar	--	67,21,931.00	82,07,014.00	52,94,105.00	--	38,09,022.00
External Evaluation Of Continuing Education Programme	--	90,589.00		0.00	--	90,589.00
Bikaner, Dist. Rajasthan. (S.R.C)	--	2,63,698.00	10,20,122.00	8,88,683.00	--	1,32,259.00
Sir Ratan Tata Trust Grant For Media Resource Centre, Aik Mrcr	--	57,323.00		0.00	--	57,323.00
External Evaluation In Guntur(Andhra Pradesh)(S.R.C.) Zubair Menai	--	--		0.00	--	--
Z.S.S.Gorakhpur(U.P.)-Dr. N.U.Khan	6,298.00	--		0.00	--	--
One Day Workshop On "Communicating Peace"-Netherland	4,475.00	--		0.00	4,475.00	--
External Evaluation Of Plp Godda, Jharkhand, N.U.Khan	--	6,931.00	6,927.00	0.00	--	4.00
"Capacity Building Of Madarsa Teachers & Students" British High Commission: Prof. S.M. Sajid	--	4,269.00		0.00	--	4,269.00
The Global Fund-Round7: Hiv/Aids Prof. Anjali Gandhi(Tata Institute Of Social Science)	--	14,59,152.00	38,90,139.00	28,90,477.00	--	4,59,490.00
International Seminar On "Contour Of Media Governance"(Idrc) (Centre For Culture & Media Governance)	47,491.00	--	5,000.00	53,680.00	--	1,189.00
Pilot Plant Design, Opt. Supervision.. Steel Industry- Prof. Sirajuddin Ahd. (Steel Authority Of India)	--	54,750.00	25,709.00	0.00	--	29,041.00
Two Days Conference On "Women Of South Asia. Partners...." Prof. Veena Sikri(South Asia Foundation)	--	73,528.00	16,500.00	0.00	--	57,028.00
Samajik Suvidha Kendra	--	79,601.00	1,81,534.00	4,35,750.00	--	3,33,817.00
Ssrc: Media Advocacy Project: Centre For Culture, Media & Governance	--	37,315.00	37,315.00	0.00	--	--
Z.S.S. Khushinagar(U.P.)-Dr. N.U.Khan	232.00	--		232.00	--	--
Ccmg- Media Ownership & Content Advocacy: The Case Of Broadcast News (Hivos)	--	6,94,931.00	6,09,940.00	0.00	--	84,991.00
International Seminar " Nicholas Roerich His Legacy" Lalit Kala Academy	--	9,768.00	10,000.00	232.00	--	--

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCES AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE PERIOD		CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2011	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
International Seminar "Nicholas Roerich His Legacy And Quest"(Steel Authority Of India)	--	275.00	0.00	0.00	--	275.00
Dynamics Of Regional Trade Agreements And Who: Development Countries Perspectives	--	45,566.00	46,183.00	617.00	--	--
Tech. Appr. Of Existing W/S & Distrib. Network For 148 Nos. Village...Mewat, Harayana	--	2,65,070.00	4,75,605.00	2,28,786.00	--	18,251.00
One Day Training On 'Feasibility & Design Of Rainwater Harvesting' Of M.C. G.Gauhar Mahmood	--	1,20,000.00	1,82,783.00	19,90,000.00	--	19,27,217.00
Unitar: Introduction To Peace Operations, 25-29 Jan 2010, Centre For Peace & Conflict Resolution	₹	14,11,362.00	13,25,394.00	0.00	--	85,988.00
Unitar: Understanding Conflict & Conflict Analysis 01-05 Feb 10, C. For Peace & Conflict Reso.	10,06,341.00	--	3,82,336.00	13,88,677.00	--	--
Conference: "Interface Between Chemistry & Biology" Dbt-Ctep	--	6,280.00	6,280.00	0.00	--	--
International Seminar On Abu Raihan Al-Beruni....Uzbekistan	--	--	0.00	0.00	--	--
Maintenance Grant To Learner Support Centre	--	1,25,000.00	1,25,000.00	0.00	--	--
Comprehensive Water Management Plan For Huda Pinjore	--	--	3,51,190.00	17,20,000.00	--	13,68,810.00
Harvana...Prof Gauhar Mahmood	--	--	4,06,317.00	11,83,600.00	--	7,77,283.00
Curatorship Programme - India Foundation For The Arts	--	--	5,32,470.00	11,05,248.00	--	5,72,778.00
Polymeric CitrateAt Tabuk University, Tabuk - Dr. Tokeer Ahmad	--	--	1,00,750.00	7,20,000.00	--	6,19,250.00
Comprehensive Water Manag. Plan(Escorts Ltd,Fardabad)Prof Gauhar Mahmood	--	--	1,79,49,758.00	1,79,95,250.00	4,475.00	1,15,12,229.00
Sub Schdule Total :	10,64,837.00	1,25,27,099.00				
United Nation Children's Fund (UNICEF)						
Advocacy Vth	892.00	--	0.00	0.00	892.00	--
Advocacy & Networking- Vii	1,40,579.00	--	6,89,611.00	7,12,649.00	1,17,541.00	--
Sub Schdule Total :	1,41,471.00	0.00	6,89,611.00	7,12,649.00	1,18,433.00	0.00
GAIL :						
Corporate Social Responsibility-Impact Study	--	20,840.00	0.00	0.00	--	20,840.00
Sub Schdule Total :	0.00	20,840.00	0.00	0.00	0.00	20,840.00
National Council for Promotion of Urdu Language						
Firaq Memorial Lecture	--	18,750.00	42,320.00	18,750.00	4,820.00	--
Seminar On Waheed Akhtar Hayat -O- Khidmat	12,369.00	--	0.00	12,369.00	--	--
National Conference On "Sahitya Key Patthan- Paatthan Ki Nae Deshayan"	17,500.00	--	0.00	17,500.00	--	--

Sd/-
(Ayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCES AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE PERIOD		CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2011	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Arabic Literature In India	24,120.00	--	0.00	25,000.00	--	880.00
International Seminar On Abu Raihan Al-Beruni	25,000.00	--	0.00	25,000.00	--	--
Sub Schdule Total :	78,989.00	18,750.00	42,320.00	98,619.00	4,820.00	880.00
National Commision for Women						
National Workshop On Technical And Socio. Muslim Women	--	6,017.00	0.00	0.00	--	6,017.00
Programme : "Public Hearing" (Sarojini Naidu Centre For Women'S Studies)	--	1,932.00	0.00	0.00	--	1,932.00
Legal Awareness Programme For Two Days At Madanpur Khaddar, Delhi (Asc)	1	15,000.00	0.00	0.00	--	15,000.00
Seminar On " Lessons From The Lives Of Ten Most Dynamic Woman----						
" Prof - Azizuddin Hussain	2,335.00	--	0.00	0.00	2,335.00	--
Sub Schdule Total :	2,335.00	22,949.00	0.00	0.00	2,335.00	22,949.00
I.A.S.S.I						
Seminar "Autonomy In Institutes Of Higher Learning" Noshad Ali Azad	--	1,117.00	1,117.00	0.00	--	--
Sub Schdule Total :	0.00	1,117.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00
National Archives of India						
Lamination Of Manuscript: Dr. Z. H. Library	--	358.00	0.00	0.00	--	358.00
Preservation Of Manuscript & Descriptive Listing: Z.H. Archives Cell	--	83,349.00	49,507.00	0.00	--	33,842.00
Sub Schdule Total :	0.00	83,707.00	49,507.00	0.00	0.00	34,200.00
Ed. CIL's Technical Support Group						
Sarv Shiksha Abhiyan (Monitoring)	--	3,66,050.00	3,66,050.00	15,94,675.00	--	15,94,675.00
Sub Schdule Total :	0.00	3,66,050.00	3,66,050.00	15,94,675.00	0.00	15,94,675.00
UNESCO: SRC: Training Manual on Techniques..Adult Population						
Workshop To Finalize The Documents:Teacher Education In India-Status And Trends(C.D.O.L)	--	57,809.00	0.00	0.00	--	57,809.00
Project Developing Material For "Disaster Management Education & Awareness"(Src)	--	51,253.00	0.00	0.00	--	51,253.00
Sub Schdule Total :	0.00	1,09,062.00	0.00	0.00	0.00	1,09,062.00

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCES AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE PERIOD		CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2011	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Nuclear Science Centre(Inter University Accelerator Centre)						
Studies On Ion Track Grafting....Nanocomposites-Sharif Ahmad	--	7,597.00	0.00	0.00	--	7,597.00
Sub Schdule Total :	0.00	7,597.00	0.00	0.00	0.00	7,597.00
National Human Rights Commission						
Feminization Of Povt. And Impact Of Glob. A Study On Women Const.	--	28,155.00	0.00	0.00	--	28,155.00
Labourers In Delhi, U.P. Hry.	3,050.00	--	0.00	3,050.00	--	--
Human Rights Education And Sensitization' In The Centre.	3,050.00	28,155.00	0.00	3,050.00	0.00	28,155.00
Sub Schdule Total :	4					
Embassy of USA						
Eng Language Teaching Prog At Sr.Sec School (Dr.Ameena Kazi Ansari)	--	1,781.00	1,781.00	0.00	--	--
English Language Teaching Program(Access-II : 2006-2008-Ameena Khazi)	--	5,91,331.00	6,86,239.00	94,908.00	--	--
English Language Teaching Program(Access-IV : 2009-2011)-Ameena Khazi	--	--	9,00,666.00	11,63,550.00	--	2,62,884.00
Sub Schdule Total :	0.00	5,93,112.00	15,88,686.00	12,58,458.00	0.00	2,62,884.00
Ministry of Water Resources Research & Development (R&D)						
Impact Of Presence Of Septic Tank On Ground Water : Dr. Gauhar Mahmood	--	1,707.00	0.00	0.00	--	1,707.00
Sub Schdule Total :	0.00	1,707.00	0.00	0.00	0.00	1,707.00
Ministry of Communication & Information Technology (DIT)						
Project "Development Of Security Assessment Framework For Object Oriented Software"--S.I.Ahsan	--	5,927.00	5,500.00	0.00	--	427.00
"Raman And Photoluminescence Investigation Of Nanostructured..Biological Species"S.S.Islam	--	58,921.00	8,60,921.00	8,02,000.00	--	--
Development Of Carbon Nanotubes Based Gas Sensor, Prof. S.S.Islam	--	--	26,59,238.00	4,32,03,014.00	--	4,05,43,776.00
Growth Of Single Wall Carbon Nanotubes For Semiconducting Applications, Prof. Mushahid Husain	--	--	7,23,522.00	2,98,18,342.00	--	2,90,94,820.00
Sub Schdule Total :	0.00	64,848.00	42,49,181.00	7,38,23,356.00	0.00	6,96,39,023.00

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCES AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE PERIOD		CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2011	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Delhi Kalyan Samiti (DKS)						
Markaze-E-Niswan	--	2,61,178.00		0.00	--	2,61,178.00
Sub Schedule Total :	0.00	2,61,178.00		0.00	0.00	2,61,178.00
Save the Children Sweden, Nepal						
P.G. Diploma In Child Rights Programme(Save The Childrensweden Nepal)	--	650.00		0.00	--	650.00
Sub Schedule Total :	0.00	650.00		0.00	0.00	650.00
Urdu Academy Delhi						
Inter University Competition Programme, Delhi Urdu Academy	--	8,000.00		0.00	--	8,000.00
Firag Memorial Lecture (Urdu Academy)	--	--	10,000.00	10,000.00	--	--
Sub Schedule Total :	0.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00
Ministry of Minority Affairs						
Role Of Madarasa Education In Mainstreaming Muslims Into Educational System : S.M. Sajid	7,247.00	--		0.00	7,247.00	--
Prime Ministers 15 Points Program (Free Coaching & Allied Scheme) For Minorities	--	60,582.00	3,600.00	0.00	--	56,982.00
Sub Schedule Total :	7,247.00	60,582.00	3,600.00	0.00	7,247.00	56,982.00
Ministry of Tourism & Culture						
Munshi Premchand Archives	2,76,061.00	--		0.00	2,76,061.00	--
Capital Grant For Introduction Of Hospitality Courses In Tourism	--	9,54,688.00	79,86,254.00	90,00,000.00	--	19,68,414.00
Earn While You Learn' Common Wealth Games - 2010	--	7,61,475.00	4,16,943.00	1,28,304.00	--	4,72,836.00
Sub Schedule Total :	2,76,061.00	17,16,143.00	84,03,197.00	91,28,304.00	2,76,061.00	24,41,250.00
Association for Transport Development in India (ATDI)						
National Workshop On "Transport Policy" : Atws	--	12,543.00		0.00	--	12,543.00
Sub Schedule Total :	0.00	12,543.00		0.00	0.00	12,543.00
Ministry of Panchayati Raj						
Res. Project "Elected Women InResponsibilities"-Prof Hajira Kumar(Ministry Of Panchayati Raj)	5,627.00	--		0.00	--	--
Sub Schedule Total :	5,627.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCES AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE PERIOD		CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2011	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Ministry of Woman & Child Development						
Active Ageing & Civil Soc. Response Towards The Prob. Of Elderly Women: A Study In Nct Of Delhi	10,699.00	--	1,22,637.00	1,22,424.00	10,912.00	--
Sub Schedule Total :	10,699.00	0.00	1,22,637.00	1,22,424.00	10,912.00	0.00
Indian Council of Philosophical Research.						
Seminar "Global Congress On World Religios-Jan-09. Prof. Mushirul Hasan	--	12,065.00	0.00	0.00	--	12,065.00
Sub Schedule Total :	0.00	12,065.00	0.00	0.00	0.00	12,065.00
Ministry of Health & Family Welfare G.O.I.						
Emr Project Dr.Ejaz Hussain. Central Council For Research In Unani Medicine	--	9,04,821.00	8,61,940.00	0.00	--	42,881.00
Emr Project Dr.Tasneem Fatima, Central Council For Research In Unani Medicine (Ccrum)	--	1,01,111.00	2,41,930.00	11,00,000.00	--	9,59,181.00
Dr. Mohammad Hussain (Ccrum)	--	9,00,000.00	7,78,642.00	0.00	--	1,21,358.00
Prof. Syed Akhtar Hussain (Ccrum, Emr)	--	13,00,000.00	9,74,023.00	6,50,000.00	--	9,75,977.00
Sub Schedule Total :	0.00	32,05,932.00	28,56,535.00	17,50,000.00	0.00	20,99,397.00
Bal Raksha ,Bharat,Save The Children						
Centre For Early Childhood Development & Research	--	36,66,050.00	7,02,484.00	0.00	--	29,63,566.00
Sub Schedule Total :	0.00	36,66,050.00	7,02,484.00	0.00	0.00	29,63,566.00
Schedule Total :	29,64,017.00	21,43,44,807.00	16,81,64,208.00	11,84,91,381.00	15,73,551.00	16,32,82,014.00
Grand Total :	19,277,942.00	251,182,644.00	233,394,463.00	187,189,989.00	22,875,414.00	208,575,642.00

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

ANNEXURE(III): SCHEDULE:3(V)(C)

CURRENT LIABILITIES-OTHER LIABILITIES-RECEIPTS
AGAINST ONGOING SPONSORED FELLOWSHIPS & SCHOLARSHIPS

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCES AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE PERIOD		CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2011	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
University Grants Commission						
Jr./Sr. Research Fellowship	--	40,75,283.00	1,36,59,557.00	0.00	95,84,274.00	--
Nurjahan Begum	--	24,383.00	0.00	0.00	--	24,383.00
Rajiv Gandhi National Fellowship For St Candidates To Pursue M.Phil/Ph.D	--	27,21,473.00	33,43,296.00	78,50,000.00	--	72,28,177.00
Rajiv Gandhi National Fellowship For Sc Candidates To Pursue M.Phil/Ph.D	--	10,37,939.00	80,92,169.00	1,64,50,000.00	--	93,95,770.00
Post Doctoral Fellowship For Sc/St Candidates(Amar Prakash)	--	35,301.00	2,84,862.00	3,01,662.00	--	52,101.00
P.G. Scholarship For Professional Courses For Sc/St Candidates	--	7,46,836.00	9,92,513.00	6,10,000.00	--	3,64,323.00
Indira Gandhi Pg Scholarship For Single Girl Child (2006-08)	--	1,80,000.00	1,80,000.00	0.00	--	--
Pg Merit Scholarship For University Rank Holder (2006-08), (2007-09)	--	40,000.00	40,000.00	0.00	--	--
Dr.D.S. Kothari Postdoctoral Fellowship-Mr.Somasri Sen	--	3,126.00	0.00	0.00	--	3,126.00
Prof. R. D. Singh Emeritus Fellow	--	75,137.00	3,14,872.00	2,90,000.00	--	50,265.00
Dr.D.S. Kothari Postdoctoral Fellowship-Dr. Hemwati Nandan	--	1,79,378.00	5,22,240.00	5,59,945.00	--	2,17,083.00
Dr.D.S. Kothari Postdoctoral Fellowship-Dr. Subhash Chandra Mohapatra	--	2,40,960.00	4,66,703.00	5,71,733.00	--	3,45,990.00
Dr. (Mrs.) Manjeet Rathee, Research Awardee, Deptt. Of English	--	9,25,000.00	10,49,181.00	0.00	1,24,181.00	--
Dr. D.S. Kothari Postdoctoral Fellowship-Dr. Amit Saxena D/O Physics	--	--	3,71,604.00	4,70,695.00	--	99,091.00
Maulana Azad National Fellowship For Minority Candidates	--	--	53,07,319.00	78,00,000.00	--	24,92,681.00
Post Doctoral Fellowship For Sc/St(Hemlata)	--	--	37,574.00	2,79,600.00	--	2,42,026.00
Hon. To Fellows Of Two Science Academies Of National Eminence (Prof. Faizan Ahmad)	3,45,000.00	--	1,80,000.00	0.00	5,25,000.00	--
Hon. To Fellows Of 2 Science Academies Of National Eminence(Prof. M.Sami)	30,000.00	--	1,80,000.00	0.00	2,10,000.00	--
Schedule Total :	3,75,000.00	1,02,84,816.00	3,50,21,890.00	3,51,83,635.00	1,04,43,455.00	2,05,15,016.00
Ministry of Science & Technology (D.S.T.)						
Inspire Fellowship Under 'Assured Opportunity For Research Career'	--	--	4,94,650.00	5,78,400.00	--	83,750.00
Schedule Total :	0.00	-	4,94,650.00	5,78,400.00	0.00	83,750.00

Sd/-
(Aayatullah)Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance OfficerSd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance OfficerSd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCES AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE PERIOD		CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2011	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
I.C.S.S.R.						
Ruchika Sodhi	--	20,000.00	20,000.00	0.00	--	--
Naseeb Ahmad	--	--	94,404.00	94,404.00	--	--
Bhaskar Kanungo	--	9,003.00	0.00	34,000.00	--	43,003.00
Pradosh Nath	7,663.00	--	0.00	7,663.00	--	--
Doctoral Fellowship To Ms. Polly Raizada	--	36,000.00	0.00	0.00	--	36,000.00
Senior Fellowship To Prof. I.S. Marwah	--	414.00	56,000.00	84,480.00	--	28,894.00
"Progressive Writer's Movement: With Spl. Ref. To The Urdu Literature" - Rakshanda Jalil	--	--	3,23,525.00	3,43,838.00	--	20,313.00
Doctoral Fellowship Awarded To Mr. Syed Abdul Samad	--	--	0.00	40,000.00	--	40,000.00
Schedule Total :	7,663.00	65,417.00	4,93,929.00	6,04,385.00	0.00	1,68,210.00
I.C.H.R.						
Mehdi Baqir	--	44,548.00	44,548.00	0.00	--	--
Dr. Amit Kumar Gupta	--	15,000.00	6,847.00	0.00	--	8,153.00
Schedule Total :	0.00	59,548.00	51,395.00	0.00	0.00	8,153.00
I.C.C.R.						
Mr. Dadang P. Jatomiko	--	--	3,870.00	3,870.00	--	--
Schedule Total :	0.00	--	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00
C.S.I.R.						
Ajit Kumar Shukla	--	20,000.00	20,000.00	0.00	--	--
Nareish Singh	--	56,400.00	0.00	0.00	--	56,400.00
Eram Sharmin	--	20,800.00	2,69,600.00	2,69,600.00	--	20,800.00
Fahmina Zafar	--	16,000.00	16,000.00	0.00	--	--
Afsar Raza Naqvi	--	62,467.00	1,56,217.00	96,267.00	--	2,517.00
Shubha Pandey	--	62,000.00	62,000.00	0.00	--	--
Mr. Safikur Rehman	--	--	2,36,639.00	2,38,400.00	--	1,761.00
Tabish Rehman	--	--	2,38,400.00	2,38,400.00	--	--
Sunil Hans	--	22,128.00	0.00	0.00	--	22,128.00
Shadma Parveen	--	1,19,200.00	0.00	0.00	--	1,19,200.00
Sarvat Zafar	--	19,502.00	19,502.00	0.00	--	--
Sweeta Shailey	--	15,643.00	2,53,997.00	2,38,357.00	--	3.00

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCES AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE PERIOD		CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2011	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
G.B.V.S. Lakshmi	--	14,000.00	14,000.00	0.00	--	--
Shagufta Nahid	--	98,000.00	2,07,317.00	2,29,406.00	--	1,20,089.00
Dr. Firdosa Nabl	--	20,800.00	20,800.00	0.00	--	--
Swati Dhyani	--	14,000.00	68,600.00	1,19,200.00	--	64,600.00
S. Ishraque Ahmad	--	18,377.00	1,27,400.00	1,19,023.00	--	10,000.00
Harish Chandra	--	18,200.00	2,16,866.00	2,38,400.00	--	39,734.00
Mir. Irfanullah	--	14,013.00	1,83,826.00	1,87,987.00	--	18,174.00
Vipul Shukla	--	15,600.00	1,87,200.00	2,07,200.00	--	35,600.00
Ms. Shikha Gupta, Jrf-Net	--	--	1,66,340.00	1,66,340.00	--	--
Ms. Sheeza Khan	--	--	2,07,132.00	2,07,132.00	--	--
Fahmina Zafar Sra	--	--	2,10,226.00	4,16,278.00	--	2,06,052.00
Arbab Das Gupta	--	--	1,91,374.00	2,12,213.00	--	20,839.00
Edwina Thomas	--	--	2,25,030.00	2,76,230.00	--	51,200.00
Dr. Samina Husain	--	--	2,48,800.00	2,69,600.00	--	20,800.00
Adam Abdullah Bahishti	--	--	2,20,200.00	2,38,400.00	--	18,200.00
Arif Tasleem Jan	--	--	2,20,200.00	2,38,400.00	--	18,200.00
Sunaina Zutshi	--	--	1,95,304.00	2,69,600.00	--	74,296.00
Zainul Abid C.K.V	--	--	72,800.00	2,38,400.00	--	1,65,600.00
Deewan Akram	--	--	78,310.00	1,88,000.00	--	1,09,690.00
Sumaiya Hasnain	--	--	1,74,000.00	1,88,000.00	--	14,000.00
Apama Ganguly	--	--	2,18,701.00	2,83,689.00	--	64,988.00
Deepak Kumar	--	--	3,98,800.00	4,14,400.00	--	15,600.00
Remaya Nair	--	--	1,35,639.00	1,55,400.00	--	19,761.00
Schedule Total :	0.00	6,27,130.00	52,61,220.00	59,44,322.00	0.00	13,10,232.00
Miscellaneous Agencies						
Directorate of Education						
Scholarships (Sc/St, Nct Of Delhi)	--	10,660.00	9,53,960.00	9,79,470.00	--	36,170.00
Sub Schedule Total :	0.00	10,660.00	9,53,960.00	9,79,470.00	0.00	36,170.00
All India Council For Technical Education						
Post Graduate Scholarship (Gate - M. Tech)	--	4,80,000.00	4,74,323.00	0.00	--	5,677.00
Sub Schedule Total :	0.00	4,80,000.00	4,74,323.00	0.00	0.00	5,677.00

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCES AS ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE PERIOD		CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2011	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Indian Council of Medical Research						
Salary For Abdul Malik (Srf) : Dr. S. Akhtar Husain	--	1,875.00		0.00	--	1,875.00
Jrf To Mohd. Wahid	--	3,774.00		3,774.00	--	--
Razdan Sarim Rahman	--	4,054.00		4,054.00	--	--
Shabeena Rahman	--	19,541.00		19,541.00	--	--
Ms. Ruchi Jain	--	5,000.00		0.00	--	5,000.00
Poonam Gupta	--	35,080.00		2,97,385.00	--	23,588.00
Dilshad Manzhar	--	23,960.00		2,63,949.00	--	42,611.00
Mr. Jitender Singh Verma, Srf	--	47,200.00		2,66,507.00	--	10,493.00
Mr. Abhijeet Mishra, Srf	--	24,003.00		2,80,000.00	--	20,803.00
Shazia Nafis	--	--		1,03,600.00	--	46,800.00
Sobia Zaidi	--	--		91,766.00	--	16,000.00
Aalva Amin	--	--		1,32,033.00	--	23,735.00
Mr. Shreaz Sheikh	--	--		0.00	--	1,18,000.00
Pooja Lenka	--	--		0.00	--	73,291.00
Sub Schdule Total :	0.00	1,64,487.00	14,62,609.00	16,80,318.00	0.00	3,82,196.00
Miscellaneous						
Miscellaneous Scholarship						
Harijan & Samal Kalvan. U.P	--	47,460.00		33,730.00	--	13,730.00
Govt. Of National Capital Territory Of Delhi (Sc/St)	--	4,200.00		27,945.00	--	4,200.00
Scholarships From Haryana - Sc/St & Others Faridabad/Chandigarh	--	5,010.00		45,790.00	--	8,850.00
Dir. For Dev. Of Tribals & S.C. Manipur- Scholarship	--	--		6,550.00	--	11,540.00
Directorate Of College Education Rajasthan	--	21,910.00		13,130.00	--	8,780.00
Merit Cum Means Scholarship (Jawahar Bhawan Trust)	--	--		90,000.00	--	--
N.C.E.R.T. Scholarship	--	--		6,000.00	--	6,000.00
Dir. Of Nagaland Education - Scholarship	--	14,055.00		45,465.00	--	4,620.00
Dir. Of Education, Allahabad- Scholarship	--	--		30,360.00	--	--
Dir. Of Welfare Of Tribes/B.C. Assam	--	13,960.00		82,580.00	--	7,960.00
Dy. Dir. Higher & Tech Edu. Maghalaya- Scholarship	--	--		0.00	--	4,275.00
Guru Hanikshan Education Society- Scholarship	--	1,200.00		1,200.00	--	6,000.00
Dir. Of Janjati Vikas U.P. - Scholarship	--	49,180.00		0.00	--	49,180.00

Sd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance Officer

Sd/-
(Aayatullah)
Asstt. Registrar(A/Cs)

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCES AS ON ON 01.04.2010		TRANSACTIONS DURING THE PERIOD		CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2011	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Distt. Officer Social Welfare Nct Of Delhi	--	1,87,340.00	1,53,330.00	79,585.00	--	1,13,595.00
Educational Concession To Lakshdeep Student	--	--	30,550.00	30,550.00	--	--
Directorate Of Higher Education Tripura—Thansanga Darlong M.A. Extension	--	--	910.00	910.00	--	--
Directorate Of Social Welfare, Gaya : Post Matric Sc Scholarship To Ms. M	--	--	19,155.00	19,155.00	--	--
Directorate Of Higher & Tech. Education Govt. Of Arunachal Pradesh	--	--	14,540.00	20,280.00	--	5,740.00
Post Matric Scholarship-Govt Of Jharkhand	--	15,360.00	1,02,800.00	1,19,050.00	--	31,610.00
Scholarship To Sc/St, Uterankhand, Dehradun	--	--	3,210.00	3,210.00	--	--
Dist. Welfare Officer, Bihar	--	63,975.00	1,30,370.00	86,570.00	--	20,175.00
Distt. Welfare Officer, Haryana.	2,24,970.00	--	81,970.00	3,06,940.00	--	--
Dir. Of Vidarbha Arawati	--	760.00	0.00	0.00	--	760.00
Shah U Baid Ullah (Ddt-Jrf) University Of Pune	--	15,602.00	2,49,238.00	2,51,836.00	--	18,200.00
Directorate Of Social Welfare (Up)Lucknow	--	1,78,180.00	1,66,445.00	2,11,870.00	--	2,23,605.00
Merit Cum Means Scholarship (Govt Of West Bengal)	--	17,210.00	1,50,230.00	1,47,920.00	--	14,900.00
Merit Cum Means Scholarship Bihar State Sunni Wakf Board	--	1,55,850.00	12,45,780.00	12,00,350.00	--	1,10,420.00
Bihar State Minorities Financial Corporation, Patna	--	13,150.00	6,69,920.00	9,34,055.00	--	2,77,285.00
Tauheedul Muslimeen Trust	--	20,000.00	30,000.00	10,000.00	--	--
Merit Cum Means Scholarship, Bhopal (Mp)	--	--	20,000.00	40,000.00	--	20,000.00
Amroha International Society Scholarship, Danish Idrees, Mohd. Asim Sidd	--	--	4,010.00	8,420.00	--	4,410.00
Merit Cum Means Scholarship, Muradabad, U.P	--	--	43,760.00	43,760.00	--	--
Merit Cum Means Scholarship, Minority Welfare, Sultanpur, Up)	--	--	7,260.00	39,570.00	--	32,310.00
Merit Cum Means Scholarship, Directorate Social Welfare, Utrakhhand-Nair	--	--	4,000.00	4,000.00	--	--
Merit Cum Means Scholarship, District Minority Welfare Officer Kanpur, Up	--	--	26,920.00	26,920.00	--	--
Merit Cum Means Scholarship, District Minority Welfare Office, Raibareilly)	--	--	15,510.00	15,510.00	--	--
Merit Cum Means Scholarship, District Minority Welfare Officer Ghaziabad,	--	--	67,010.00	67,010.00	--	--
Merit Cum Means Scholarship, Minority Welfare, Faizabad, Up	--	--	0.00	28,695.00	--	28,695.00
Merit Cum Means Scholarship, Minority Welfare, Mau	--	--	0.00	11,040.00	--	11,040.00
Sub Schdule Total :	2,24,970.00	8,24,402.00	36,19,668.00	40,58,116.00	0.00	10,37,880.00
Schdule Total :	2,24,970.00	14,79,549.00	65,10,560.00	67,17,904.00	0.00	14,61,923.00
Grand Total :	607,633.00	12,516,460.00	47,837,514.00	49,032,516.00	10,443,456.00	23,547,284.00

Sd/-
(Aayatullah)

Asstt. Registrar(A/Cs)

Sd/-
(Zafarullah Khan)
Dy. Finance OfficerSd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance OfficerSd/-
(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Jamia Millia Islamia for the year ended 31 March 2011

We have audited the attached Balance Sheet of Jamia Millia Islamia as at 31 March 2011 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 28 of the Jamia Millia Islamia Act, 1988. These financial statements are the responsibility of the University's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4 Based on our audit, we report that:

i We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
ii The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Government of India, Ministry of Finance;

iii In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Jamia Millia Islamia in so far as it appears from our examination of such books.

iv We further report that:

A. Balance Sheet

A.I Assets

A.I.I Fixed Assets (Sch. 4)

(i) Assets created out of Sponsored Projects worth Rs. 1462.24 lakh during the year were merged with the University's assets, though these cannot be treated as part of the University's assets till the projects are completed and the assets are handed over to the University by the respective Sponsoring Authorities. Further, as per Sl. No. 9 of the Significant Accounting Policies (Sch.19) the University had itself declared that amounts received for projects from the Sponsors are being treated as liability, so the merger of assets created out of such funds with the assets of the University is

incorrect. This has resulted in overstatement of Assets and Capital both by like amount.

- (ii) As per the accounting standard No.10, on sale of fixed assets, the assets are to be eliminated from the financial statements and any profit or loss arising on the sale of fixed assets is to be credited or charged to the I&E account. The University did not follow the above accounting standard and reduced the sale proceed of fixed assets amounting to Rs.2.12 lakh from the schedule of fixed assets instead of reducing the WDV of the sold assets without working out the profit and loss on sale of these assets.

A.1.2 Current Assets, Loan and Advances (Sch.7)

- (i) Accrued interest amounting to Rs.168.67 lakh (UDF Rs. 13.71 lakh, Earnmarked Rs.51.87 lakh, Deposit Rs.91.00 lakh, Revenue Rs.1.60 lakh, Hostel & Kitchen Rs.1.47 lakh and Plan Rs.9.02 lakh) has not been taken into account resulting in understatement of current assets and overstatement of deficit by like amount.
- (ii) Subscription of Rs.83.82 lakh for National/International Journals/Periodicals capitalized during the year includes advance subscription of Rs.62.90 lakh pertaining to the financial year 2011-12 resulting in understatement of current assets and overstatement of fixed assets by Rs.62.90 lakh.

Further depreciation @ 10% was also charged on these Journals/periodicals resulting in overstatement of depreciation by Rs. 6.30 lakh.

- (iii) The license fee amounting to Rs.18.41 lakh recoverable from MTNL for its Remote Sensing Unit at the University campus has not been taken into account resulting in understatement of current assets and overstatement of deficit by like amount.

- (iv) Advance payment of Rs.5.96 lakh for development of web portal has been shown as expenditure under 'Repair & Maintenance' resulting in understatement of current assets (advances) and overstatement of expenditure by like amount.

B. Income & Expenditure Account

B.1 Expenditure

B.1.1 Administrative Expenses (Sch. 16)

- (i) Prior period expenses of Rs.160.77 lakh had been accounted for during the current financial year resulting in overstatement of administrative expenditure and understatement of prior period expenses by like amount.
- (ii) No provisions were made for outstanding expenses of Rs. 79.27 lakh resulting in understatement of expenditure and provision by same amount.

C. Balance Sheet (GPF)

C.1 Assets

- C.1.1 Accrued interest of Rs.74.92 lakh on investment in Government Securities of Rs.40.31 crore had not been taken into account resulting in understatement of assets and interest reserve by like amount.

C.1.2 The accrued interest on RBI bonds was taken as Rs. 129.30 lakh instead of the correct figure of Rs. 134.07 lakh resulting in understatement of assets and interest reserve by Rs.4.77 lakh.

C.1.3 The accrued interest on FDs was shown excess by Rs. 41.16 lakh resulting in overstatement of accrued interest and interest reserve by Rs. 41.16 lakh.

D. Grants-in-aid

During the year 2010-11, Jamia Millia Islamia received grants of Rs. 22424.50 lakh (Plan: Rs. 7585.00 lakh, Non-Plan: Rs. 13513.50 lakh and others: Rs. 1326.00 lakh). It generated its own receipts of Rs. 1625.51 lakh (Plan: Rs. 132.08 lakh and Non-Plan: Rs. 1492.06 lakh and Others: 1.37 lakh). Out of the total funds available, it utilized Rs.21363.65 lakh (Plan: Rs. 4272.05 lakh, Non-Plan: Rs. 16113.43 lakh and others: Rs. 978.17 lakh) leaving a balance of Rs.3794.23 lakh (Plan: Rs.3445.03 lakh Others: Rs.349.20 lakh). The excess expenditure of Rs.1107.87 lakh under Non-Plan was met by JMI from its capital fund.


v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account /Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said financial statements, read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

a in so far as they relate to the Balance Sheet of the state of affairs of the Jamia Millia Islamia as at 31 March 2011; and

b in so far as they relate to the Income and Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the C &AG of India


Director General of Audit
Central Expenditure

Place: New Delhi
Dated: 8-11-2011

Annexure to Audit Report

1 Adequacy of internal audit system

- The University had set up its own internal audit department.
- Proper follow-up action was not taken to get the objections settled as paras for the period from April 2005 to March 2011 were lying outstanding.

2. Adequacy of internal control System Control Environment

- There were 10 disciplinary cases pending as on 1.8.11.

Monitoring

- The Management's response to statutory audit was effective as 80 paras pertaining to the period from 2000-01 to 2010-11 were outstanding as on 31.3.2011.

3. System of physical verification of Assets

- The physical verification of fixed assets (except vehicles) had conducted since As such the actual existence of fixed assets included in the accounts could not be verified.

- Assets Registers in respect of assets created out of Plan projects/ Earmarked /Endowment Fund are not being maintained by the University.

4. System of physical verification of inventory

- The physical verification of books and publications is conducted after every five years and the last physical verification was conducted during 20 10-11. The Report is under process and will be submitted to the authorities accordingly.
- The physical verification of stock of stationery and other had been conducted for the year 2010-11 and no discrepancy was found.

5. Regularity in payment of statutory dues

- No payment over six months in respect of statutory dues was outstanding as on 31.03.2011.

Comments on Audit observations on the
Annual Accounts for the year 2010-11

PARA NO.	Brief description of Observation	Comments
A.	Balance Sheet	
A.1	Assets	
A.1.1	Fixed Assets (Sch. 4)	
(i)	Assets worth ₹ 1462.24lakh created out of Sponsored Projects merged with University assets.	The merged assets are those for which there is no stipulation by the sponsor about the ownership of the assets. The treatment is in accordance with the Accounting Policy on Fixed Assets disclosed at Para 3.5 of Schedule 19 which says "Assets created out of Earmarked Funds and Sponsored Projects, where the ownership of such assets vests in the university, are setup by credit to Capital Fund and merged with the Fixed Assets of the University."
(ii)	University did not follow AS 10 on sale of fixed assets in the treatment of sale proceeds of ₹ 2.12 Lakh.	The Audit in its observation has incorrectly referred to Para No.9 of the Account Policy, as it deals with the accounting of the Sponsored Projects and not with the Fixed Assets created out of them. Noted for compliance.
A.1.2	Current Assets, Loan and Advances (Sch. 7)	
(i)	Accrued interest amounting to ₹ 168.67 Lakh not taken into account.	Noted for compliance.
(ii)	Subscription of Journals of ₹ 83.82 Lakh capitalized during the year included advance of ₹ 62.90 Lakh pertaining to the year 2011-2012.	Noted for compliance.
(iii)	The license fee amounting to ₹ 18.41 recoverable from MTNL not taken into account.	Noted for compliance.
(iv)	Advance payment of ₹ 5.96 Lakh for development of web portal shown as expenditure	This is a case of final payment hence rightly booked as expenditure in the accounts.

B.	Income & Expenditure Account	
B.1	Expenditure	
B.1.1	Administrative Expenses (Sch. 16)	
(i)	Prior period expenses of ₹ 160.77 Lakh accounted for during the current financial year.	Noted for compliance.
(ii)	No provisions made for outstanding expenses of ₹ 79.27 Lakh.	Noted for compliance.
C.	Balance Sheet (GPF)	4
C.1	Assets	
C.1.1	Accrued interest of ₹ 74.92 Lakh on Investment in Government Securities of ₹ 40.31 Crore not taken into account.	Noted for compliance.
C.1.2	Accrued interest on RBI bonds was taken as ₹129.30 Lakh instead of the correct figure of ₹ 134.07 Lakh.	Noted for compliance.
C.1.3	Accrued interest on FDs was shown in excess by ₹ 41.16 Lakh.	Noted for compliance.
D.	Grants-in-aid Excess expenditure of ₹ 1107.87 Lakh under Non-Plan was met by JMI from its Capital Fund.	The excess expenditure was caused by the provisions made during the year for Retirement Benefits and depreciation on Fixed Assets etc. for which no grant is received hence the capital fund is affected.

Sd/-
(Prof. Shahid Ashraf)
Finance Officer

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद, द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012